

# राष्ट्रीय नवीन मेल

रांची एवं डालटनगंज (मेदिनीनगर) से एक साथ प्रकाशित

www.rastriyanaveenmail.com

रांची

श्रावण शुक्ल पक्ष 08

विक्रम संवत् 2080

गुरुवार, 24 अगस्त 2023

वर्ष-24

अंक-201

पृष्ठ-12

मूल्य ₹ 2.00




## चांद पर 'चंद्रयान-3' की सफल लैंडिंग

ब्यूरो. चेन्नई

भारत के चंद्रमा लैंडर ने योजना के अनुसार, बुधवार शाम को सफलतापूर्वक चंद्रमा की धरती पर अपने चारों पैर आसानी से और सुरक्षित रूप से स्थापित कर दिए और यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। 40 दिनों से अधिक समय तक लगभग 3.84 लाख किमी की यात्रा करने के बाद लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा। लैंडिंग के साथ 600 करोड़ रुपये के चंद्रयान-3 मिशन का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो गया है। शेष भाग चंद्रमा रोवर है जो लैंडर से नीचे लुढ़क रहा है, चारों ओर घूम रहा है और प्रोग्राम किए गए प्रयोग कर रहा है। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान में एक प्रणोदन मॉड्यूल (वजन 2,148 किलोग्राम), एक लैंडर (1,723.89 किलोग्राम) और एक रोवर (26 किलोग्राम) शामिल है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अनुसार, चंद्रमा रोवर में लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए अफका पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (एपीएक्सएसए) और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (एलआईबीएस) है। अपनी ओर से, लैंडर भी अपने पेलोड के साथ उसे सॉपे गए कार्यों को



### देश के लिए ऐतिहासिक क्षण : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और उसकी टीम को बधाई दी। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग से लैंडिंग को लाइव देखा। वहां वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हैं। उन्होंने कहा: मैं इस उपलब्धि के लिए इसरो टीम और वैज्ञानिकों को दिल से बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा, चंद्रयान-3 का चंद्रमा पर उतरना हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं दक्षिण अफ्रीका में हूँ, लेकिन सभी भारतीयों की तरह, मैं भी चंद्रयान-3 की सफलता का जश्न मना रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आमतौर पर हम कहते हैं, चंद्रा मामा दूर के, लेकिन आने वाली पीढ़ी कहेगी चंद्रा मामा दूर (पर्यटन) के। हमारा मिशन उसी मानव-केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। यह सफलता मानवता की सफलता है। मुझे विश्वास है कि दुनिया के सभी देश ऐसी उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम हैं।

पूरा करेगा: तापीय चालकता और (आईएलएसए), प्लाज्मा घनत्व और तापमान को मापने के लिए चंद्रा का सतह थर्मोफिजिकल प्रयोग, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण (आईएलएसए), प्लाज्मा घनत्व और तापमान को मापने के लिए चंद्रा का सतह थर्मोफिजिकल प्रयोग, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण को चंद्र लेजर रेंजिंग >> शेष पृष्ठ 11 पर

### यह अद्भुत-अविस्मरणीय : सीएम हेमंत

भारत और इसरो की इस सफलता पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा 'अद्भुत!! अविस्मरणीय!! तिरंगे की आन-बान और शान चंद्रमा पर पहुंच गया। देश के हमारे महान वैज्ञानिकों को कड़ी मेहनत, दृढ़ता और लगन की बदौलत चंद्रयान-3 आज चंद्रमा पर उतर गया। अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में देश एक बार फिर पुरजोर तरीके से स्थापित हो गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर इसरो की पूरी टीम सहित समस्त देशवासियों को अनेक-अनेक बधाई और जोहार। जय विज्ञान! जय हिंद!'



### झारखंड के वैज्ञानिक सोहन यादव की अहम भूमिका

सोहन चंद्रयान-3 मिशन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वे बेटे हैं उस टुकड़े का, जिन्हें हर महीने मात्र तीन हजार रूपए की सैलरी मिलती थी। लेकिन इतनी कम सैलरी में भी वह अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर 2500 रूपए खर्च कर देते थे। हर माता पिता के जैसे ही उनकी भी इच्छा थी कि उनका बेटा एक दिन उनका नाम रोशन करेगा। बेटा भी अपनी मां से कहा करता था कि एक दिन पूरी दुनिया आपको मेरे काम से पहचानेगी। बेटे ने आखिर अपनी इस बात को सच कर दिखाया। आज पूरी दुनिया उनके काम से उनके माता-पिता को जानने लगी है। ये कहानी झारखंड के खुंटी जिले के एरन्डा के रहने वाले सोहन यादव की है। आज उनके परिवार के साथ ही पूरे देश को उनपर गर्व है। सोहन यादव साइंटिस्ट हैं और भारत की सबसे महत्वाकांक्षी चंद्रयान मिशन के टीम के सदस्य भी हैं। बुधवार को जब चंद्रयान चांद पर लैंडिंग कराने वाला है। तो पूरे देश के साथ ही सोहन यादव के परिजन भी इसकी प्रतीक्षा में हैं। अतिनक्सल प्रभावित जिले के तपकरा में उनके निवास स्थान पर उनके मम्मी-पापा, भैया और भाभी चंद्रयान-3 के सॉफ्ट लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

### कैसे हुई चंद्रयान-3 की लैंडिंग?

- विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू की। अगले स्टेज तक पहुंचने में उसे करीब 11.5 मिनट लगे। यानी 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक।
- 7.4 किमी की ऊंचाई पर पहुंचने तक इसकी गति 358 मीटर प्रति सेकेंड थी। अगला पड़ाव 6.8 किलोमीटर था।
- 6.8 किमी की ऊंचाई पर गति कम करके 336 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। अगला लेवल 800 मीटर था।
- 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजने लगे।
- 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकेंड थी। यानी 800 से 150 मीटर की ऊंचाई के बीच।
- 60 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकेंड थी। यानी 150 से 60 मीटर की ऊंचाई के बीच।
- 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकेंड थी।
- चंद्रमा की सतह पर उतरते समय यानी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकेंड थी।

### अहम किरदार

चंद्रयान-3 को सफल बनाने में एस सोमनाथ के अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरमुथुवेल, मिशन डायरेक्टर मोहना कुमार, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक एस शंकरन और लॉन्च ऑपरेशन बोर्ड प्रमुख ए राजराजन ने भी अहम किरदार निभाया।

### चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद अब क्या होगा?

योजना के अनुसार, कुछ देर बाद लैंडर विक्रम की बैलून से रोवर प्रज्ञान एक पैनल को रैप के रूप में इस्तेमाल करके चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। रोवर में पहिए और नेविगेशन कैमरे लगे हैं। यह चंद्रमा के परिवेश का इन-सीटू (यथास्थान) विश्लेषण करेगा और जानकारी लैंडर विक्रम के साथ साझा करेगा।

### चंद्रमा के बाद इसरो सूर्य और शुक्र मिशन के लिए तैयार

चंद्रमा पर चंद्रयान का सफल शॉट इसरो के अधिकारियों के लिए एक बुरस्ट शॉट की तरह है। वे अब सूर्य का रहस्य जानने और शुक्र पर पहुंचने के मिशन के लिए तैयार हो रहे हैं। भारत ने बुधवार को शाम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर को सफलतापूर्वक उतारा। आदित्य-एल1 अंतरिक्ष यान-सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष-आधारित भारतीय वैश्याल-श्रीहरिकोटा में भारत के रॉकेट शॉट पर है और प्रक्षेपण के लिए तैयार हो रही है। इसरो अगस्त के अंत या सितंबर की शुरूआत में सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए पीएसएलवी रॉकेट पर अपने कोरोनाग्राफी उपग्रह आदित्य-एल1 को भेजेगा। इसरो के अनुसार, अंतरिक्ष यान को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के पहले लैंग्रेंज बिंदु, एल1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। एल1 बिंदु के आसपास उपग्रह को बिना किसी ग्रहण/ग्रहण के लगातार सूर्य को देखने का प्रमुख लाभ है। आदित्य-एल1 उपग्रह-जिसका नाम सूर्य देव के नाम पर रखा गया है-को पीएसएलवी द्वारा ले जाया जाएगा। इसरो ने 2024 में शुक्र के लिए एक उड़ान-वीनस मिशन भी निर्धारित की है।

## NEWS इन ब्रीफ

### ट्रक और ऑटो की टक्कर में दो की मौत, कई जखमी

पलामू। रांची-मेदिनीनगर मुख्यमार्ग एनएच 75 पर रजदेवरा उत्कृष्ट मध्य विद्यालय के समीप बुधवार को 11.45 बजे ऑटो और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो पर सवार एक महिला तथा एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि कई लोग जखमी हैं। घायलों को मेदिनीनगर एमआरएमसीएच तथा एक अन्य युवक को तुवांगड़ा के नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हादसे में जान गंवाने वाली महिला तथा बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम मेदिनीनगर एमआरएमसीएच कराया और परिजनों को सौंप दिया है। सतबरवा थाने के एसआई बुद्ध उरांव के अनुसार मृतक की पहचान सतबरवा थाना क्षेत्र के हलमाड़ गांव के बुजुर्ग कंचलधारी सिंह तथा इसी गांव के अंतु सिंह की 35 वर्षीय पत्नी के रूप में हुई है।

### सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर 16 अक्टूबर तक रोक रांची।

झारखंड हाई कोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ धुवां थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आह्वान करने वाली याचिका मामले में राज्य सरकार की ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए फिर से समय की मांग की गई। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने बुधवार को निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक 16 अक्टूबर तक जारी रखी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं शिवानी जलुका ने पेरवी की। भाजपा के निर्धारित कार्यक्रम के तहत सचिवालय मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। इस मामले में धुवां थाना में कांड संख्या 107/2023 दर्ज किया गया था। इसमें सांसद निशिकांत दुबे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल, समीर उरांव सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

## बैठक : मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग की समीक्षा की सड़क निर्माण की हो मॉनिटरिंग : हेमंत सोरेन



### फॉरेस्ट क्लियरेंस से लंबित सड़क परियोजनाओं की ली जानकारी

### 15 हजार किलोमीटर बननी हैं ग्रामीण सड़कें

### नवीन मेल संवाददाता। रांची

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को पथ निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न सड़क

परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कों के नेटवर्क से विकास को गति मिलती है। ऐसे में अच्छी सड़कों के निर्माण पर सरकार का विशेष जोर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सड़कों का निर्माण तय समय पर पूरा हो, इसका पूरा ख्याल रखें। अगर सड़कों की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत मिलती >> शेष पृष्ठ 11 पर

### राज्य के लिए एमएसएमई सेक्टर अहम : सीएम


मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य के सामाजिक-आर्थिक परिपेक्ष्य में एमएसएमई सेक्टर काफी मायने रखता है। इस राज्य में इस सेक्टर के उद्योगों के विकास के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं। यह बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की भी क्षमता रखता है। सीएम बुधवार को उद्योग विभाग द्वारा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए मेक इन झारखंड पॉलिसी-2023 की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सीएम ने निदेश देते हुए कहा कि एमो बेस्ट इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष जोर है। ऐसे में इस पॉलिसी में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, ताकि इसका लाभ वहां के किसानों को मिल सके। इससे किसानों के उत्पादों का भी बेहतर सप्लाय होगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा मिले। इसके लिए जरूरी है कि इनके लिए विशेष रूप से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना हो, जहां बिजली-पानी-सड़क जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ज्यादा से ज्यादा युवाओं युवाओं को उद्योगों लगाने के लिए बढ़ावा मिले। इसके लिए कार्य योजना बनाकर उसे धरातल पर उतारें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति तथा महिलाएं उद्योग लगाने के प्रति आकर्षित हों, इसके लिए सर्विसेज सेक्टर से उन्हें जोड़ने की पहल की जाए। इसके तहत उन्हें होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, अस्पताल, लेबोरेटरी आदि खोलने के लिए जमीन के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं।

### हत्या मामले में तीन आरोपी दोषी करार

रांची। रांची के नेवरी इलाके में हुई नसीम अंसारी हत्याकांड मामले में बुधवार को तीन आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया है। इनमें मोहंदा अंसारी, सज्जू खान और मोखार अंसारी शामिल हैं। अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद तीनों को दोषी करार दिया है। इस संबंध में मृतक के भाई रजब अंसारी ने सदर्न थाना में कांड संख्या 260/2016 दर्ज कराई थी। मामले में कुल 27 से ज्यादा गवाह पेश किए। वहीं आरोपितों की ओर से अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दो गवाह पेश किये गए। मोहंदा अंसारी, सज्जू खान और मोखार अंसारी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

## टीएसपीसी के 3 नक्सली गिरफ्तार

नवीन मेल संवाददाता। पलामू पलामू में छतरपुर थाना पुलिस ने बुधवार को प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) के तीन सक्रिय समर्थकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से देसी कट्टा, गोली, मोबाइल, पल्सर बाइक और प्रचुर मात्रा में दैनिक उपयोग की वस्तु बरामद की गई है। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि टीएसपीसी के टॉप कमांडर नगीना और निशांत का दस्ता छतरपुर, नौडीहा बाजार, पाटन के इलाके में किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इसी सूचना के आलोक में पलामू पुलिस ने सच अभियान शुरू किया था।



सच अभियान में टीएसपीसी के नक्सली गोविंद यादव, शंभु परहिया और मोती साव को गिरफ्तार किया गया। गोविंद साव छतरपुर में बघमनवा, मोती साव छतरपुर के चेराई का रहने वाला है। गिरफ्तार

नक्सलियों में शंभु परहिया पहले भी जेल जा चुका है। गिरफ्तार तीनों नक्सली टीएसपीसी के टॉप कमांडर नगीना और निशांत के दस्ते के सदस्य हैं। पुलिस के वरीय अधिकारी ने बताया कि तीनों टीएसपीसी के लिए हथियार संगत अन्य सामग्री मुहैया कराते थे। गिरफ्तार तीनों नक्सली दस्ते में हथियार लेकर चलते थे और इलाके में अपने सूचना तंत्र को मजबूत करते थे। पुलिस की गतिविधि पर निगरानी रखते हैं और टॉप कमांडरों की जानकारी देते थे। तीनों नक्सलियों ने इलाके के ठेकेदार, मांस और डालकों की एक सूची तैयार की थी।

### 11वीं 12वीं में पढ़नी होंगी कम से कम 2 भाषाएं

## साल में दो बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं

एजेंसी। नई दिल्ली बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। छात्रों को इन परीक्षाओं में से अपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने की अनुमति होगी। बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब बोर्ड परीक्षाओं का उद्देश्य छात्रों में विषयों की समझ का मूल्यांकन करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई पद्धति से कोचिंग और याद रखने की आवश्यकता में कमी आएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसके अलावा, 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान



विषयों का चयन सीमित नहीं रहेगा। छात्रों को 11वीं और 12वीं कक्षा में अपनी पसंद के विषय चुनने की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कक्षा 11 और 12 के छात्रों को कम से कम दो

पुष्टि करते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने आगे की कार्रवाई के लिए ही इसे एनसीईआरटी को दिया है। गौरतलब है कि एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करती हैं। एनसीईआरटी ने करिकुलम पर दो समितियां बनाई हैं। इनमें राष्ट्रीय निरीक्षण समिति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक समिति बनाई हैं। शिक्षा मंत्री धर्मदेव प्रधान ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों समितियां 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार और मूल भारतीय सोच पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करेंगी। शिक्षा मंत्री

ने कहा कि कक्षा 3 से 12 तक के लिए भविष्य की शिक्षण और शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके लेकर पहली ओरिएंटेशन बैठक बुधवार को हुई। शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमें विश्वास है कि नई पाठ्यपुस्तकें सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। खासतौर पर जब दुनिया भारत से बहुत उम्मीद कर रही है, जब पीएम ने अमृत काल का सपना दिखाया है, ऐसे समय में नई पाठ्यपुस्तकें आवश्यकताओं की पूरा करेंगी। हाल ही में स्कूली पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक >> शेष पृष्ठ 11 पर

## शराब घोटाला : ईडी ने झारखंड-बंगाल में की बड़ी कार्रवाई 32 ठिकानों पर की छापेमारी

### एक साथ कई केस को जोड़ ईडी ने दर्ज किया ईसीआईआर

### आईएस की पत्नी की जमीन की ईडी ने मांगी जानकारी

नवीन मेल संवाददाता। रांची झारखंड में सिंडिकेट बनाकर शराब के ठेके हासिल करने से जुड़े मामले में ईडी ने बुधवार को झारखंड, बंगाल में शराब कारोबारी जोगेंद्र तिवारी व उनके सहयोगियों के यहां दृष्टि दी। जोगेंद्र के शराब सिंडिकेट में पक्ष, विपक्ष के नेताओं, आईपीएस अधिकारी के करीबी कारोबारियों की सल्लिपता के साथ ईडी को मिले हैं। बुधवार की सुबह सात बजे ईडी की टीम ने राज्य सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव के रागिनी विल्वा बरियातू स्थित आवास में भी छापेमारी की, रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव की वजह से मंत्री के आवास पर छापेमारी हुई। जहां ईडी को मंत्री के आवासीय कार्यालय से 30 लाख नकदी मिले। इस मामले में ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। जोगेंद्र तिवारी से भी ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने भाजपा से गिरिडीह से विधायक रहे निर्भय शाहबादी व उनके बेटे के शाहाबादी हाउस स्थित गिरिडीह के आवास पर भी छापेमारी की। ये दोनों भी शराब कारोबार में जोगेंद्र तिवारी के पार्टनर रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के पोता अभिषेक आनंद झा के देवघर स्थित आवास, भाजपा नेता अमर टेकरियाल के >> शेष पृष्ठ 11 पर



### कहां कहां पड़ा ईडी का छाप

- शराब कारोबारी जोगेंद्र तिवारी व अमरेंद्र तिवारी के इन ठिकानों पर छाप
- तिवारी के देवघर स्थित गोदाम जो हॉटल सिद्धार्थ के समीप है
- देवघर के बांजस टाउन स्थित तिवारी का आवास
- मंहर डेवलपमेंट, वसुंधरा गाँव, फ्लैट नंबर-902 ए
- मंसूर मंहर डेवलपमेंट के विजयपुर, दुमका ऑफिस
- मंसूर सारण अल्कोहल प्राइवेट लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूटरी रोड, दुमका
- दुमका मुफ्तसली में शराब गोदाम जो खाता नंबर 91 पर अवस्थित है
- मंसूर तिवारी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, एयरपोर्ट रोड, दुमका
- मंसूर सताल परगना बिस्वस प्राइवेट लिमिटेड के डी-2 हरजू हाउसिंग स्थित कार्यालय व जोगेंद्र तिवारी के आवास
- जोगेंद्र तिवारी के भाई अमरेंद्र तिवारी के बेकरबांध, कांशिकी राधिकी रोजेसी अपार्टमेंट स्थित फ्लैट नंबर 8
- अमरेंद्र व जोगेंद्र तिवारी के महिजान स्टेशन रोड स्थित दो अलग-अलग आवास
- मंशी रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव का आवास रागिनी विल्वा, बरियातू।
- नेकराजों के मालिक विजय कुमार सिंह का बलेश्वर अपार्टमेंट स्थित फ्लैट
- श्रवण जालान का जालान रोड, रांची उपर बाजार स्थित घर
- विकास कुमार अंबवाल, 95 केशी मार्ग, नीयर खजंची तालाब, बीडाम बाजार, हजारीबाग
- रीतेश कुमार शर्मा, आलाकिक हाईट्स एनएचपीटी के पार्टनर के तवाल अपार्टमेंट, बेकरबांध, धनबाद स्थित
- आवाल पर छाप
- उज्जेश्वर सिंह, चांदनी चौक, ओबियारा रोड, हटिया स्थित आवास
- गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी व उनके बेटे नवल शाहबादी का गिरिडीह स्थित का शाहाबादी हाउस, डॉक्टर लेब मटकरपुर, गिरिडीह
- गोड्डा में पूर्व विधायक मनोहर टेकरियाल के भाई अमर टेकरियाल का आवास, हाउस नंबर 169, जमुआ थाना नंबर-516
- बरजाली राय, सुकता पाली बोरल, राजपुर, 24 परगना, बंगाल
- कनीश डालमिया व विजय डालमिया (निदेशक मंसूर मशीन को प्राइवेट लिमिटेड) के डालमिया हाउस, 392, ब्लॉक जी, व्द अलीपुर, कालकाता आवास
- हरिकृष्ण-अनिल चौधरी (निदेशक विक्रम फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड) के अलीपुर कोसकता स्थित आवास
- रतिविक्रम शर्मा, टाटा चौक, भागलपुर रोड, दुमका
- पारनाथ मिश्रा, दंगल पाडा, हिजला रोड, दुमका
- पद्म शर्मा, कुमहार पाडा, दुमका
- अनिल कुमार सिंह, कुमहार पाडा, दुमका
- आरती राय चौधरी, राय बंगला निवासी, कार्टिस्ट टाउन, देवघर
- अजय केशरी, 14 राज नंदिर रोड, देवघर
- विवेक मिश्रा, राय बंगाल आश्रम, केरल रोड, देवघर
- माजपा नेता अभिषेक झा, बीएस झा पंच, देवघर टाउन
- कांवेस नेता मुन्गम सहाय, हाउस नंबर 21, वाई नंबर 7, रामेश्वर दयाल रोड, बारकिया

## राज्य में एक बार फिर मानसून की वापसी

नवीन मेल संवाददाता। रांची राज्य में पिछले कुछ दिनों से मानसून कमजोर नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में मानसून के टर्फ का असर राज्य में नजर आयेगा। झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में मौसम का असर साफ नजर आ रहा है। राज्य के सभी स्थानों में हल्के और मध्यम दर्जे के बारिश होने की संभावना है। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बुधवार को बताया कि 24 अगस्त को राज्य के पूर्वी भाग सताल कोल्हान सहित कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। आने वाले तीन से चार दिनों में बारिश की अच्छी संभावना है। इसी तरह 25 अगस्त को भी राज्य में स्थिति एक बार फिर सामान्य हो सकती है। उन्होंने सताल और राज्य के उत्तर पूर्वी इलाके में वज्रपात की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने जोगेंद्र से अलर्ट रहने के लिए कहा है। राज्य में अभी भी 38 प्रतिशत कम बारिश हुई है। 27 अगस्त को राज्य में कुछ स्थानों पर गजब के साथ बारिश की संभावना जाहिर की गयी है। मौसम विभाग ने 25 अगस्त तक बारिश को लेकर येल्डो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है।



उपायुक्त ने की पहाड़ी मंदिर विकास समिति के साथ बैठक

## मंदिर के विस्तार व सौंदर्यीकरण पर हुई चर्चा

नवीन मेल संवाददाता। रांची उपायुक्त सह अध्यक्ष पहाड़ी मंदिर विकास समिति राहुल कुमार सिन्हा द्वारा बुधवार को समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित अपने कार्यालय कक्ष में रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पहाड़ी मंदिर विकास समिति के संस्थापक-दया शंकर शर्मा, सदस्य, सुशील लाल, सुनील माथुर, मदनपाल पारिख, आनंद गाड़िया, मुकेश अग्रवाल, अनुज गाड़िया, अजय गोयनका, ललित पोद्दार, बिपिन कुमार एवं संबंधित सभी पदाधिकारी शामिल हुए। उपायुक्त सह अध्यक्ष पहाड़ी मंदिर विकास समिति रांची राहुल कुमार सिन्हा द्वारा पहाड़ी मंदिर (मुख्य) मंदिर के विस्तार पर चर्चा करते हुए पहले के बनें सारे डीज़ाईन/आर्किटेक्चर अवलोकन करते हुए पहाड़ी मंदिर के सदस्यों से

उनकी राय लेते हुए कहा कि मंदिर विस्तार के लिए एलडुएन/डुटीडु, बीआईटी मेसरा एवं बिल्डिंग कॉन्फ़िडेंस डिपार्टमेंट से भी राय लेने को कहा ताकि मंदिर को बिना नुकसान पहुंचाते हुए मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कराया जा सके। ताकि भक्तों को दर्शन और पूजन के लिए सहूलियत हो। साथ ही उपायुक्त रांची, द्वारा पहाड़ी मंदिर के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया ताकि पहाड़ी मंदिर खूबसूरत बनावे की दिशा में बेहतर प्रयास हो सके। उपायुक्त रांची, द्वारा रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सदस्यों से चर्चा करते हुए मंदिर विस्तार का निर्माण मंदिर विकास मद से कराने को कहा। जिसपर मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा मंदिर विस्तार मंदिर के लिए पर्याप्त राशि होने की बात कही गई।

## एसआईएस सिक्वोरिटी गार्ड पंजीकरण के लिए लगा कैंप



सिल्ली। सिल्ली थाना परिसर में बुधवार को थाना में एस आईएस के पतरास भेगरा के द्वारा सिक्वोरिटी गार्ड का पंजीकृत कराया गया। सिक्वोरिटी गार्ड का चयन में सिक्वोरिटी गार्ड के लिए आठ युवकों को और सुपरवाइजर के लिए एक युवक का चयन किया गया। एस आईएस के पतरास भेगरा ने बताया कि सफल उम्मीदवारों का ट्रेनिंग जमशेदपुर गम्हरिया तथा गढ़वा में प्रशिक्षण युनिट के लिए भेजा जाएगा। गम्हरिया में 45 दिन और गढ़वा में 15 दि प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद देश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में पदस्थापना किया जाएगा।

## सिल्ली में रेल ठेका की तैयारी जोरों पर



सिल्ली। टोटैमिक कुरमी/कुड़मी विकास मोर्चा के केंद्रीय पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्यों द्वारा सिल्ली क्षेत्र में युद्ध स्तर में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। आगामी 20 सितंबर को मुरी रेलवे स्टेशन में रेल ठेका को सफल बनाने हेतु प्रखंड के टूटकी, नावाडीह, डोमनडीह, मैसुडीह आदि गांवों में लोगों से डोर टू डोर मिलकर रेल ठेका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गहन जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस मौके पर शिशुपाल महतो, रमेश महतो, टेलु महतो, राकेश महतो शशि रंजन महतो समेत कई लोग उपस्थित थे।

## रांची पुरुलिया मार्ग पर ट्रक पलटा



सिल्ली। रांची पुरुलिया मार्ग पर रांची की ओर से मुरी हिंडालको जा रहा एक 407 ट्रक बुधवार को किता के पास पलट गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इस ट्रक पर हिंडालको के लिए कुछ सामान लोड है। चालक ने बताया कि आगे आगे एक स्विफ्ट कार जा रही थी जो अचानक ब्रेक लगा दिया, उसे बचाने के क्रम में ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर आकर पलट गया। किसी की भी चीट नहीं लगी है। समाचार लिखे जाने तक ट्रक को उठाने का प्रयास किया जा रहा था।

## रातू कृषक उच्च विद्यालय की छात्राओं के साथ मारपीट, एक छात्रा ने खाई जहर

रातू। थाना क्षेत्र के कृषक उच्च विद्यालय गडरी गुडु की छात्रा साक्षी कुमारी ने बुधवार की सुबह कीटनाशक दवा खा ली। छात्रा 10 वीं क्लास में पढ़ती है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को विद्यालय के तीन छात्रा 16 वर्षीय साक्षी कुमारी, 11 वर्षीय रिया कुमारी व 15 वर्षीय अशिता कुमारी स्कूल के लिए निकली थी। परन्तु स्कूल न जाकर वह कहीं घूमने चली गयी। जब छात्राएं स्कूल पहुंची तो उससे स्कूल में अनुपस्थिति का कारण पूछा गया। घूमने जाने की जानकारी मिलने पर छात्राओं के साथ मारपीट की गई। स्कूल से घर वापस लौटने के उपरांत बुधवार की सुबह एक छात्रा साक्षी कुमारी ने अपमानित होकर घर में रखे कीटनाशक दवा खा ली। कीटनाशक दवा खाने की जानकारी मिलते ही परिजन साक्षी को लेकर कटहल मोड़ स्थित रिंची अस्पताल पहुंचे। जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक छात्रा की स्थिति खतरे से बाहर है। मामले को लेकर मृतक व घायल छात्राओं के परिजनों ने रातू थाने में स्कूल के प्रधानाध्यापिका सीमा कुमारी, शिक्षिका श्वेता कुमारी, शिक्षक निरंजन महतो व सचिव अशोक महतो के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है।

## अपहरण का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, महिला भी बरामद

रातू। पुलिस ने थाना कांड संख्या 328/23 के आरोपी सूरज कुमार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक रातू थाना क्षेत्र के तिगरा टिकरा टोली निवासी रामजय महतो के 21 वर्षीय पुत्र सूरज महतो ने 10 अगस्त को पाली निवासी अमित महतो की पत्नी का अपहरण कर लिया था। महिला दो बच्ची की मां भी है। मामले को लेकर अमित महतो ने सूरज महतो के खिलाफ रातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। पुलिस ने भादवी की धारा 363/37 के तहत कांड संख्या 328/23 दर्ज कर 22 अगस्त को रांची हरमू के एक घर में छापेमारी कर सूरज को गिरफ्तार कर लिया वही महिला को भी बरामद कर लिया। पुलिस बुधवार को उसे जेल भेज दिया। छापेमारी दल में एसआई अमरनाथ सोनी, संवच सिंह, एसआई चमरा मिंज आदि शामिल थे।



## बीएयू के कुलपति ने चंद्रयान 3 की सफलता पर देशवासियों को दी बधाई

रांची। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आंकार नाथ सिंह ने चंद्रयान 3 की सफलता पर पूरे देशवासियों और विवि परिवार को बधाई दी है। उन्होंने इस सफलता के लिए इसरो सहित देश के सभी वैज्ञानिकों के लिए बेहद उत्साहवर्धक एवं बेहद गौरव का पल बताया। कहा कि इस सफलता से भारतीय वैज्ञानिकों को वैश्विक स्तर पर उकृष्ट योगदान देने की प्रेरणा मिलेगी। विवि के कृषि संकाय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अधीन चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग का लाइव प्रसारण किया गया।

## चंद्रयान-3 की सफलता पर झूम उठे खूटी के लोग

खूटी। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग होते ही खूटी का पूरा इलाका झूम उठा। भारतीय वैज्ञानिकों की इस सफलता पर लोगों ने जमकर आतिवाजाजी और एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर भारत के विश्व विजेता बनने की कामना की।

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग (जिला भू-अर्जन थारवा)										
प्रपत्र-VI समाहर्ता या समुचित सरकार प्रारंभिक अधिसूचना (अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)										
अधिसूचना सं०-818 / भू03अ0, हजारीबाग। दिनांक-19.08.2023					चुंकि समाहर्ता/समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-बलोदर, थाना-सं०-145, थाना-बड़कागाँव, अंचल-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा अडानी इन्टरप्राइजेज लि०, गोन्दुलपारा कोयला खान परियोजना भू अर्जन अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस० आई० ए० ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार-संक्षेप यथा निम्न है- हजारीबाग जिला के बड़कागाँव अंचल अन्तर्गत अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित परियोजना गोन्दुलपारा कोयला खान में रैयती भूमि की मात्रा न्यूनतम है और इसे टाला नहीं जा सकता क्योंकि इस गोन्दुलपुरा कोल ब्लॉक का समाहर्ता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशांक (Co-ordinates) के कारण पूर्व निश्चित है एवं प्रस्तावित गोन्दुलपुरा कोल ब्लॉक का आवंटन अदाणी इन्टरप्राइजेज लि० को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं० NA-104/10/2020-NA, दिनांक 08.03.2021 द्वारा किया गया है। अतः अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा है। प्रस्तावित परियोजना कोयला खनिज धारित क्षेत्र है जिसका अन्वेषण केन्द्रिय संस्था, सी०एम०पी०डी०आई० के द्वारा किया गया है। जिससे दूसरे जगह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तावित विस्थापन को कम नहीं किया जा सकता है। समाजिक समाघात अध्ययन के समस्त पहलुओं पर विचार के उपरांत पाया गया कि यह परियोजना लोकप्रयोजनार्थ है एवं सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करती है। प्रस्तावित परियोजना का परिचालन लम्बी अवधि के लिए होगा। परियोजना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग अधिकांश व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रारंभिक चरण में प्रस्तावित विकास का परिचालन चरण एक से दूसरे अवसर को जन्म देगा। जिससे अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों की संख्या में गुणोत्तर वृद्धि होगी। विकास योजना में खनन से संबंधित कौशल (जैसे ड्राईविंग, तकनीकी कौशल व बुनियादी प्रबंधन कौशल) वयस्क बुनियादी शिक्षा व प्रशिक्षण और सामान्य जीवन कौशल का विकास शामिल होंगे। सामुदायिक विकास परियोजनाओं को और अधिक सुदृढ़ कर समाजिक स्थिति को संतुलित किया जा सकता है। परियोजना की सामाजिक लागत एवं प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव की तुलना में संभावित लाभ अधिक है।					
क्र० सं०	खारा सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वागित्वा का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हिताब्द व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (मूखण्ड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
294	24	524/2	नीज	टांड-11	0.0125	किशुन महतो पेशरान महादेव महतो	प्लॉट-525	प्लॉट-523	प्लॉट-523	प्लॉट-514
295	5	525	नीज	परती	0.2400	देवाली महतो, अघनु महतो, बाबुलाल महतो, बुद्धिनाथ महतो सुरेश महतो पिता स्व० बंसु महतो वो बिन्देश्वर महतो घनश्याम महतो पिता स्व० केवाली महतो।	प्लॉट-528	प्लॉट-524	प्लॉट-526	प्लॉट-513
296	5	526	नीज	टांड-11	0.3800	देवाली महतो, अघनु महतो, बाबुलाल महतो, बुद्धिनाथ महतो सुरेश महतो पिता स्व० बंसु महतो वो बिन्देश्वर महतो घनश्याम महतो पिता स्व० केवाली महतो।	प्लॉट-527	प्लॉट-523	प्लॉट-550	प्लॉट-525
297	5	527	नीज	टांड-11	0.3400	ठाकुरी गंडु, कजरु गंडु कुलेश्वर गंडु पिता स्व० चमन गंडु वो कमल गंडु, जीवन गंडु जानकी गंडु पिता स्व० किशुन गंडु वो देवा गंडु, पैरु गंडु, बोधी गंडु, मो० चरकी पिता स्व० घनश्याम गंडु वो दशमी भुईन पिता स्व० रुशन गंडु वो तिलक गंडु, पारसनाथ गंडु, परमेश्वर गंडु, जगदेव गंडु, खेमलाल गंडु पिता स्व० रामसहाय गंडु वो भुनेश्वर गंडु पिता स्व० सोना गंडु वो बुधन गंडु पिता स्व० अलखु गंडु वो कोमल गंडु पिता कोइली गंडु वो छेदी गंडु पिता स्व० दीना गंडु।	प्लॉट-530	प्लॉट-526	प्लॉट-545	प्लॉट-528
298	5	528	नीज	टांड-11	0.0800	ठाकुरी गंडु, कजरु गंडु कुलेश्वर गंडु पिता स्व० चमन गंडु वो कमल गंडु, जीवन गंडु जानकी गंडु पिता स्व० किशुन गंडु वो देवा गंडु, पैरु गंडु, बोधी गंडु, मो० चरकी पिता स्व० घनश्याम गंडु वो दशमी भुईन पिता स्व० रुशन गंडु वो तिलक गंडु, पारसनाथ गंडु, परमेश्वर गंडु, जगदेव गंडु, खेमलाल गंडु पिता स्व० रामसहाय गंडु वो भुनेश्वर गंडु पिता स्व० सोना गंडु वो बुधन गंडु पिता स्व० अलखु गंडु वो कोमल गंडु पिता कोइली गंडु वो छेदी गंडु पिता स्व० दीना गंडु।	प्लॉट-529	प्लॉट-525	प्लॉट-527	प्लॉट-512
299	5	529	नीज	धान-111	0.0267	देवन्ती देवी पति ग्यादत सिंह जाति भूमिहार एवं विभा देवी पति अशोक कुमार सिंह जाति भूमिहार सा० अम्बाजीत।	प्लॉट-531	प्लॉट-528	प्लॉट-527	प्लॉट-512
300	5	529/I	नीज	धान-111	0.0267	कुन्ती देवी पति रामलखन सिंह जाति भूमिहार सा० अम्बाजीत।	प्लॉट-531	प्लॉट-528	प्लॉट-527	प्लॉट-512
301	5	529/II	नीज	धान-111	0.0266	हरिनारायण सिंह पिता स्व० पाठक धनेश्वर सिंह एवं श्री पाठक भानुप्रताप सिंह वो श्री माधो प्रताप सिंह वो श्री शिवनारायण सिंह पिता स्व० पाठक धनेश्वर सिंह जाति भूमिहार सा० अम्बाजीत।	प्लॉट-531	प्लॉट-528	प्लॉट-527	प्लॉट-512
302	5	530	नीज	धान-11	0.1334	देवन्ती देवी पति ग्यादत सिंह जाति भूमिहार एवं विभा देवी पति अशोक कुमार सिंह जाति भूमिहार सा० अम्बाजीत।	प्लॉट-531	प्लॉट-527	प्लॉट-543	प्लॉट-529
303	5	530/I	नीज	धान-11	0.1333	कुन्ती देवी पति रामलखन सिंह जाति भूमिहार सा० अम्बाजीत।	प्लॉट-531	प्लॉट-527	प्लॉट-543	प्लॉट-529
304	5	530/II	नीज	धान-11	0.1333	हरिनारायण सिंह पिता स्व० पाठक धनेश्वर सिंह एवं श्री पाठक भानुप्रताप सिंह वो श्री माधो प्रताप सिंह वो श्री शिवनारायण सिंह पिता स्व० पाठक धनेश्वर सिंह जाति भूमिहार सा० अम्बाजीत।	प्लॉट-531	प्लॉट-527	प्लॉट-543	प्लॉट-529
305	5	531	नीज	धान-11	0.5600	ठाकुरी गंडु, कजरु गंडु कुलेश्वर गंडु पिता स्व० चमन गंडु वो कमल गंडु, जीवन गंडु जानकी गंडु पिता स्व० किशुन गंडु वो देवा गंडु, पैरु गंडु, बोधी गंडु, मो० चरकी पिता स्व० घनश्याम गंडु वो दशमी भुईन पिता स्व० रुशन गंडु वो तिलक गंडु, पारसनाथ गंडु, परमेश्वर गंडु, जगदेव गंडु, खेमलाल गंडु पिता स्व० रामसहाय गंडु वो भुनेश्वर गंडु पिता स्व० सोना गंडु वो बुधन गंडु पिता स्व० अलखु गंडु वो कोमल गंडु पिता कोइली गंडु वो छेदी गंडु पिता स्व० दीना गंडु।	प्लॉट-173	प्लॉट-530	प्लॉट-543	प्लॉट-512
306	5	536	नीज	टांड-111	0.6400	ठाकुरी गंडु, कजरु गंडु कुलेश्वर गंडु पिता स्व० चमन गंडु वो कमल गंडु, जीवन गंडु जानकी गंडु पिता स्व० किशुन गंडु वो देवा गंडु, पैरु गंडु, बोधी गंडु, मो० चरकी पिता स्व० घनश्याम गंडु वो दशमी भुईन पिता स्व० रुशन गंडु वो तिलक गंडु, पारसनाथ गंडु, परमेश्वर गंडु, जगदेव गंडु, खेमलाल गंडु पिता स्व० रामसहाय गंडु वो भुनेश्वर गंडु पिता स्व० सोना गंडु वो बुधन गंडु पिता स्व० अलखु गंडु वो कोमल गंडु पिता कोइली गंडु वो छेदी गंडु पिता स्व० दीना गंडु।	प्लॉट-535	प्लॉट-590	प्लॉट-535	प्लॉट-540
307	14	537	नीज	टांड-11	0.1300	तेतर गंडु माता स्व० शनिचरी देवी सा० बलोदर	प्लॉट-536	प्लॉट-539	प्लॉट-536	प्लॉट-538
308	14	539	नीज	टांड-11	0.3500	तेतर गंडु माता स्व० शनिचरी देवी सा० बलोदर	प्लॉट-540	प्लॉट-589	प्लॉट-590	प्लॉट-547
309	5	540	नीज	धान-111	0.5400	ठाकुरी गंडु, कजरु गंडु कुलेश्वर गंडु पिता स्व० चमन गंडु वो कमल गंडु, जीवन गंडु जानकी गंडु पिता स्व० किशुन गंडु वो देवा गंडु, पैरु गंडु, बोधी गंडु, मो० चरकी पिता स्व० घनश्याम गंडु वो दशमी भुईन पिता स्व० रुशन गंडु वो तिलक गंडु, पारसनाथ गंडु, परमेश्वर गंडु, जगदेव गंडु, खेमलाल गंडु पिता स्व० रामसहाय गंडु वो भुनेश्वर गंडु पिता स्व० सोना गंडु वो बुधन गंडु पिता स्व० अलखु गंडु वो कोमल गंडु पिता कोइली गंडु वो छेदी गंडु पिता स्व० दीना गंडु।	प्लॉट-534	प्लॉट-539	प्लॉट-536	प्लॉट-541
310	17	542	नीज	टांड-111	0.0200	गिंदु गंडु बल्द मुंगी गंडु कौम भोगता सा० देह।	प्लॉट-532	प्लॉट-546	प्लॉट-541	प्लॉट-543
311	17	542/I	नीज	टांड-111	0.5100	कमली देवी पति नान्हु राणा(मुल्तु) पिता स्व० सुकर राणा,मनोज राणा वो सनोज राणा पिता स्व० सोहर राणा पिता स्व० सुकर राणा रामपुकार राणा पिता स्व० सुकर राणा	प्लॉट-532	प्लॉट-546	प्लॉट-541	प्लॉट-543
312	21	543	नीज	टांड-111	0.3700	बंसु गंडु पिता स्व० करम गंडु वो ठाकुरी गंडु, आतो गंडु, छक्कन गंडु, केलारा गंडु पिता स्व० धरम गंडु सा० बलोदर	प्लॉट-532	प्लॉट-545	प्लॉट-542	प्लॉट-530
313	5	545	नीज	टांड-11	0.0900	ठाकुरी गंडु, कजरु गंडु कुलेश्वर गंडु पिता स्व० चमन गंडु वो कमल गंडु, जीवन गंडु जानकी गंडु पिता स्व० किशुन गंडु वो देवा गंडु, पैरु गंडु, बोधी गंडु, मो० चरकी पिता स्व० घनश्याम गंडु वो दशमी भुईन पिता स्व० रुशन गंडु वो तिलक गंडु, पारसनाथ गंडु, परमेश्वर गंडु, जगदेव गंडु, खेमलाल गंडु पिता स्व० रामसहाय गंडु वो भुनेश्वर गंडु पिता स्व० सोना गंडु वो बुधन गंडु पिता स्व० अलखु गंडु वो कोमल गंडु पिता कोइली गंडु वो छेदी गंडु पिता स्व० दीना गंडु।	प्लॉट-543	प्लॉट-550	प्लॉट-546	प्लॉट-527
314	11	546	नीज	टांड-11	0.2750	तेजो उर्फ कैला गंडु, नारायण गंडु पिता स्व० पारसनाथ गंडु वो दुरध गंडु, विकास गंडु पिता स्व० छेदी गंडु वो प्रयाग गंडु पिता स्व० मोहन गंडु	प्लॉट-542	प्लॉट-547	प्लॉट-541	प्लॉट-543
315	11	546/I	नीज	टांड-11	0.1500	श्री प्रेम महतो, मुल्तु मसोमात स्वधा पति स्व० प्रेम महतो पिता स्व० धनी महतो जाति कोयरी सा० गोन्दुलपुरा।	प्लॉट-542	प्लॉट-547	प्लॉट-541	प्लॉट-543
316	11	546/II	नीज	टांड-11	0.0750	मसोमात स्वधा पति स्व० प्रेम महतो जाति कोयरी सा० देह	प्लॉट-542	प्लॉट-547	प्लॉट-541	प्लॉट-543
317	22	547	नीज	टांड-111	0.6000	तिलक गंडु पारसनाथ गंडु प्रमेश्वर गंडु जगदेव गंडु खेमलाल गंडु पिता स्व० रामसहाय गंडु वो भुनेश्वर गंडु पिता स्व० बदन गंडु सा० बलोदर।	प्लॉट-546	प्लॉट-548	प्लॉट-539	प्लॉट-549
318	19	548	नीज	टांड-111	0.3000	खेता गंडु, कश्चिया गंडु पिता स्व० सुकर गंडु वो जेडु गंडु पिता स्व० नान्हु गंडु वो कार्तिक गंडु पिता स्व० मोहन गंडु वो भादे गंडु, अमृत गंडु पिता स्व० मोहन गंडु सा० बलोदर टोला जामुन टोला।	प्लॉट-547	प्लॉट-552	प्लॉट-584	प्लॉट-549
319	14	549	नीज	टांड-11	0.1400	तेतर गंडु माता स्व० शनिचरी देवी सा० बलोदर	प्लॉट-546	प्लॉट-551	प्लॉट-547	प्लॉट-550
320	14	549/I	नीज	टांड-11	0.2400	श्री प्रेम महतो, मुल्तु मसोमात स्वधा पति स्व० प्रेम महतो पिता स्व० धनी महतो जाति कोयरी सा० गोन्दुलपुरा।	प्लॉट-546	प्लॉट-551	प्लॉट-547	प्लॉट-550
321	21	551	नीज	टांड-111	0.3000	बंसु गंडु पिता स्व० करम गंडु वो ठाकुरी गंडु, आतो गंडु, छक्कन गंडु, केलारा गंडु पिता स्व० धरम गंडु सा० बलोदर	प्लॉट-549	प्लॉट-558	प्लॉट-552	प्लॉट-523
322	5	552	नीज	टांड-11	0.7000	ठाकुरी गंडु, कजरु गंडु कुलेश्वर गंडु पिता स्व० चमन गंडु वो कमल गंडु, जीवन गंडु जानकी गंडु पिता स्व० किशुन गंडु वो देवा गंडु, पैरु गंडु, बोधी गंडु, मो० चरकी पिता स्व० घनश्याम गंडु वो दशमी भुईन पिता स्व० रुशन गंडु वो तिलक गंडु, पारसनाथ गंडु, परमेश्वर गंडु, जगदेव गंडु, खेमलाल गंडु पिता स्व० रामसहाय गंडु वो भुनेश्वर गंडु पिता स्व० सोना गंडु वो बुधन गंडु पिता स्व० अलखु गंडु वो कोमल गंडु पिता कोइली गंडु वो छेदी गंडु पिता स्व० दीना गंडु।	प्लॉट-548	प्लॉट-557	प्लॉट-553	प्लॉट-551
323	5	553	नीज	टांड-11	0.2700	तिलक गंडु पारसनाथ गंडु प्रमेश्वर गंडु जगदेव गंडु खेमलाल गंडु पिता रामसहाय गंडु वो भुनेश्वर गंडु पिता स्व० बदन गंडु	प्लॉट-548	प्लॉट-557	प्लॉट-554	प्लॉट-552
324	5	554	नीज	टांड-11	0.0100	ठाकुरी गंडु, कजरु गंडु कुलेश्वर गंडु पिता स्व० चमन गंडु वो कमल गंडु, जीवन गंडु जानकी गंडु पिता स्व० किशुन गंडु वो देवा गंडु, पैरु गंडु, बोधी गंडु, मो० चरकी पिता स्व० घनश्याम गंडु वो दशमी भुईन पिता स्व० रुशन गंडु वो तिलक गंडु, पारसनाथ गंडु, परमेश्वर गंडु, जगदेव गंडु, खेमलाल गंडु पिता स्व० रामसहाय गंडु वो भुनेश्वर गंडु पिता स्व० सोना गंडु वो बुधन गंडु पिता स्व० अलखु गंडु वो कोमल गंडु पिता कोइली गंडु वो छेदी गंडु पिता स्व० दीना गंडु।	प्लॉट-548	प्लॉट-556	प्लॉट-583	प्लॉट-553
325	5	554/I	नीज	टांड-11	0.1000	देवन्ती देवी पति ग्यादत सिंह जाति भूमिहार एवं विभा देवी पति अशोक कुमार सिंह जाति भूमिहार सा० अम्बाजीत।	प्लॉट-548	प्लॉट-556	प्लॉट-583	प्लॉट-553
326	5	554/II	नीज	टांड-11	0.1000	कुन्ती देवी पति रामलखन सिंह जाति भूमिहार सा० अम्बाजीत।	प्लॉट-548	प्लॉट-556	प्लॉट-583	प्लॉट-553
327	5	554/II I	नीज	टांड-11	0.1000	हरिनारायण सिंह पिता स्व० पाठक धनेश्वर सिंह एवं श्री पाठक भानुप्रताप सिंह वो श्री माधो प्रताप सिंह वो श्री शिवनारायण सिंह पिता स्व० पाठक धनेश्वर सिंह जाति भूमिहार सा० अम्बाजीत।	प्लॉट-548	प्लॉट-556	प्लॉट-583	प्लॉट-553
328	22	556	नीज	टांड-111	0.2300	तिलक गंडु पारसनाथ गंडु प्रमेश्वर गंडु जगदेव गंडु खेमलाल गंडु पिता स्व० रामसहाय गंडु वो भुनेश्वर गंडु पिता स्व० बदन गंडु सा० बलोदर।	प्लॉट-554	प्लॉट-575	प्लॉट-579	



## चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग पर झारखंड परेड्स एसोसिएशन ने वैज्ञानिकों को दी बधाई

रांची। भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड होने पर झारखंड परेड्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एवं प्रवक्ता संजय सराफ ने हर्ष व्यक्त करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भारत के इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन से देश भर की उम्मीदें जुड़ी हुई थी चंद्रयान 3 ने पूरे देश को एक बार फिर से एक कर दिया है, तथा अंतरिक्ष विज्ञान के नए सपनों को साकार किया है, चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग होने पर पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। चंद्रयान 3 पृथ्वी से निकलने के बाद अपने 40 दिनों की यात्रा के बाद आज चांद पर लैंडिंग की, 14 जुलाई को चंद्रयान-3 को लांच किया गया था। आज यानी 23 अगस्त को मून मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। जो भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। पूरे देश में खुशी एवं उत्साह का माहौल है।

## खेल दिवस पर 29 अगस्त को फुटबॉल मैच और तीन को ऑनलाइन क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा आयोजित



रांची। रांची के चुटिया स्थित कार्यालय में बुधवार को क्रीड़ा भारती रांची महानगर की बैठक हुई। बैठक का संचालन क्रीड़ा भारती के प्रांत उपाध्यक्ष मुनचुन राय और रांची महानगर के अध्यक्ष रवि मुंडा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 29 अगस्त को खेल दिवस के कार्यक्रमों की चर्चा की गई। मुनचुन राय ने कहा कि खेल दिवस पर तीन सितंबर को ऑनलाइन क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा का आयोजन होगा। यह परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर होगी। इसमें 12 से 25 वर्ष के परीक्षार्थी भाग ले सकते हैं। यह परीक्षा आधे घंटे की होगी। परीक्षा में प्रथम पुरस्कार एक लाख, द्वितीय पुरस्कार 50 हजार, तृतीय पुरस्कार 25 हजार और चतुर्थ पुरस्कार 11 हजार की होगी। परीक्षार्थी क्रीड़ा भारती के वेबसाइट में दिए गए लिंक पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। फार्म का शुल्क मात्र 20 रुपये रखा गया है। महानगर अध्यक्ष रवि मुंडा ने कहा कि 29 अगस्त खेल दिवस पर बरियार्थु स्थित डीआईजी ग्राउंड में एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होगा, जिसमें चार टीमों में भाग लेंगे। प्रथम पुरस्कार 11 हजार और द्वितीय पुरस्कार सात हजार रखा गया है।

## निःशुल्क हृदय रोग चिकित्सा शिविर 25 को

रांची। सीसीएल के गांधीनगर अस्पताल में 25 अगस्त को निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर लगेगा। इस शिविर में मेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली के सोनियर इंटरनेशनल कार्डिओलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव रांठी मरीजों की जांच करेंगे और परामर्श देंगे। शिविर में झारखंड के आम लोग भी चिकित्सीय जांच करा सकते हैं। निःशुल्क जांच सुबह नौ बजे से शुरू होगी। निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर सीएमडी डॉ.बी वीरा रेड्डी के दिशा-निर्देशन में लगाई जा रही है।

## करा में धूमधाम से की गई माता शीतला की पूजा-अर्चना

रांची। करां के देवी मंडप में बुधवार को धूमधाम से माता शीतला की पूजा-अर्चना की गई। पंडित योगेंद्र दास ने विधि विधान से पूजा-अनुष्ठान संपन्ना कराये। पूजा में मुख्य यजमान के रूप में भूपाल बड़ाईक ने पूजा-अर्चना की। सर्वप्रथम पाहन द्वारा रंगवा मुर्गा की पूजा-अर्चना के बाद बलि दी गई। पूजा के अंत में काले बकरे की बलि देकर गांव की सुख-समृद्धि और अच्छी फसल की कामना माता शीतला से की गई।

## ‘जे नाची से बाची’ ही झारखंड की संस्कृति

## ‘डा. रामदयाल मुंडा के जीवन से हम सभी को सीख लेनी चाहिए’

नवीन मेल संवाददाता। रांची पद्मश्री डा. रामदयाल मुंडा की जयंती बुधवार को मनाई गई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड कला मंदिर, होटवार, रांची के डा. रामदयाल मुंडा कला भवन के सभागार में संगोष्ठी सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धर्मेन्द्र कुमार दीक्षित, निदेशक संस्कृति, पद्मश्री मुकुंद नायक, पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख, महावीर नायक के द्वारा राम दयाल मुंडा के प्रतिभा पर मालापूर्णा करते हुए और दीप प्रज्वलित एवं नगाड़ा बजा कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पद्मश्री मुकुंद नायक, पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख, महावीर नायक के द्वारा रामदयाल मुंडा जी के जीवन पर चर्चा करते हुए उनके जीवन से हर



शिक्षाविद और कलाकार को सीख लेनी चाहिए। श्री मुंडा का जीवन अपने आप में एक परिपूर्ण सांस्कृतिक किताब है, जिसे हर झारखंडवासियों को सीखना चाहिए। गुरु मुंडा के दल के द्वारा मुंडारी नृत्य गायन, कृष्णा भगत के दल के द्वारा कुड़ुख नृत्य गायन, मनीष बरवार के दल के द्वारा नामपुरी नृत्य गीत एवं

## पूरे शहर में 676 कैमरों से हो रही है निगरानी

## डीआईजी ने आईसीसीसी का किया दौरा

नवीन मेल संवाददाता। रांची स्मार्ट सिटी की महत्वाकांक्षी परियोजना इंटीलजेंट कमांड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) का जनहित में कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो। इसको लेकर रांची रेंज के डीआईजी अनूप विश्ये ने बुधवार को रांची स्मार्ट सिटी स्थित इंटीलजेंट कमांड कंट्रोल सिस्टम का निरीक्षण किया और वहां से रांची पुलिस को सुरक्षा के क्षेत्र में और रांची यातायात पुलिस को यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में क्या सहयोग मिल रहा है, इसकी जानकारी ली। साथ ही डीआईजी ने इस बात की भी जानकारी ली की और भी क्या-क्या उपकरण हैं और कौन-कौन सी तकनीक है, जिनका भविष्य में पुलिस मदद ले सकती है। डीआईजी ने कहा कि स्मार्ट सिटी की ओर से स्थापित इस कमांड सेंटर और शहर में स्थापित विभिन्न उपकरणों का सही दिशा में इस्तेमाल हो रहा है और हमारी कोशिश होगी कि पुलिस



इसका और अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। मौके पर रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के सीईओ अमित कुमार ने कहा कि रांची पुलिस यदि स्मार्ट सिटी का इंटीलजेंट कमांड कंट्रोल सेंटर का शत प्रतिशत इस्तेमाल शुरू कर दे तो राजधानी की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में यह सिस्टम पुलिस के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास वह तकनीकी उपलब्धि है कि हम प्रतिदिन रांची पहुंचनेवाली और रांची से बाहर जाने वाली लाखों

गाड़ियों की 24 घंटे क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं। रांची पहुंचने वाली कोई भी गाड़ी स्मार्ट सिटी के सर्विलांस कैमरों से नहीं बच सकती है। इसके साथ ही शहर की सड़कों पर प्रतिदिन दौड़ने वाली 3.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों का पूरा रिपोर्ट हमारे कंट्रोल रूम में उपलब्ध रहता है। आज हम एक सेंटर में बैठकर ग्रीन कॉरिडोर से लेकर क्विक रिस्पांस के लिए कई कदम उठा सकते हैं। रांची शहर का रिंग रोड हर जंक्शन पूरी तरह से सर्विलांस कैमरों से कवर्ड है।

## चार्टर्ड एकाउंटेंसी वैश्विक करियर और उच्चल भविष्य देने वाला देश का अग्रणी कोर्स

रांची। दो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, रांची शाखा की ओर से बुधवार को कड़रू रोड स्थित एक होटल में करियर काउंसलर मेटरशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान से आए मंटेर सीए जिमी मोदी ने कहा कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ज्ञान और मेहनत से दुनियाभर में प्रतिष्ठा अर्जित किया है। उन्होंने बताया कि सीए पाठ्यक्रम की फीस भी इतनी कम है कि कोई भी आय वर्ग का विद्यार्थी इसे आसानी से पूरा कर सकता है। संस्थान की ओर से पाठ्यक्रम में सुधार भी किया गया है। इससे पूर्व रांची शाखा के अध्यक्ष पंकज मकड़ू ने आगतों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन अंकित राजगारिया और शुभम मोदी ने किया। कार्यक्रम के आयोजन में सीपीइ कमेटी के अध्यक्ष उमेश कुमार ने भी योगदान दिया।

## उपायुक्त की अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय (जीबी) की बैठक आयोजित

## कई योजनाओं को मिली स्वीकृति

नवीन मेल संवाददाता। रांची रांची। बुधवार को उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अधिकरण (आत्मा) शासकीय निकाय जीबी की बैठक आयोजित की गई। समारंभणालय ब्लॉक ए स्थित सभागार में आयोजित बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक, आत्मा, कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद रांची, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सचिव बाजार समिति, प्रतिनिधि जिला ग्रामीण विकास अधिकरण डीआरडीए एवं विभिन्न प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 में



कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अधिकरण (आत्मा) रांची द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले वार्षिक कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। बैठक वर्ष 2023-24 में रांची जिले में 2 (दो) कार्यक्रम का लक्ष्य निर्धारित है। इसके तहत जिला स्तर पर एक खरीफ मौसम में तथा एक रबी मौसम में कार्यक्रम आयोजन एवं जिला अंतर्गत कृषि विकास के लिए अनुमोदित कृषक पाठशाला के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

## किसी के जीवन में खुशी लाने से बड़ा धर्म और कुछ भी नहीं : डॉ. पी सिन्हा

रांची। किसी के जीवन को उजाला करने से बड़ा धर्म और कुछ भी नहीं हो सकता है। उक्त बातें बिहार आई बैंक ट्रस्ट की सेक्रेटरी डॉ. पी सिन्हा ने झारखंड आई बैंक हॉस्पिटल एंड रिसेंसेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। बता दें कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक देशभर में नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी कड़ी में ट्रस्ट के द्वारा लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। झारखंड आई बैंक हॉस्पिटल में आंखों का इलाज किया जाता है। इनमें मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और भंगपाण प्रमुख रूप से शामिल है। मोतियाबिंद से ग्रसित मरीजों को कृत्रिम लेंस लगाकर उनकी दृष्टि में सुधार किया जाता है। डॉ. पी सिन्हा ने कहा कि जिनकी कॉर्निया खराब हो जाती है, उनकी आंखों की रोशनी नेत्रदान से ही वापस लौट सकती है। अपनों को खोने के गम के बीच यदि मृतक के परिजन नेत्रदान करते हैं तो उनकी आंखें दुनिया देख सकेंगी। शरीर भले ही पांच तत्व में विलीन हो जाएगा।

## भारत ने रचा स्वर्णिम इतिहास अंतरिक्ष के क्षेत्र में जोड़ा नया अध्याय : डॉ. लंबोदर



नवीन मेल संवाददाता। रांची आजसू पार्टी के केन्द्रीय महासचिव सह गोमिया विधायक डॉ. लंबोदर महतो ने चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचने पर कहा है कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से हम सब भारतीय गौरवान्वित हैं। भारत ने स्वर्णिम इतिहास रच दिया। आज का दिन हमेशा सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगा। भारत ने तकनीकी शक्ति की नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नए अध्याय का सूत्रपात ही नहीं हुआ है बल्कि आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बन गया है। यह हम सबों के लिए ऐतिहासिक गौरव एवं अविस्मरणीय पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक गौरव व सफलता में झारखंड का नाम भी जुड़ गया है। चंद्रयान-3 से संबंधित एसएलपी - सेकंड लॉन्चिंग पैड की डिजाइन रांची के मेकान ने तैयार किया था और उसका निर्माण रांची में एचईसी में किया गया। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक, तकनीशियन व कर्मचारियों को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

## संजय गांधी मेमोरियल कालेज के असिस्टेंट प्रोफेसर महेश भगत का निधन

रांची। संजय गांधी मेमोरियल कालेज पंडरा के असिस्टेंट प्रोफेसर महेश भगत का 50 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे ब्रेन हेमरेज के बाद रिम्म में भर्ती कराए गए थे। एक सप्ताह तक रिम्म में इलाज के बाद बुधवार सुबह 8 बजे उनका निधन हो गया। खबर पाते ही आदिवासी समाज में शोक की लहर दौड़ गई। वे अपने पीछे पत्नी और बच्चों को छोड़ गए हैं। वे कुड़ुख लिटरेसी सोसायटी ऑफ इंडिया के सचिव के पद पर रहकर कुड़ुख भाषा के विकास के लिए काम कर रहे थे। वे हमेशा करम और सरहुल पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे। वे आदिवासी समाज के प्रखर नेता भी थे। उन्होंने कुड़ुख भाषा के विकास को लेकर कई पुस्तकें लिखी। उन्होंने जनजातीय भाषा कुड़ुख को लेकर बांग्लादेश में रहने वाले आदिवासी समाज को जागरूक करने का भी काम किया था।

## ‘कांग्रेस को सशक्त और धारदार बनाने की जरूरत’



नवीन मेल संवाददाता। रांची प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमिटी के कार्यकारी अध्यक्ष और अग्रणी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संगठन को और अधिक सशक्त और धारदार बनाने के लिए आगामी माह में जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी महासचिव, विधानसभा प्रभारी सचिव का राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बताया कि केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी राज्य के सभी जिलों में डिजिटल प्रचार वाहन का शुभारंभ करेगा। इसके साथ ही केग के रिपोर्ट की ओर से मोदी सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 25 अगस्त 2023 को संवाददाता सम्मेलन आहूत की जाएगी। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अग्रणी मोर्चा के तमाम अध्यक्षों को यह निर्देश दिया कि मोर्चा संगठन जैसे महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एमएसयूआई, सेवादल का एक-एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करें और इसकी तिथि की जानकारी अखिल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को दें।

## महिला व पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 26 से 29 अगस्त तक रांची में आयोजित



नवीन मेल संवाददाता। रांची हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस सह राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभ अवसर पर हॉकी झारखंड, टाटा स्टील और खेलकूद विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 26 अगस्त से 29 अगस्त तक रांची में

छठवीं सोनियर झारखंड राज्य हॉकी चैंपियनशिप 2023 महिला और पुरुष आयोजित किए जायेंगे। प्रतियोगिता में महिला वर्ग से 08 टीम एवं पुरुष वर्ग में 12टीम भाग लेंगी। सभी टीमों को 25 अगस्त तक रांची में रिपोर्ट करना है और प्रतियोगिता की सभी मैच मरांग

गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्टोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची एवं एस्टोटर्फ हॉकी स्टेडियम बालिका उच्च विद्यालय बरियार्थु रांची में आयोजित किए जायेंगे। प्रतियोगिता का प्रारंभ 26 अगस्त को और उसका समापन 29 अगस्त को किया जाएगा।

## प्रशिक्षण

## डीएसपीएमयू के छात्रों का 15 दिवसीय इंटरनशिप कार्यक्रम का समापन

## कुलपति ने जलवायु परिवर्तन संबंधी दी जानकारी

नवीन मेल संवाददाता। रांची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि संकाय अधीन मृदा विज्ञान विभाग के द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची के 20 छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित 15 दिवसीय इंटरनशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन बुधवार को हुआ। मौके पर कुलपति डॉ. ओएन सिंह ने प्रत्येक छात्र-छात्राओं से इंटरनशिप के अनुभवों को जाना और उन्हें प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रदान किया। अपने संबोधन में उन्होंने औद्योगिक प्रदूषण और फसल उत्पादन में इसके प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान और पर्यावरण पर इसके प्रभाव, जलवायु के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए हाल की प्रथाओं आदि की जानकारी को साझा किया। उन्होंने मृदा विज्ञान विभाग के संकाय सदस्यों के प्रयासों



की सराहना की तथा इसी तरह राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लाभ के लिए भी इस प्रकार का इंटरनशिप प्रशिक्षण जारी रखने पर जोर दिया। मौके पर डीन एश्रीकल्चर डॉ. डीके

शाही ने मिट्टी के रासायनिक विश्लेषण, भौतिक और जैविक मापदंडों के बारे में बताया। छात्र-छात्राओं को बेहतर मृदा स्वास्थ्य एवं मृदा परीक्षण के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए भविष्य में संकाय

सदस्यों से संपर्क बनाये रखने की बात कही। पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. शशि भूषण कुमार ने उच्च फसल उत्पादन के लिए मिट्टी के पर्यावरण में सुधार की रणनीतियां विषयक इंटरनशिप के विषयों की

जानकारी दी। बताया कि छात्रों ने व्यावहारिक और सैद्धांतिक भागों में मिट्टी, पौधे और पानी के नमूने और इसके तरीकों के बारे में सीखा। प्रशिक्षण के बाद छात्र-छात्राओं ने स्वयं प्रयोगशाला में पीएच, ईसी, कार्बनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्व का विश्लेषण किया। उन्हें जैव उर्वरक उत्पादन और उसके उपयोग, मृदा प्रदूषण प्रबंधन भी सिखाया गया। छात्रों द्वारा समर्पित अंतिम रिपोर्ट का संकाय सदस्यों द्वारा मूल्यांकन किया गया। समारोह का संचालन एवं धन्यवाद डॉ. अरविंद कुमार ने दी। मौके पर डीएसपीएमयू के प्राध्यापक सोनी कुमार, सदीप प्रसाद और अनुशील आनंद सहित मृदा विज्ञान विभाग के डॉ. जीके अग्रवाल, डॉ. पीबी साहा, डॉ. एनसी गुप्ता, डॉ. आशा कुमारी सिन्हा, डॉ. जय प्रकाश कुमार भी मौजूद थे।

## नामकुम में बन रही देसी शराब को विभाग ने छपा मारकर किया नष्ट

रांची। उत्पाद विभाग की टीम लगातार अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में विभागीय टीम ने नामकुम के हेसापीढ़ी गांव में नदी किनारे छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में देसी शराब व अन्य चीजें बरामद की गई है। टीम ने न सिर्फ देसी शराब बल्कि भट्टी व शराब बनाने वाली सामग्री को नष्ट कर दिया। जानकारी के अनुसार सहायक उत्पाद आयुक्त को गुप्त सूचना मिली कि हेसापीढ़ी में देसी अवैध शराब बनायी जा रही है। उनके निर्देश पर विभाग की टीम हेसापीढ़ी पहुंची। देखा कि पांच कट्टे की खाली पट्टी जमीन में कई भट्टी लगायी गयी है। हालांकि टीम को देखकर अवैध कारोबारी मौके से भाग निकले। विभागीय टीम ने सबसे पहले भट्टी को ध्वस्त किया। इसके बाद जमीन के नीचे गाढ़ा कट्टे में रखे गए जावा महुआ को टीम ने निकालकर नष्ट किया। वहीं टीम ने मौके पर से 12 हजार लीटर चुलइया को जब्त किया।

## चेहल्लुम का मातमी जुलूस सात सितम्बर को निकाला जायेगा



नवीन मेल संवाददाता। रांची 07 सितम्बर 2023 दिन गुरुवार को अनवर आर्केड से विश्वकर्मा मंदिर लेन, कश्मीर वस्त्रालय के सामने से चेहल्लुम का मातमी जुलूस निकलेगा। समय:-10:00 बजे सुबह, जो अंजुमन पलाजा चौक, उर्दू लाइब्रेरी, डेली मार्केट, टैक्सि स्टैंड, हनुमान मंदिर (गांधी चौक), काली मंदिर चौक से चर्च रोड, विक्रान्त चौक, कर्बला चौक होते हुए कर्बला पर समाप्त होगा। उक्त जानकारी अमाजिक कार्यकर्ता

सैयद फराज अब्बास ने दी है। उन्होंने कहा कि जुलूस के पूर्व अनवर आर्केड मे मजलिस शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। जो सुबह 09:30 शुरू होगा। 29 अगस्त से 07 सितम्बर (11सफर से 20 सफर) मस्जिद ए जाफरिया अंसार नगर चर्च रोड विक्रान्त चौक 10 दिवसीय मजलिस अशरे अरबबैंक 07:30 बजे से होगी। जिस को दिल्ली से आरहे मौलाना सैयद गुलाम अली नकवी संबोधित करेंगे।



‘मेरी माटी मेरा देश’ पर दो दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का सफलता पूर्वक समापन

# ‘देश की माटी’ अपने कर्तव्यों को याद दिलाती है: डीईओ



**नवीन मेल संवाददाता**  
रांची/जामताड़ा। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत केन्द्रीय संचार ब्यूरो की क्षेत्रीय धनबाद इकाई द्वारा अमृत महोत्सव अंतर्गत प्रधानमंत्री के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश एवं हर घर तिरंगा अभियान पर दिनांक 22 अगस्त 2023 को शुरू हुई दो दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आज झारखंड के जामताड़ा जिला के जेबीसी हाई

स्कूल में सफल समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी सुरेश महतो शामिल हुए। साथ ही जेबीसी उच्च विद्यालय के प्राचार्य सुशील कुमार मरांडी, उच्च शिक्षा संघ के सचिव श्री विनोद कुमार तथा स्थानीय टीचर ट्रेनिंग संस्थान, डाइट के प्रभारी प्राचार्य गोपाल सिंह, भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे।



समापन समारोह में सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया

माननीय मुख्य अतिथि ने मेरी माटी मेरा देश, अमृत महोत्सव तथा 9 वर्ष सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण विषय पर लगी इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उपरांत सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर समापन समारोह की विधिवत शुरुआत हुई। मौजूद अतिथियों का अंग वस्त्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर सीबीसी धनबाद के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ओंकार नाथ पांडेय द्वारा विधिवत स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि सुरेश

महतो ने कहा कि केन्द्रीय संचार ब्यूरो द्वारा मेरी माटी मेरा देश पर आयोजित यह प्रदर्शनी निश्चित रूप से हम सभी को देश की धरती अर्थात् माटी के प्रति अपने कर्तव्यों को याद दिलाती है। बच्चों में देशप्रेम के साथ साथ अपनी भाषा, संस्कृति तथा देश के महापुरुषों के विचारों को अपने व्यवहार में आत्मसात करने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज केन्द्रीय संचार ब्यूरो द्वारा जामताड़ा जिले में मौजूद दो

स्वतन्त्रता सेनानियों वामपद सेन और गोलक बिहारी सेन के बुजुर्ग आश्रितों को उनके घर जाकर अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। दोनों ने भारत छोड़ो आंदोलन में जिले में अग्रजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। समापन समारोह में विषय प्रवेश करते हुए क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी केन्द्रीय संचार ब्यूरो, धनबाद ओंकार नाथ पांडेय ने मेरी माटी मेरा देश अभियान पर आयोजित इस प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी दी

और सभी अतिथियों तथा छात्रों की सहभागिता के लिए सभी का अभिवादन किया। जेबीसी उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य सुशील कुमार मरांडी ने कहा कि यह अभियान हमें अपने देश और मिट्टी पर गर्व करना सिखाएगी। यहाँ वीरों पर लगी जानकारी से हम सभी लाभान्वित होंगे। जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी प्राचार्य गोपाल सिंह ने कहा कि केन्द्रीय संचार ब्यूरो धनबाद का जामताड़ा में लगाई गई इस प्रदर्शनी के लिए



धन्यवाद किया तथा आग्रह किया किस तरह की प्रदर्शनी तथा जानकारी आगे भविष्य में भी जिले में दिया जाए। कल इस फोटो प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन स्थानीय सांसद सुनील सोरेन के कर कमल से संपन्न हुआ था। कल हुए उद्घाटन सत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपाल कृष्ण झा भी मौजूद रहे। इस दो दिवसीय प्रदर्शनी में झारखंड के वीर सपूतों के ऊपर

भी एक विशेष खंड में प्रदर्शनी लगाई गई है जिसे देखने वालों ने काफी सराहा, इसमें इन बलिदानियों के जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। आज के फोटो प्रदर्शनी के समापन समारोह का मंच संचालन सीबीसी धनबाद के सहायक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी राज किशोर पासवान ने किया। आयोजन तथा समन्वय में भी पासवान की महती भूमिका रही।

## घाटशिला : पुलिस ने आंचल देवी हत्याकांड का किया खुलासा



**नवीन मेल संवाददाता**  
जमशेदपुर। घाटशिला थाना क्षेत्र के तमकपाल गांव के चर्चित आंचल कुमारी उर्फ आंचल देवी हत्याकांड के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का उद्घेदन किया है। इस संबंध में एसडीपीओ कुलदीप टोपी ने

बुधवार को घाटशिला थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी, उन्होंने बताया कि इस कांड के अन्य अभियुक्त गणेश बेहरा को बुधवार की सुबह छापेमारी कर परसुडीह से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से मृतका आंचल कुमारी का

कपड़ों से भरा बैग बरामद किया गया है। आरोपी गणेश बेहरा ने शव छुपाने में सहयोग करने की बात स्वीकार की है। गणेश बेहरा ने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि मृतका की हत्या उसके पति कृष्ण नाथ, ससुर जातुल नाथ, भाई अर्जुन नाथ एवं मौसेरे भाई अप्पू नाथ द्वारा गला दबाकर किया गया था। एसडीपीओ ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर टीम गठित कर छापेमारी कर कांड के अन्य अभियुक्तों में मृतका के ससुर जातुल नाथ, देवर अर्जुन नाथ को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने भी आंचल देवी की हत्या कर शव छुपाने की बात स्वीकार की है।

## पद्मश्री रामदयाल मुंडा को जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि

**चाईबासा।** सदर बाजार विश्वकर्मा मार्केट में बुधवार को पद्मश्री डॉ रामदयाल मुंडा की 84वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, बता दें कि डॉ रामदयाल मुंडा ने अंतरराष्ट्रीय मंचों से जनजातीय संस्कृति की आवाज बुलंद की थी, कला को विश्व के मंच तक पहुंचाया था। इसके लिए वर्ष 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। झारखंड आंदोलन को धार देने वाले नायक थे। डॉ रामदयाल मुंडा महान शिक्षाविद, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी साहित्यकार थे, उन्होंने आदिवासी समाज और संस्कृति को समृद्ध करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया।

## केस दर्ज कराने के विरोध में धरना पर बैठे दुकानदार, बंद रही दुकानें

**नवीन मेल संवाददाता**  
जमशेदपुर। मुसाबनी बाजार समिति के नेतृत्व में मुख्य बाजार दर्ज केस वापस नहीं लिया जाएगा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, दुकानें भी बंद रखी जायेगी, बाजार समिति के सचिव पप्पू अली ने बताया कि बरसात में पानी चूने के कारण दुकानदार आंशिक मरम्मत का कार्य कराने को विवश हैं, अंचल कार्यालय के अधिकारियों द्वारा रिश्तत की मांग की जाती है, रिश्तत नहीं देने पर केस दर्ज कराया जा रहा है, उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया है, प्रभारी सीओ व सीआई पर रिश्तत मांगने का केस दुकानदारों द्वारा दर्ज कराया गया है।

द्वारा दुकानदार पर केस दर्ज कराया गया है, उन्होंने कहा कि जबतक दुकानदार के खिलाफ दर्ज केस वापस नहीं लिया जाएगा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, दुकानें भी बंद रखी जायेगी, बाजार समिति के सचिव पप्पू अली ने बताया कि बरसात में पानी चूने के कारण दुकानदार आंशिक मरम्मत का कार्य कराने को विवश हैं, अंचल कार्यालय के अधिकारियों द्वारा रिश्तत की मांग की जाती है, रिश्तत नहीं देने पर केस दर्ज कराया जा रहा है, उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया है, प्रभारी सीओ व सीआई पर रिश्तत मांगने का केस दुकानदारों द्वारा दर्ज कराया गया है।

## ऊर्जा सचिव ने दिया स्मार्ट मीटर से अधिक बिल आने की जांच का आदेश

**रांची।** स्मार्ट बिजली मीटर से अधिक बिजली बिल आने के शिकायत हिंदपीढ़ी के वार्ड 23 के सामाजिक कार्यकर्ता खालिद उमर एवं अन्य संस्थाओं द्वारा शिकायत बिजली विभाग को सूचना दिया था की स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिल जनरेट हो रहा है इसकी जांच की जाय। खालिद उमर ने कहा कि बिजली विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्र के एरिया इंजांच को भी मीटर में गड़बड़ी की शिकायत की है। इस संबंध में ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार ने आदेश जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि कुछ दिनों से बिजली वितरण निगम और ऊर्जा विभाग को स्मार्ट मीटर से अधिक बिजली बिल आने की लगातार शिकायत मिल रही हैं। ऐसे में मामले की जांच की आवश्यकता है, सचिव अविनाश कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच का निर्देश दिया है। जेबीवीएनएल अब तक लगाए गए स्मार्ट मीटर की थर्ड पार्टी जांच कराएगा। थर्ड पार्टी जांच के लिए जेबीवीएनएल दो से तीन दिन के अंदर निविदा आमंत्रित करेगा। थर्ड पार्टी जांच में न केवल स्मार्ट मीटर की जांच होगी, बल्कि यह भी देखा जा जाएगा कि क्या स्मार्ट मीटर लगाने के पहले और अब आ रही एनर्जी यूनिट में कितना फर्क है। बता दें कि राजधानी रांची में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है।



## सीपीआई नेता तोताराम सोरेन का निधन, शोक

**जमशेदपुर।** किसान और मजदूरों की हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाले चाकुलिया प्रखंड की मालकुंडी पंचायत के दूधियाशोल गांव निवासी सीपीआई नेता 70 वर्षीय तोताराम सोरेन का विगत रात्रि आकस्मिक निधन हो गया, वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है, उनके आवास पर लोगों को भीड़ लग गई, सीपीआई नेता गोपाल चंद्र पात्र, टिपू सोरेन सोरेन, दीकु मुर्मू, मंडू किस्कु, छात्र नेता सरकार किस्कु समेत अनेक लोग उनके आवास पहुंचे और पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की, उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में ही किया गया।

**टाटा मैजिक अनियंत्रित होकर पलटी, 7 घायल**  
**चाईबासा।** रांची-चाईबासा मुख्य मार्ग स्थित एस मोड़ के पास बुधवार को एक टाटा मैजिक सवारी गाड़ी (छोटा हाथी वाहन) पलटने से सात यात्री घायल हो गए, बताया जाता है कि यह टाटा मैजिक चक्रधरपुर से चाईबासा की ओर जा रही थी, उसमें लाभभूषण एक दर्जन लोग सवार थे, चाईबासा जाने के क्रम में एस मोड़ के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, घटना के बाद स्थानीय लोग मौक पर पहुंचे और वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला, सभी घायलों को दूसरे वाहन से चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, घायलों में से तीन की स्थिति गंभीर रहने पर बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

## ट्रेनों में महिलाओं का पर्स चुराने वाला गिरफ्तार 2.88 लाख नकद समेत गहने बरामद

**नवीन मेल संवाददाता**  
जमशेदपुर। टाटानगर आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने ट्रेनों में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार आरोपी बागबेड़ा गाड़ाबासा निवासी 42 वर्षीय पिंटू कुमार चौरसिया है, टीम ने उसके घर से छापेमारी कर 2.88 लाख नकद, 20 ग्राम सोना, गहने तौलने वाला एक तराजू और दो मोबाइल बरामद किया है, पिंटू एक्सप्रेस ट्रेनों में चोरी की घटना को अंजाम देता था, जानकारी देते हुए जीआरपी प्रभारी गुलाम रब्बानी ने बताया कि 16 जून को बिलासपुर पटना एक्सप्रेस से एक महिला के पर्स की चोरी हो गई थी, इसके अलावा भी चोरी के कई मामले

सामने आ रहे थे, उद्घेदन के लिए जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया, सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पिंटू को संदिग्ध अवस्था में ट्रेन से एक झोला लेकर उतरते देखा गया, इसी बीच मंगलवार को पिंटू को फिर से स्टेशन में ही पाया गया जिसके बाद टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ में पिंटू ने टीम को बताया कि वह ऐसे ट्रेनों को निशाना बनाता था जो सुबह 3 से 5 बजे के बीच टाटानगर स्टेशन पहुंचती थी, जिसमें उत्कल और बिलासपुर-पटना एक्सप्रेस शामिल होते थे, वह बिना टिकट ट्रेनों में चढ़ जाता और ट्रेन की एसी बोगी में जाकर महिलाओं का पर्स चोरी करता था, बोकारो : वज्रपात की चपेट में आकर एथलीट युवक की मौत

## बोकारो : वज्रपात की चपेट में आकर एथलीट युवक की मौत

**बोकारो।** चास के भर्ना गरगा पुल के पास 23 अगस्त की दोपहर 1 बजे आसमानी बिजली की चपेट में आकर विशाल कुमार सिंह (31) की मौत हो गई, वह अपनी बाइक से सेक्टर-3 ट्रेनीज हॉस्टल मैदान से एथलीट का अभ्यास कर अपने घर चास के कैलाश नगर लौट रहा था कि उस पर वज्रपात हो गया, इस बीच युवक को स्थानीय लोग उठाकर सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, वही घटना की सूचना मिलते ही उसके परिजन और वीएस सिटी थाना की पुलिस सदर अस्पताल पहुंची, पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

## झामुमो ने मैथन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर किया प्रदर्शन



**नवीन मेल संवाददाता**  
धनबाद। झामुमो के एयारकुंड प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ सोरेन के नेतृत्व में गोपलपुर पंचायत के आदिवासी गांव वाकाडंगाल के ग्रामीणों ने बुधवार 23 अगस्त की

सुबह मैथन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर धरना प्रदर्शन किया, ग्रामीण गांव में खराब हुए एकमात्र चापाकल के मरम्मत नहीं होने से नाराज थे, ग्रामीणों ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से चापाकल के मरम्मत के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से आग्रह किया जा रहा है, ग्रामीणों ने कहा कि पेयजल के लिए पूरा वाकाडंगाल गांव के लोग इसी एकमात्र चापाकल पर निर्भर हैं, इधर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने से मैथन, कुमाराधुबी, शिवलीबाड़ी, चिरकुण्डा, एयारकुंड, मुगमा, निरसा सहित कई क्षेत्रों में करोड़ों एक लाख की आबादी को जलापूर्ति नहीं हो पायी, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ सोरेन ने कहा कि जब तक चापाकल का मरम्मत नहीं हो जाता, तब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद रहेगा।

लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से आग्रह किया जा रहा है, ग्रामीणों ने कहा कि पेयजल के लिए पूरा वाकाडंगाल गांव के लोग इसी एकमात्र चापाकल पर निर्भर हैं, इधर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने से मैथन, कुमाराधुबी, शिवलीबाड़ी, चिरकुण्डा, एयारकुंड, मुगमा, निरसा सहित कई क्षेत्रों में करोड़ों एक लाख की आबादी को जलापूर्ति नहीं हो पायी, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ सोरेन ने कहा कि जब तक चापाकल का मरम्मत नहीं हो जाता, तब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद रहेगा।

## नहीं बदले हालात सदर अस्पताल में नाम का चल रहा ओपीडी, हर दिन पहुंचते हैं 25 से 30 मरीज

# पांच लाख की डेंटल चेयर हुई बेकार, टीम ने नाराजगी जताई



**नवीन मेल संवाददाता**  
गिरिडीह। गिरिडीह के सदर अस्पताल में 5 लाख रुपये की डेंटल चेयर विगत 5 साल से रखरखाव के अभाव में खराब हो गई, यहां 2018 में डेंटल केयर चेयर खरीदी गई थी पर जरूरी अन्य सामान नहीं खरीदी गई, उपयोग न होने से इस डेंटल चेयर का कंसेप्ट खत्म हो गया और आज यह बेकार साबित हो रही है, दूसरी ओर सदर अस्पताल में फिलहाल नाम की ओपीडी चल रही है, दंतचिकित्सक मरीज को केवल दवा लिख दे रहे हैं, इस 5 लाख की डेंटल चेयर पर बैठकर किसी का दांत नहीं निकाला गया, दिखाने के लिए मशीन तो खरीदी ली गई पर कई जरूरी सामान अब

तक खरीदे नहीं गए, पेशानियां आने वाले मरीजों को हो रही है, दांत निकलवाना हो या उसका इलाज करना हो तो लोगों को निजी क्लीनिक का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, सदर अस्पताल के दंत विभाग के ओपीडी में हर दिन 25 से 30 मरीज पहुंचते हैं, पर तैनात दंत चिकित्सक डॉ. मो. आसिफ राजा मरीजों को केवल एंटीबायोटिक व अन्य दवाएं देने के सलाह देकर चलता कर देते हैं, डॉ. राजा ने बताया कि कई जरूरी उपकरण नहीं हैं, दांतों में सुनापन लाने, उसकी सफाई व घिसाई करने की मशीन यहां उपलब्ध नहीं है, उन्होंने कहा कि आवश्यकता की सूची तैयार की जा रही है, सूची

तैयार कर मुख्यालय भेजी जाएगी, उन्होंने भरोसा दिया कि सारे उपकरण उपलब्ध होने के बाद सदर अस्पताल में ही बेहतर इलाज की जाएगी, मालूम हो कि 18 अगस्त को रांची से गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंची राज्य स्तरीय टीम यहां के डेंटल विभाग की स्थिति पर नाराजगी जताई थी, एनएचएम के निदेशक तो इतने नाराज हुए थे कि प्रबंधन को साफ कहा था कि यहां व्यवस्था सुधार की चाहत ही नहीं है, ना फंड की कमी है और ना ही संसाधनों की, बावजूद गिरिडीह में स्वास्थ्य व्यवस्था रंग रही है, वरिय अधिकारियों के फटकार के बावजूद व्यवस्था में सुधार की पहल भी नहीं देखी जा रही है।

## चाईबासा में एक व्यक्ति को पत्थर से सिर कुचकर हत्या कर दी

**चाईबासा।** पश्चिम सिंहभूम के गोइलकिया थाना क्षेत्र के बिला गांव चौक से बुद्धुईया जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति की मंगलवार की रात पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई, यह लगातार चौथे दिन हत्या की गई है, बुधवार की सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने शव को देखा, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी, मृतक की पहचान रसिया प्रधान (45 वर्ष), पिता स्व. दुर्गो प्रधान के रूप में गई है, वह गोइलकिया थाना के कुला गांव का रहने वाला था, वह धूम-धूमकर खरसी और बकरी बेचता था, अभी तक की जांच में इसमें नक्सलियों का हाथ होने का पता नहीं चला है, पुलिस आगे की जांच कर रही है, नक्सली पर्व वरामद होने को लेकर अभी तक एस्पपी अशुतोष शेखर ने स्पष्ट नहीं किया है, उन्होंने कहा कि फिलहाल जांच चल रही है, पश्चिमी सिंहभूम जिला के कई क्षेत्रों में लगातार माओवादियों द्वारा मुखबिरी के नाम पर ग्रामीणों की हत्या की जा रही है।



# विष्णुगढ़ के महुआटांड में दो दर्जन हाथियों ने मचाया उत्पात कई घरों को किया ध्वस्त, फसलें रौंदी



**नवीन मेल संवाददाता हजारीबाग।** हाथियों का दल फिर से विष्णुगढ़ लौट आया है। दल में करीब 25 हाथी शामिल हैं। मंगलवार की शाम से ही सभी भेलवावा पंचायत के महुआटांड आ धमके। वहां रात में फसलों को रौंदी। कई घरों को भी ध्वस्त कर दिया। हाथियों ने महुआटांड में भुवनेश्वर गंडू, रमेश गंडू, नरेश

गंडू और सोमर गंडू के घरों को तोड़ दिए। घरों में रखे अनाज हाथी खा गए। महुआटांड में उत्पात मचाने व दहशत फैलाने के बाद हाथियों के झुंड ने बेरहो जंगल का रुख कर लिया।

**13 अगस्त को पहुंचा था हाथियों का झुंड**  
बता दें कि हाथियों ने 13 अगस्त



को पारसनाथ से विष्णुगढ़ प्रखंड के मड़मो पहुंचे थे। तबसे विष्णुगढ़ और टाटीझरिया इलाके में इनकी मौजूदगी बनी हुई है। 14 अगस्त की शाम तो हाथी चानो तथा उच्चाघना से चलकर

महतोइया और मुरगांवों होते हुए विष्णुगढ़ शाने के पीछे तक पहुंच गए थे। विष्णुगढ़ के सातमील चौक स्थित भाजपा नेता गुरु प्रसाद के घर पर हाथियों ने दस्तक दी थी। वन विभाग इन हाथियों को

आबादी वाले इलाकों से भगाने में सफल नहीं हो पा रहा है। उसके प्रयासों के बाद भी हाथी लगावार विष्णुगढ़ और टाटीझरिया क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है।

# भारत ने चांद पर तिरंगा लहरा रचा इतिहास, पूर्व विधायक ने दी बधाई

**बरही।** चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग ने एक बार यह साबित कर दिया कि हमारा देश किसी से भी कम नहीं है। आज ऐतिहासिक पल है, भारत ने स्वर्णिम इतिहास रचा है, जो हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का विषय है। उक्त बाते पूर्व विधायक सह भाजपा नेता मनोज कुमार यादव ने प्रेस

बयान जारी कर बताया। उन्होंने बताया कि इसकी सफलता को लेकर पूरा देश ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। लोगो को बस चांद पर तिरंगा लहराने की उत्सुकता थी, जो हम सफल हुए। हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का नाम अब पूरी दुनिया में रोशन हुआ है।



## चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर सद्भावना विकास मंच के अध्यक्ष ने कहा

### हम किसी से कम नहीं

**बरही।** चंद्रयान-3 के सफल सांप्रत लैंडिंग पूरी दुनिया में देश का परचम लहराया है। यह एक ऐतिहासिक पल है जिसे पूरा यूनियर्स देख रहा है। आज हम सबों को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। उन्होंने दो टूक कहा कि हम दुनिया में किसी से भी काम नहीं है, कोई

भी मुल्क हमारे देश को कम आंकने की भूल नहीं करे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में या साबित कर दिया कि हमारे वैज्ञानिक शक्ति दिन प्रतिदिन उमड़ा हो रहा है और हमारा देश विश्व में एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने इस मौके पर इसरो के सभी वैज्ञानिक,



नेतृत्वकर्ता और देशवासियों को बधाई दी।

# विधायक ने साड़ी धोती का वितरण सहित ट्रांसफार्मर का किया उद्घाटन



**नवीन मेल संवाददाता बरही।** बुधवार को विधायक उमाशंकर अकेला यादव ने प्रगतिशील महिला मंडल जन वितरण प्रणाली की दुकान देवचन्दा में सोना सोबरन योजना की शुरुआत किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को अपने कर कमलों से राज्य सरकार द्वारा प्रदात धोती साड़ी का वितरण किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक अकेला ने कहा कि सोना सोबरन राज्य सरकार का एक महत्वकांक्षी योजना है। जिसके तहत मात्र 10 रुपए में कार्डधारी को धोती साड़ी अथवा लुंगी



उपलब्ध कराया जा रहा है। मुखिया सरिता देवी ने बताया कि यह योजना गरीबों के लिए हितकर है। कार्यक्रम में एमओ डॉ मुकेश कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य विकास सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल

## रामगढ़: मतदान केंद्रों के रेशनेलाइजेशन को लेकर डीसी ने की बैठक

**रामगढ़।** मतदान केंद्रों के रेशनेलाइजेशन को लेकर बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने बैठक की। बैठक के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने वर्तमान में 22 बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र एवं 23 रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्रों के रेशनेलाइजेशन से संबंधित प्रस्ताव की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने वैसे मतदान केंद्रों जिनका नाम वर्तमान में बदल गया हो, विभिन्न मतदान केंद्रों जहां वर्तमान में मतदाताओं की संख्या काफी कम हो और उन मतदान केंद्रों को नजदीकी मतदान केंद्र के साथ मर्ज करने आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उपायुक्त ने उपरोक्त प्रस्ताव पर बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। डीसी ने इसी क्रम में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी उनके क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के रेशनेलाइजेशन से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपील की।

## फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में चक की टीम बनी विजेता



**नवीन मेल संवाददाता बरही।** भंडारो पंचायत के आजाद मोहल्ला के आजाद क्लब के सौजन्य से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन अल्पसंख्यक कल्याण मोर्चा के विस अध्यक्ष को कयूम अंसारी, सांसद प्रतिनिधि गणेश यादव, पूर्व मुखिया दशरथ यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष बंधन यादव और सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू खान आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और फुटबॉल का कीक लगाकर किया। उद्घाटन मैच चक जयनगर और मोरियानवां

तिलैया के बीच खेला गया। इस रोमांचक मैच में चक का टीम ने तीन गोल से शानदार जीत दर्ज हासिल किया। मैच सफल बनाने में बतौर रेफरी मो तारीर आलम, शौकत अली, राजू यादव और निर्णायक सरफराज अंसारी, कबीर अंसारी आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौके पर मो ताजुद्दीन, सफदर अंसारी, सावित्र अंसारी, शौकत अंसारी मिन्हाज, मो मंजूर, फिरोज अंसारी, शनावज अंसारी, दिनेश कुमार, सुभाष कुमार, मुकेश कुमार, मजहर अंसारी, पवन कुमार, आदि कई लोग मौजूद थे।

## रामगढ़ : मृतक के परिजन के घर पहुंचायी गयी खाद्य सामग्री



**नवीन मेल संवाददाता रामगढ़।** रामगढ़ प्रखंड के दोहाकातु गांव में स्व. रूपू महतो के घर पहुंचकर पार्षद डीएम महतो और मुखिया कलावती देवी ने परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दिया। उन्हें खाद्य सामग्री मुहैया कराया गया। इस बाबत गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी ने रामगढ़ जिला परिषद सदस्य धनेश्वर महतो उर्फ डीएम और मुखिया कलावती देवी

को निर्देश दिया था। मौके पर डीएम महतो ने बताया कि मृतक के परिजन के घर जाकर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया गया है। साथ ही अन्य हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया। मुखिया ने कहा कि पूरा आजसू परिवार शोक संतपन परिजनों के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि राशन के रूप में चावल, आटा, नमक, दाल, तेल सहित अन्य सामग्री परिजनों को दिया गया है।

## आज गंगपाचो में शाखा अदालत का आयोजन



**नवीन मेल संवाददाता बरकट्टा।** बैंक ऑफ इंडिया बरकट्टा शाखा द्वारा गुरुवार को गंगपाचो पंचायत भवन में शाखा अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस निमित्त एरिया मैनेजर विमलकांत झा एवं शाखा के क्रेडिट मैनेजर कन्हैया कुमार ने बैंक कर्मी एवं बैंक मित्रों के साथ बैठक की। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एनपीए

खाता धारकों को विशेष छूट दी जाएगी। कहा कि जो उपभोक्ता लोन खाते में नियमित रूप से राशि जमा नहीं कर सके हैं, वे शाखा अदालत में आकर एक मुस्त समझौता कर सकते हैं। उपभोक्ता अपने साथ आधार कार्ड एवं रकम की 10% अग्रिम राशि जमा कर शाखा अदालत का पूरा लाभ ले सकते हैं। उक्त अदालत 10 बजे से 4 बजे तक आयोजित किया

## आधार, मोबाइल अपडेट के लिए शिविर का आयोजन



**बरकट्टा।** प्रखंड मुख्यालय स्थित बरकट्टा उत्तरी पंचायत भवन में पेंशनधारकों का आधार कार्ड मोबाइल नंबर अपडेट को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से मुखिया प्रमोला देवी, पूर्व मुखिया बसंत साव रोजगार सेवक विनोद राम मौजूद थे। जहां लाभुकों ने अपने पेंशन को निरंतर चालू रखने के लिए अपने सारे कागजात को जमा किया। वहीं मुखिया प्रमोला देवी ने कहा कि सरकार के सभी कल्याणकारी योजनाएं का लाभ सभी लाभुकों को मिले इसके लिए मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मौके पर स्वयंसेवक विष्णु कुमार, वार्ड सदस्य मुनिया देवी, बंशी यादव, सहदेव राम, मनोज गुप्ता समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे।

### बिजली चोरी के मामले में आठ लोगों पर केस दर्ज

**बरकट्टा।** विद्युत ऊर्जा चोरी के मामले में आठ लोगों पर बरकट्टा थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इस बाबत कनीय विद्युत अभियंता अभिषेक आनंद ने बरकट्टा थाना में आवेदन दे कर मामला दर्ज करवाया है। जिसमें अभिजीत कुमार, गोविंद कुमार, फलजोत मंडल, मो 0 प्रवेज, सुरेश नायक, लक्ष्मण प्रसाद चौधरी, पिंटू नायक, बालिमकी कुमार शामिल है। छापामारी दल में सहायक विद्युत अभियंता सत्यदेव कुमार समेत अन्य लोग शामिल थे।

### हजारीबाग : अब विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जानकारी भी रखेंगे शिक्षक



**हजारीबाग।** विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के तहत हजारीबाग के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट में पांच दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में किशोर और किशोरियों के स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षकों को जानकारी दी जा रही है ताकि शिक्षक प्रशिक्षित होकर अपने विद्यालय जाएं तो वह छात्र-छात्राओं को जागरूक कर पाएं, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 11 मॉडल पर चर्चा की जा रही है। वहीं झारखंड की बात की जाए, तो पांच मॉडल तैयार किए गए हैं। पांच दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर में हजारीबाग के विभिन्न प्रखंड से शिक्षक पहुंचे हैं। उन्हें विभिन्न गतिविधियों के जरिए जानकारी दी जा रही है। यह ट्रेनिंग झारखंड शिक्षा परियोजना और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के संयुक्त प्रयास से चल रहा है। और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के संयुक्त प्रयास से चल रहा है।

## चंद्रयान -3 की सफल लैंडिंग को लेकर छात्रों ने किया प्रार्थना

**नवीन मेल संवाददाता बरही।** चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग को लेकर आईलेक्स प्लस टू विद्यालय के बरही, बड़कागांव, गौरियाकरमा सहित विभिन्न शाखाओं में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। विद्यार्थी सहित सभी शिक्षकों ने देश के इस गौरवमयी क्षण के लिए ईश्वर से सब कुछ कुशल होने की कामना किया। मुख्य शाखा पंचमाधव में इस ऐतिहासिक पल का बखान करते हुए निदेशक शैलेश कुमार ने कहा कि इसरो के अनुसार चंद्रयान-2 के



ऑक्टोबर का चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क हो गया है, जो महज 50 से 150 किमी के

फासले पर है। सबों को चंद्रतल पर इसके सांप्रत लैंडिंग का इंतजार है। भारत ऐसा करने वाला

दुनिया का चौथा और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। जो हर हिंदुस्तानियों के लिए गौरव का पल होगा। निदेशक ने बताया कि पहला चंद्रयान मिशन ने चांद पर पानी का पता लगाया। चंद्रयान 2 तकनीकी कारणों से लैंड नहीं कर पाया लेकिन चंद्रयान-3 सफलता के करीब है। जो चांद पर पानी, जल स्रोतों और खनिजों की पहचान करने में मदद करेगा। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों संग ईश्वर से इसकी सफलता की कामना किया।

## हजारीबाग प्रेस क्लब के अपने सदस्यों को करेगा आर्थिक मदद

# सामूहिक स्वास्थ्य बीमा जल्द कराने का निर्णय



**नवीन मेल संवाददाता हजारीबाग।** पत्रकारों के हित में कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रेस क्लब, हजारीबाग ने अपने सदस्यों को आर्थिक मदद करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रेस क्लब, हजारीबाग के अध्यक्ष उमेश प्रताप की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि किसी बीमारी में निजी अस्पताल या नर्सिंग होम में कमसे कम 24 घंटे तक जो सदस्य भर्ती होंगे उन्हें तत्काल सहायता 5000 रुपए का मदद करेगा। वहीं दुर्घटना में घायल होने पर प्लास्टर कराने की स्थिति में तत्काल 2000 रुपए सहयोग राशि दी जाएगी। प्रेस क्लब हजारीबाग के सचिव मिथिलेश मिश्र ने यह

जानकारी देते हुए बताया कि गंभीर बीमारी से ग्रसित प्रेस क्लब के सदस्यों को सरकारी सहायता भी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं कार्यकारिणी के निर्णय पर जरूरत के अनुसार क्लब की ओर से एक से पांच हजार रुपए की मदद दी जाएगी। इसके लिए प्रखंड कमेटी के अनुमोदन के उपरांत जिला कमेटी निर्णय लेगी। साथ ही उस सदस्य को इससे संबंधित जारी आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रेस क्लब, हजारीबाग के सभी सदस्यों का ग्रुप बीमा भी कराने पर सहमति बनी है। प्रेस क्लब, हजारीबाग की ओर से लिए गए इस महत्व पूर्ण निर्णय पर उपाध्यक्ष उमेश राणा, अभय सिंह, संयुक्त सचिव देव नारायण, नवीन सिन्हा,

## शीघ्र होगा बरही प्रेस क्लब का गठन

**बरही।** स्वामी विवेकानंद सार्वजनिक पुस्तकालय के वाचनालय में बरही के पत्रकारों की एक बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार जावेद इस्लाम और संचालन प्रमोद विश्वकर्मा ने किया। जिसमें मुख्य रूप से बरही के पत्रकारों की एकता को तोड़नेवाले साजिश कर्ताओं पर करारा प्रहार किया गया। एक सुर में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सर्वस्व त्यागने का संकल्प लिया। उपस्थित सभी पत्रकारों ने आपसी भातियां हुई थीं। इसके कारण दूरियां बढ़ी थीं। जो मेरी भूल थीं। सभी पुराने गोल शिकवे दूर हो चुके हैं और हम सभी एक ही चुके हैं।

को अध्यक्षता कर रहे जावेद इस्लाम ने बताया कि हम पत्रकारों की एकता और अखंडता को साजिश के तहत तोड़ने का काम किया गया था। जिसे हमारी चट्टानी एकता ने पुरजोर जवाब दिया है। पत्रकार श्याम मोहन शर्मा ने भी कहा कि एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। कृष्णा प्रजापति ने कहा कि कुछ लोगों की चजह से आपसी भातियां हुई थीं। इसके कारण दूरियां बढ़ी थीं। जो मेरी भूल थीं। सभी पुराने गोल शिकवे दूर हो चुके हैं और हम सभी एक ही चुके हैं।



बैठक का संचालन कर रहे श्री विश्वकर्मा ने दो टूक शब्दों में कहा कि हम सभी पत्रकार एक थे, एक है और एक रहेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से बरही प्रेस क्लब के गठन की चर्चा हुई। जिस पर आम सहमति बनते ही क्लब के पदाधिकारियों का चयन हेतु पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया। टीम चयन पद्धति पर विचार विमर्श कर शीघ्र ही बरही प्रेस क्लब के चुनाव संबंधित औपचारिक घोषणा

करेगी। बैठक में बरही के सभी वरिष्ठ पत्रकार सहित दयानंद चौरीसिया, प्रभाकर पाठक, राजदेव गुप्ता, अनुज सोनी, बिपिन पांडेय, सुरेंद्र निषाद, कृष्णा यादव, शोएब अख्तर, अमित सोनी, कुनकुन सोनी, सोमनाथ शर्मा, अजय कुशवाहा, धनंजय पांडेय, कमल शंकर पंडीत, पंचम पांडेय, सोनू पांडेय, योगेंद्र पंडीत, जयदीप कुमार सिन्हा आदि सहित कई पत्रकार शामिल थे।



# पार्वती शर्मा इंटर कॉलेज में पद्मश्री डा. रामदयाल मुंडा की जयंती मनी



**नवीन मेल संवाददाता**  
सिमडेगा। पार्वती शर्मा इंटर महिला कॉलेज सिमडेगा में डॉ रामदयाल मुंडा की जयंती मनाई गई इस

अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य सत्यव्रत ठाकुर के द्वारा दीप जलाते हुए डॉ रामदयाल मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर फूल माला

अर्पित किया गया। उपस्थित शिक्षक एवं क्षेत्र कर्मचारियों सहित छात्रों को संबोधित करते प्राचार्य सत्यव्रत ठाकुर ने कहा कि डॉ रामदयाल

मुंडा का जन्म 23 अगस्त 1939 को तमाड़ के देवरी गांव में हुआ था एवं उनकी मृत्यु 30 सितंबर 2011 को कैसर से हो गई थी। डॉ रामदयाल मुंडा आदिवासी समाज के अगुवा थे। उन्होंने आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने में बहुमूल्य योगदान दिया है उनके द्वारा ही जे नाची से बांची का नारा दिया गया। डॉ रामदयाल मुंडा साहित्यकार, गीतकार थे डॉ रामदयाल मुंडा के प्रयास से रांची विश्वविद्यालय में जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना 1980 में की गई एवं 1981 में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के पहले अध्यक्ष के रूप में इनका इनकी नियुक्ति हुई। 1986 में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति बने डॉ रामदयाल मुंडा को झारखंड के रविंद्र नाथ टैगोर के रूप में जाना जाता है। डॉ रामदयाल मुंडा झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले पहले व्यक्ति थे। श्री मुंडा को भारत सरकार द्वारा

2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 2010 में सांस्कृतिक योगदान हेतु पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा मुंडा और नागपुरी में गीत एवं कई किताब लिखे गए हैं सरहुल पर्व में जुलूस की शुरुवात इनके द्वारा ही किया गया था। हमे इनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है मौके पर शिक्षक दुर्गाविजय सिंह देव द्वारा भी डॉ रामदयाल मुंडा के द्वारा जो नारा दिया गया है उसे आगे बढ़ाने की बात कही गई, इससे पूर्व सभी शिक्षक शिक्षक कर्मचारियों एवं छात्रों द्वारा श्री मुंडा के तस्वीर पर फूल चढ़ा कर श्रद्धांजलि दी गई, मौके पर शिक्षक दुर्गाविजय सिंह देव, आर के कासी, एलिजाबेथ केरकेट्टा, निशांत अंजुम, मनोरमा सुनीता मिंज, राविया तब्बसूम, किरण माला देवी, सतीश सिंह, रविपाटी, अनिमा कुमारी, अमृता कुमारी, मुख्य रूप से शामिल थे।

## वज्रपात की चपेट में चार मवेशी की मौत

सिमडेगा। सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोकबहार पंचायत के डोंगापानी गांव में बुधवार को हुए अचानक तेज बारिश की वजह से हुए वज्रपात की चपेट में आने से किसान का 4 मवेशी की मौत हो गयी। मामले की जानकारी पंचायत के मुखिया दुर्गा मुंडा को दी गई। इसके बाद मुखिया मामले की जानकारी लिए जहां पर बताया गया कि डोंगा पानी गांव निवासी बंधन जोजो नामक किसान बारिश से बचने के लिए अपने मवेशी को झमली पेड़ के नीचे बंद कर रखा था इस दौरान अचानक आकाश से बिजली गिरी और उसकी चपेट में आने से उसके चारों मवेशियों की मौत हो गई। किसान ने बताया की खेती बाड़ी की मौसम है ऐसे में उसकी मौसी की मौत होने से परिवार में आर्थिक संकट आप पड़ा उन्होंने विभाग सूचित मुआवजे की मांग की है जिस पर मुखिया ने कहा जल्द इस मामले को विभाग को सूचित कर उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

## सिमडेगा : सर्पदंश से युवक की हुई मौत, एक की हालत गंभीर



**नवीन मेल संवाददाता**  
सिमडेगा। सिमडेगा में सर्पदंश के मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। बुधवार को जहरीले सांप के डंसने से जलडेगा की लंबोई बाजार टोली निवासी नेल्सन बुड नामक युवक को सदर अस्पताल लाने के साथ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार युवक अपने घर के जमीन में सोया हुआ था इसी दौरान

जहरीले सांप ने डंसा और किसी को पता नहीं चला। बाद में उसकी हालत बिगड़ने लगी तब परिवार वालों ने आसपास अपने रिश्तेदारों को इसकी सूचना दी और सभी लोगों ने उसे वहां करते हुए इलाज के लिए सदर अस्पताल से मिलेगा लया इधर बुधवार को सुबह 10:00 बजे सदर अस्पताल सिमडेगा लाने के साथ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि शरीर

में जहर का फैलाव होने की वजह से उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस ने शव अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाने के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया वहीं इसके अलावा कुटुंबिया डोंगापानी गांव में भी जहरीले सांप के डंसने से 17 वर्षीय लुम्बा केरकेट्टा नामक युवक की तबीयत बिगड़ी जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल से मिलेगा में भर्ती कराया इधर सदर अस्पताल में उसकी उपचार जारी है।

## करंट की चपेट में आने से युवक झुलसा

सिमडेगा। बानो के बितुका में बिजली करंट की चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से झुलसा गया जिसे परिवार वालों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल सिमडेगा में भर्ती कराया है जहां उसकी उपचार चल रही है युवक की पहचान सुबलन बुड के रूप में हुई। घटना के संबंध में उसकी मां ने बताया कि घर में बिजली खराबी थी जिसे बनाने के लिए उसके बेटे ने चालू लाइन में कोशिश किया इसी दौरान बिजली करंट की चपेट में आ गया और करंट इतनी जोरदार थी कि पूरे शरीर का 50% हिस्सा पूरी तरह से झुलसा गया और वहां पर युवक गिर गया बाद में परिवार वालों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उपचार चल रही है। इधर मामले की जानकारी ने पर कार्यपालक अभियंता विद्युत विशेषज्ञ मरडी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की घटना सूचना बाद ही दुख है उन्होंने किसी भी व्यक्ति को बिजली उपकरणों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की बात कही है।

## कांग्रेस एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष सोनू नायक ने किया ठेठईटांगर प्रखंड का दौरा



**नवीन मेल संवाददाता**  
ठेठईटांगर। कांग्रेस एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष सोनू नायक प्रखंड के अंतर्गत बाकचड़ा, खरवागढा पंचायत पहुंच कर सुनी ग्रामीणों की समस्या ग्रामीणों ने कहा कि हमारे बाकचड़ा में ग्रामीणों की संख्या करीब दो सौ से अधिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं। और आज तक हमारे इस समस्या को सुनने और देखने के लिए किसी तरह कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज तक हमारे गांव में बिजली

जलमिनार , ना ही बच्चों के लिए कोई आंगनबाड़ी केन्द्र बनाए गए हैं। हमारे इस गांव में करीब 60 से 70 बच्चों की संख्या है। जिसको सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। आज भी इस जगह जंगल के बीच में अंधेरा में बरसात के दिनों पर रहने को विवश हो गए हैं। हमारे बस्ती में घुसने के लिए रोड तक नहीं है इस तरह सभी समस्या को देखते हुए सोनू नायक ने कहा कि आपका गांव का जो समस्या है वे बहुत ही दुःख से भरी हुई है। इन सभी को देखते हुए जितना जल्द हो सके कोलेबिवा

विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी को अवगत कराएंगे। और इस तरह का जो समस्या है उससे बहुत जल्द दूर किया जायेगा। झारखंड महागठबंधन पार्टी की सरकार हर छोटे से छोटे गांव में घुस कर हर प्रकार की समस्या को दूर कर रहे हैं। और हर प्रकार की योजना चला रहे है। मौके पर जुनास बा, मनोवेल बा, जेवियर बा, रोशन बा, राजेश बा, दासू मांझी, सुमन मांझी, सुबास मांझी, सुबोन मांझी , रत मांझी, मनसाय मांझी जयपाल मांझी आदि ग्रामीण मौजूद थे।

## ग्रिजली विद्यालय में मनाई गई संत सिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास की जयंती

कोडरमा। तिलैया डैम स्थित ग्रिजली विद्यालय में संत सिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारम्भ विद्यालय के सीईओ प्रकाश गुप्ता, प्राचार्य अपर्णा सिन्हा, संयोजक विजय कुमार सिंह ने तुलसीदास की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। मौके पर वेलनेस क्लब के छात्रों द्वारा कई आकर्षक प्रस्तुति दी गई। छात्र पीयूष कुमार, शिशु कुमार, गौतम कुमार आर्य, रूद्र मंडल, जया कुमारी, शिवानी कुमारी, राहुल तिवारी, पुष्कर वाडेकर ने तुलसीदास की जीवन तथा उनकी



रचनाओं पर प्रकाश डाला एवं रामचरितमानस की पंक्तियों का स्वरू पाठ करते हुए आधुनिक संदर्भ में इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला। वहीं संयोजक विजय कुमार सिंह ने रामचरितमानस का विद्यार्थियों के जीवन पर प्रभाव के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यालय के सीईओ प्रकाश गुप्ता ने कहा कि महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई के माध्यम से एक आदर्श समाज की रूप रेखा प्रस्तुत की है।

बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यालय के सीईओ प्रकाश गुप्ता ने कहा कि महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई के माध्यम से एक आदर्श समाज की रूप रेखा प्रस्तुत की है।

## विश्वकर्मा पूजा को लेकर ऑटो चालक-मजदूर संघ की बैठक

**नवीन मेल संवाददाता**  
सिमडेगा। सिमडेगा अल्वर्ट एक्का स्टेडियम में बुधवार को आगामी 17 सितंबर को होने वाले विश्वकर्मा पूजा को लेकर ऑटो चालक संघ एवं मजदूर संघ की आवश्यक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता मजदूर नेता राजेश कुमार सिंह के द्वारा की गई। इस मौके पर ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष अतुल बरला भी मौजूद रहे। जानकारी देते हुए मजदूर नेता राजेश सिंह ने बताया कि 17 सितंबर को सिमडेगा नगर भवन में धूमधाम के साथ भगवान विश्वकर्मा के पूजा आयोजन

किया जाएगा और इस दिन रंगारंग नागपुरिया प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें झारखंड के कई बड़े कलाकारों को बुलाया जाएगा उन्होंने आयोजन को लेकर ऑटो चालक संघ एवं मजदूरी यूनियन की सभी सदस्यों की भूमिका रहने की बात कही उन्होंने बताया कि 18 तारीख को धूमधाम के साथ विसर्जन शोभायात्रा निकाली जाएगी इसके बाद कार्यक्रम संपन्न हो उन्होंने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति का गठन की जाएगी इसके लिए जल्दी बैठक का आयोजन होगा।



## जागरूक कोडरमा में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

# ‘कानून की जानकारी हर व्यक्ति के लिए जरूरी’



**नवीन मेल संवाददाता**  
कोडरमा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्त्वधान में बुधवार को चंदवारा प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंदवारा प्रमुख मंजू देवी ने किया, जबकि मुख्य रूप से चंदवारा अंचल अधिकारी राम रतन कुमार बर्णवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में एलडीसीएस के अधिवक्ता अरुण कुमार ओझा उपस्थित थे। इस अवसर पर एलडीसीएस अधिवक्ता अरुण कुमार ओझा ने कहा कि साधन के अभाव में कोई भी न्याय से वंचित नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वैसे लोगों के लिये सरकारी अधिवक्ता मुहैया कराये जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि

कानून की जानकारी हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लोग शिक्षित व जागरूक होकर ही अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह सहित कई कानून की विस्तृत रूप से जानकारी दी। वहीं चंदवारा प्रमुख मंजू देवी ने कहा कि लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और जागरूक होकर उसका लाभ उठाएं। वहीं चंदवारा अंचल अधिकारी रामरतन वर्णवाल ने कहा कि जागरूकता शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक न्याय की किरण पहुंच सके। वहीं अधिवक्ता राजेंद्र मंडल ने डीएलएसए द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों की विस्तृत रूप से जानकारी दी। धन्यवाद ज्ञापन पीएलबी सुमन रानी ने किया।

कानून की जानकारी हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लोग शिक्षित व जागरूक होकर ही अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह सहित कई कानून की विस्तृत रूप से जानकारी दी। वहीं चंदवारा प्रमुख मंजू देवी ने कहा कि लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और जागरूक होकर उसका लाभ उठाएं। वहीं चंदवारा अंचल अधिकारी रामरतन वर्णवाल ने कहा कि जागरूकता शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक न्याय की किरण पहुंच सके। वहीं अधिवक्ता राजेंद्र मंडल ने डीएलएसए द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों की विस्तृत रूप से जानकारी दी। धन्यवाद ज्ञापन पीएलबी सुमन रानी ने किया।

## आंगनबाड़ी सेविकाओं को गैस चूल्हा के उपयोग के बारे में दी गई जानकारी



**नवीन मेल संवाददाता**  
बानो। बाल विकास परियोजना कार्यालय बानो में बुधवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं को गैस चूल्हा के उपयोग पर दी गई जानकारी जिला परिषद बिरजो के कुंडुला ने कहा आज सरकार द्वारा सभी आंगन वाड़ी केंद्र को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है इसका उपयोग करें। इससे समय की भी बचत होती

है। प्रखंड विकास पदाधिकारी यादव बैठा ने कहा कि आज सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके तहत आंगन वाड़ी केंद्र में गैस द्वारा बच्चों का खिचड़ी बनाया जाना भी महत्वपूर्ण योजना है। सन्तोष साहू ने जानकारी देते हुए कहा कि बेवजह गैस को न जलाएँ सभी सामानों जमा करने के पश्चात ही गैस जलाएँ। चूल्हा

को हमेशा सिलेंडर से ऊँचाई स्थान पर रखें। गौरतलब कोई आंगनबाड़ी में घुसने से बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस कदम को उठाया गया है ताकि बारिश के महीने में भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो और बच्चों को समय पर भोजन उपलब्ध हो सके।



## जिले में डॉक्टरों व चिकित्सा व्यवस्था का अभाव

## 45 दिन में 93 मरीज रेफर

नवीन मेल संवाददाता। गढ़वा जिले के मरीजों को ठीक करने वाला अस्पताल खुद बीमार है। जिले में चिकित्सकों के कमी का दर्श पूरे जिले के लोग भुगत रहे हैं। हालात ये हैं कि जिले में एक चिकित्सक के भरोसे 30 हजार आबादी है। जिले में 915 गांव हैं जिसकी कुल जनसंख्या 15 लाख 22 हजार के करीब है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 14 लाख 79 हजार है। वहीं शहरी क्षेत्र की आबादी 55 हजार के करीब है। जिले में चिकित्सकों की भारी कमी है। वहीं चिकित्सा व्यवस्था पर भी सिर्फ छोटी-मोटी बीमारियों का ही जिला अस्पताल में इलाज होता है। अगर आप गंभीर बीमारी, सड़क दुर्घटना से प्रभावित हैं तो रेफरल अस्पताल से तो रेफर होकर आप सदर अस्पताल आएं ही लेकिन यहाँ भी आपको समुचित इलाज नहीं मिलेगा। आपको थोड़ी बहुत सुई और दवाई देकर तत्काल सदर अस्पताल से रेफर कर दिए जाएंगे। पिछले 45 दिन में अब तक 93 मरीज ऐसे हैं, जिन्हें अस्पताल में तो बहुत उम्मीद लगा कर आए होंगे लेकिन उन्हें हल्की फुल्की दवाई देकर रेफर कर दिया जाता है।



## 15.22 लाख आबादी जिलास्तर के भरोसे

182 स्वीकृत पद में सिर्फ 38 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिले रिपोर्ट के अनुसार चिकित्सक के मामले में स्वास्थ्य विभाग बेहाल है। पर स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर करोड़ की भवन खड़ी कर दी गई है। उक्त भवन के रंग हटते ही और पुनः करोड़ों रुपये की लागत से मरम्मत हो गई। कुल मिला ले तो जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर जिले में बहुत उम्मीद लगा कर आए होंगे लेकिन उन्हें हल्की फुल्की दवाई देकर रेफर कर दिया जाता है।

और रंका को रेफर अस्पताल का दर्जा मिला हुआ है। वहीं पंचायत स्तर पर लाखों रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उपस्वास्थ्य के भवन बने हुए हैं। पर उक्त भवनों का हाल बेहाल है। मंगलवार को एक मामला सड़क दुर्घटना का आया जिसे सदर अस्पताल में टांका देने के बाद हल्की फुल्की दवाइयाँ देकर बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। घटना में घायल गढ़वा थाना क्षेत्र के अनन्ना नावाडीह गांव के पास एक युवक अपने घर के बाहर सड़क के किनारे खड़ा था। उसी बीच रंका की ओर से आ रहा एक

अज्ञात चार पहिया वाहन ने उसे धक्का मारते हुए फरार हो गया। उसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिये परिजन उम्मीद लगाकर सदर अस्पताल पहुंचे। लेकिन यहाँ से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था बताते हुए मरीज को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया।

## जिले में चिकित्सा कर्मियों की कमी है : सिविल सर्जन

जिले में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है। कमी को दूर करने के लिए हमेशा विभाग को लिखा जा रहा है। कुछ ऐसे गंभीर दुर्घटना व बीमारी के मरीजों आते हैं। उनके लिए सदर अस्पताल में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एमआरआई, सीटी स्कैन आदि नहीं होने के कारण उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा अब बहुत कम मरीजों को रेफर किया जाता है। कुछ कुछ व्यवस्था सदर अस्पताल में सुधार किया गया है।

## मामला डंडई गांव का, कार्य धरातल पर उतरा नहीं और राशि का भुगतान हो गया

15वें वित्त आयोग की योजना में फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आया

नवीन मेल संवाददाता। डंडई प्रखंड के डंडई पंचायत में 15वें वित्त आयोग की योजना में फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आया है। कार्य धरातल पर उतरा भी नहीं और उसके नाम पर 5000 रुपये की राशि की निकासी कर ली गई। पंचायत की पूर्व मुखिया फूलवंती देवी और पंचायत के ताल्कालिक पंचायत सचिव सुनील कुमार के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि का भुगतान किया गया है।

मामला पंचायत के डंडई गांव के दक्षिण हरिजन टोला निवासी रामस्वरूप राम के खेत में कलवट निर्माण से जुड़ा है। रामस्वरूप राम के खेत में क्लिम पाइप आधारित नया किसी भी तरह का कलवट का निर्माण नहीं हुआ है और उसके नाम पर राशि की फर्जी निकासी कर ली गई। वहाँ पूर्व पानी बहाव को लेकर जो क्लिम पाइप खेत में लगाया गया था वह आज भी उक्त स्थल पर स्थापित है। उसी पाइप के सहारे सड़क और पास पड़ोस के ब्यारियों के पानी का बहाव होते रहता है। उसकी जगह



पर आज तक कोई और दूसरा क्लिम पाइप के साथ कलवट का निर्माण नहीं हुआ है। उक्त पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के द्वारा लाभुक राहुल कुमार के खाते में पीएफएमएस स. 20214990 के तहत 2 फरवरी 2022 को राशि का भुगतान किया गया है। बताया जाता है कि बिना कार्य के लाभुक के खाते में सरकार की एक ही रुपये की राशि का भुगतान नहीं हो सकता है। बावजूद उक्त लोगों के द्वारा लाभुक के खाते में बिना काम कराए ही राशि का भुगतान कर दिया गया है। गौरतलब हो कि योजना के नाम पर डेढ़ वर्ष पूर्व

भुगतान हुए राशि के आलोक में आखिर क्यों नहीं अब तक कार्य योजना को धरातल पर उतर गया। पास पड़ोस के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को अभी तक किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिली है कि उक्त रास्ते में कलवट निर्माण योजना का एकरारनामा भी हुआ है। उन्होंने बताया कि कलवट के अभाव में ही उक्त सड़क का अभी तक ना तो पीसीसी करण हो पाया है और ना ही मिट्टी मोरम का ही कार्य कराया जा चुका है। ग्रामीणों में बताया कि हम लोगों को आने-जाने के लिए उक्त सड़क बहुत ही

उपयुक्त है। बरसात के दिनों में उक्त रास्ते हम लोगों को आन जान करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसी लिहाज से हम सभी आपस में चंदा इकट्ठा कर रामस्वरूप राम के खेत में एक टूटा फूटा पाइप लगा दिए हैं जिससे कि खेत और सड़क का पानी निकलते रहता है। वहीं उसके ऊपर से हम सभी आन जान करते रहते हैं। मामले में डीपीआरओ दिनेश प्रसाद सुरीन ने बताया कि किसी भी योजना में फर्जीवाड़ा करना एक गंभीर विषय है। उन्होंने बताया कि हम लोगों को आने-जाने के लिए उक्त सड़क बहुत ही

## तंबाकू मुक्त भविष्य के लिए युवाओं को आगे आने का आह्वान

नवीन मेल संवाददाता। गढ़वा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्नातकीय जीएन कॉन्वेंट स्कूल में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्रथम चरण गढ़वा जिला स्वास्थ्य संस्था के कुमार संजीव शरण (मनो चिकित्सक) एवं राजकुमार वर्मा (सलाहकार) के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ, जिसमें विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने बड़-चढ़ कर भाग लिया। बच्चों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तंबाकू मुक्त भविष्य के लिए युवाओं को आगे आने का आह्वान किया।

कहा कि जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं वैसे वैसे हममें अच्छाइयों के साथ साथ गलत आदतें भी आती हैं। यही वह समय है जब हम बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 द्वारा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों, संवर्धन और, प्रायोजकता पर प्रतिबंध लगाकर, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को निषिद्ध करके, अव्ययकों को तथा

## राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रथम चरण का समापन, छात्र-छात्राओं ने बड़-चढ़ कर लिया भाग



उनके द्वारा तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाकर, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाकर और सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर निर्दिष्ट चित्र बाल स्वास्थ्य चेतनावनी प्रदर्शित करने को जरूरी बनाकर तंबाकू उत्पादों की खपत, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित किया जाता है। हालांकि, खाद्य व मानक

अधिनियम, 2006 के तहत गुटखा जैसे तंबाकू अथवा निकोटिन वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और वितरण को निषिद्ध किया गया है। तंबाकू सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कैंसर जैसे असाध्य रोगों से अकाल मृत्यु हो जाती है। एक अध्ययन के अनुसार तंबाकू का सेवन करने के कारण हृदयाघात 78 प्रतिशत, इस्केमिक हृदय रोग

85.2 प्रतिशत, तपेदिक 65.6 प्रतिशत, गंभीर मायोकार्डियल इन्फेक्शन 52 प्रतिशत, इसोफेजियल कैंसर 437, मुंह का कैंसर 38 प्रतिशत तथा फेफड़ों का कैंसर 16 प्रतिशत का रोग जोखिम है। छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक मदन केशरी ने कहा कि तंबाकू सेवन को छोड़ना पूरी तरह से संभव है। समुचित परामर्श और

सामाजिक सहयोग और मजबूत इच्छाशक्ति क इसमें प्रमुख भूमिका है। तंबाकू सेवन को छोड़ने में सामाजिक आर्थिक लाभ के साथ-साथ निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ है। शरीर, घर और सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहती है। इस अवसर पर बच्चों के बीच राष्ट्रीय तंबाकू जागरूकता अभियान आधारित विद्युत प्रतियोगिता में आवोजित किया गया जिसमें अमृतेश राज

पांडेय को प्रथम स्थान (शब्द कोष) दिव्या दीप सोनी दशम को द्वितीय स्थान (स्कूल बैग) आकाश कुमार पांडेय दशम को तृतीय स्थान (शब्द कोष लघु) प्रदान किया गया। शेष सभी छात्र छात्राओं को सान्त्वना पुरस्कार के रूप में एक एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक संतोष प्रसाद, संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा।

## चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को विद्यार्थियों ने की प्रार्थना



नवीन मेल संवाददाता। मेराल मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर बुधवार को मेराल के एस डी मेमोरियल एकेडमी में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने सांख्यिक रूप से ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा चंद्रयान 3 का मॉडल भी बनाकर प्रदर्शित किया गया। सभी छात्र-छात्राओं को बुधवार के शाम 5:30 बजे से

चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग को लेकर टी वी प्रसारण को देखने के लिए प्रेरित किया गया। प्रार्थना सभा में छात्र-छात्राओं के साथ विद्यालय के निदेशक ब्रजेश कुमार मिश्र, अमरेंद्र कुमार मिश्रा, श्याम देव पांडे, गौतम कुमार, मृत्युंजय पांडे, जयप्रकाश पांडेय तृप्ति टोप्पो, एनिमा कुजूर, नसरीन खातून, उपासना कुमारी आदि शामिल थे।

## उप स्वास्थ्य केंद्र मरम्मत कार्य का हुआ शिलान्यास

योजनाओं में पारदर्शिता बरती जाएगी : सिंह

नवीन मेल संवाददाता। बरवाडीह प्रखंड के छिपादोहर पूर्वी क्षेत्र में बुधवार को जिला परिषद मद से 15वें वित्त आयोग की राशि से छिपादोहर उप स्वास्थ्य केंद्र के मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में पूर्वी जिला परिषद सदस्य कन्हई सिंह, मुखिया बेरनिका कुजूर व अन्य अतिथियों द्वारा शिलान्यास का अनावरण किया गया। मौके पर कन्हई सिंह ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में जिला परिषद मद द्वारा सर्वप्रथम कार्य कराया जा रहा है। सभी विकास कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी। कहा कि पूर्वी क्षेत्र के सभी पंचायत में विकास



योजनाओं में तेजी लायी जायेगी। इस मौके बेरनिका कुजूर, राजू प्रसाद, सुरेश

प्रसाद, निजाम आंसारी मो. सईद अंसारी आदि उपस्थित थे।

## प्रखंड कार्यालय में महिला मेट सम्मेलन का हुआ आयोजन

महुआडांड। अंचल सह प्रखंड कार्यालय के सभागार में एक दिवसीय अर्धवार्षिक महिला मेट सम्मेलन का आयोजन लीड्स संस्था द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि जिला लोकपाल संतोष कुमार पंडित थे। इस सम्मेलन में प्रखंड के सभी मुखिया शामिल हुए। इस मौके पर बीडीओ ने कहा कि महिला मेट अधिक से अधिक संख्या में योजना से जुड़कर मनरेगा के कार्यों को सफल करें एवं गांव में अधिक से अधिक रोजगार सृजन करें। पलायन को रोकने में भागीदारी निभायें और स्वयं महिला मेट के रूप में कार्य कर मनरेगा के उद्देश्यों को पूरा करें।

## संक्षिप्त

## महासभा ने मनायी डॉ. रामदयाल मुंडा जयंती



चिनिया। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा प्रखंड इकाई चिनिया के द्वारा डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती मनाया गई। इसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय आदिवासी महासभा प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह खरवार ने की। मौके पर खरवार ने कहा कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा भारत के दलित और आदिवासी समाज की आवाज थे। 1980 के दशक में डॉक्टर मुंडा को कमेटी आन झारखंड मेट का प्रमुख सदस्य बनाया गया। देश-विदेश में हुए कई कार्यक्रमों में उन्होंने झारखंडी संस्कृति को आगे बढ़ाया। उनकी कई संगीत रचनाएँ लोकप्रिय हुईं। पाहका नृत्य का प्रदर्शन उन्होंने 1990 के दशक में सोवियत रूस में कर दुनिया भर में पहचान दिलाई। वहीं जिला कार्यकारिणी सदस्य मुद्रिका बैरा ने कहा आदिवासियों के अधिकारों के लिए उन्होंने हमेशा से शिक्षा को सर्वोपरि माना। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें उनका बड़ा योगदान रहा था। आदिवासियों के हितों के लिए वे हमेशा कार्य करते रहे। यही कारण है कि वह 1980 के दशक में अमेरिका से अध्यापक की नौकरी छोड़ रांची चले आए। और यहाँ के दबे कुचले समाज तथा आदिवासियों की आवाज बन गए। मौके पर सुरेंद्र सिंह, तीर्थराज सिंह, बिदेवर सिंह, खरवार, नितेश कुमार सिंह खरवार, हरिमाल सिंह, चेतनाथ सिंह, सत्यनारायण सिंह, अर्जुन सिंह, सत्येंद्र सिंह मौजूद थे।

## रमना में एक ही रात में तीन घरों में हुयी चोरी



रमना। रोहिला स्थित गड़ई टोला में मंगलवार की रात त्रितीन घरों में चोरी की घटनाएँ हुईं। चोरों ने नये कपड़ा की गांठ सहित नकदी और जेवर पर हाथ साफ किया। पीड़ितों इरफान, काशिम अंसारी और ओहाब अंसारी शामिल हैं। सभी समानों की चोरी बंद और पुराने घरों से हुई है। सभी पीड़ितों बगल में ही नए मकान में रहा करते हैं। मुखिया अजीत कुमार पांडेय की सूचना पर घटना स्थल पर सदलबल पहुंचे थाना प्रभारी कुष्ण कुमार कुशवाहा ने जांच आरंभ कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं पर अनुसंधान आरंभ कर दिया गया है। फिलहाल पीड़ितों द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितना नकदी और कितने मूल्य के जेवर चोरी किये गये हैं।

## करंट से दूधारु गाय की घटनास्थल पर मौत



चिनिया। थाना क्षेत्र के मसरा गांव के मुरटंगी टोला में 11000 विद्युत प्रवाहित पोल की चपेट में आने से मुरटंगी निवासी शिवपूजन यादव की एक दुधारु गाय की मौत घटना स्थल पर हो गई, जिससे पशुपालक शिवपूजन यादव को भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार बुधवार को पशुपालक शिवपूजन यादव गांव के किनारे जंगलों में गई हुये थे। तभी 11000 बिजली के पोल में करंट आ जाने से दुधारु गाय की मौत हो गई। गाय काफी देर तक जलता रहा। इसकी सूचना पंचायत के मुखिया पति सह प्रतिनिधि उदय पुर्याल ने चिनिया विद्युत कर्मी सीमंत कुमार को दी। मौके पर पहुंचे विद्युत कर्मी ने विद्युत सप्लाय को बंद कराया। उधर, पशुपालक ने बिजली विभाग से मुवावजे की मांग की है।

## धर्म-कर्म मानव योनि का उद्देश्य सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए : जीयर स्वामी

## 'किसी को भी किसी जीव को मारकर खाने का अधिकार नहीं'

नवीन मेल संवाददाता। श्री बंशीधर नगर जीयर स्वामी महाराज ने प्रवचन करते हुए कहा कि इंद्रियों का भोग तो जानवर भी भोग लेते हैं। यह सभी जीवों में व्याप्त है लेकिन 84 लाख योनि के बाद मानव योनि में जन्म लेने के बाद मनुष्य की इच्छा परमात्मा प्राप्ति की होनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है तो 84 लाख योनिओं के बाद मानव योनि में इंसान जन्म लेता है। अगर वह भी भोग विलास में डूबर-उधर गंवा दे तो यह दुर्भाग्य है। मनुष्य का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति ही होनी चाहिए और इसको पाने के लिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। जिसका दो मुख्य मार्ग हैं, संत का समागम तथा

ईश्वर का भजन। अगर आप मार्ग से भटक गए हैं, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो संत का समागम कीजिए, संत का दर्शन कीजिए, संत का प्रवचन सुनिए, धीरे-धीरे मन भटका हुआ मार्ग छोड़कर ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो लगातार ईश्वर की भक्ति शुरू कर दीजिए धीरे-धीरे भटका हुआ मन भी ईश्वर के मार्ग में चलना शुरू कर देगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मानव योनि में कर्म के प्रति विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। हम मानते हैं कि अच्छा कर्म ज्यादा नहीं हो पा रहा है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि बुरा कर्म न हो पाए। सतर्कता इसी बात की रखनी चाहिए



कि हमसे कोई गलत कार्य न हो जाए। किसी अन्य जीवों को कष्ट न हो जाए। किसी को भी किसी जीव को मारकर खाने का अधिकार नहीं

है। अपने जीव के स्वाद के लिए दूसरे जीवों को मार कर खाना यह बहुत बड़ा महा पाप है। क्योंकि मनुष्य भी सभी योनिओं से होकर

गुजरा है। अतः मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए अच्छे-अच्छे कर्म करने चाहिए पूजा-पूजा करना चाहिए और सबसे पहला चीज है कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। जहां स्वच्छता होती है वहां ईश्वर का वास होता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि गंगा गीता गौ तथा गायत्री की पूजा करें। जिनके घर में इन सभी की पूजा होती है उनके घर में दरिद्रता का वास नहीं हो पाता है और उनके पूरे परिवार पर नारायण की कृपा बनी रहती है। कामना उत्पन्न नहीं होनी मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है और नासवान संसार के समुख हो जाता है। किसी को भी

नाही इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और ना परमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराशा ही होना चाहिए। कामनाओं के त्याग में सब स्वतंत्र और समर्थ हैं परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र तथा समर्थ नहीं है। ज्यों ज्यों कामनाएं नष्ट होती हैं हम ईश्वर के करीब जाते हैं। और ज्यों ज्यों कामनाएं बढ़ती हैं तो साधुता लुप्त होती है और हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं। जितना हो सके उतना जीवन में संसाधन का कम उपयोग करना चाहिए और सुख की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कामना मात्र से कोई पदार्थ नहीं मिलता अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थ की कामना रखना भूल है।



## प्रतिभा को मिले सम्मान

प्रतिभा किसी की मुहताज नहीं होती है। झारखंड के लाल अरविंदो सनगिरी ने सभी को अर्चिभक्त कर दिया है। अरविंदों ने एक हाई स्पीड ड्रोन बनाया है, जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफतार से उड़ता है। इस ड्रोन को बनाने में 25-30 हजार रुपए खर्च आता है। इसका उपयोग ड्रोन रैसिंग के साथ-साथ फिल्मों में उपयोग किया जाता है। ग्रीन सिटी के नाम से पहचान बनाने वाले जमशेदपुर शहर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहां के बच्चे हो युवा, अपनी प्रतिभा के बल पर देश-विदेश में झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। इन्हीं से एक है, मानगों के रहने वाले अरविंदो सनगिरी। उसने ऐसा ड्रोन बनाया है जो 200 किलोमीटर प्रतिघंटा के स्पीड से हवा में उड़ती है।



**ग्रीन सिटी के नाम से पहचान बनाने वाले जमशेदपुर शहर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहां के बच्चे हो युवा, अपनी प्रतिभा के बल पर देश-विदेश में झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। इन्हीं से एक है, मानगों के रहने वाले अरविंदो सनगिरी।**



अरविंदों ने इस ड्रोन को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित भारत रत्न जेआरडी टाटा की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित एयरो मॉडलिंग शो में प्रदर्शित किया है। सरकार को चाहिए कि ऐसी प्रतिभाओं को एक मंच मिले। इसके लिए समय-समय पर ऐसे लोगों को सम्मानित कर हौसला बढ़ाने की जरूरत है। बहरहाल अरविंदो ने बताया कि हवाई जहाज का मॉडल बनाने शौक उसे बचपन से था। लेकिन 2011 से उसने इसे मूर्त रूप दिया। उसने बताया कि इस दौरान उसने कई हवाई जहाज का मॉडल बनाया। उसके बाद उसने ड्रोन पर काम करना शुरू किया और अब 200 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ने वाले ड्रोन को बनाने में सफलता हासिल की। इस ड्रोन को चलाने के लिए विशेष प्रकार का चश्मा से बनाया गया है। ताकि उतने स्पीड से ड्रोन चलाने में कोई परेशानी ना हो। अरविंदों के अनुसार ड्रोन में विशेष प्रकार का लेंस लगाया जाता है। उस लेंस का कनेक्शन चश्मा से रहता है। उसी के माध्यम 200 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाला ड्रोन में नियंत्रित किया जाता है। अरविंदों के अनुसार इस ड्रोन को बनाने में 25 हजार से 30 हजार रुपया लागत आती है। उसने बताया कि ड्रोन बनाने के कुछ समान लोकल बाजार से उपलब्ध हो जाते हैं। जबकि कुछ सामान ऑनलाइन या कोलकाता बाजार से मंगाया पड़ता है। उसने यह भी बताया कि अगर सामान सही ढंग से मिल जाए तो वह एक दिन में ड्रोन तैयार कर लेगा। ड्रोन का उपयोग विशेषकर फिल्मों या कार या बाइक रेसिंग में किया जाता है। इस ड्रोन के माध्यम से जब रेसिंग हो रही हो तो रेस में भाग लेने वालों पर नजर रखा जाता है। इसी तरह फिल्मों में भी इस ड्रोन का उपयोग किया जाता है। आने वाले दिनों में ऐसी प्रतिभाओं को अगर मुकाम सरकार के द्वारा मिल जाये तो निश्चित रूप से झारखंड का नाम पूरी दुनिया में होगा। बस जरूरत है इन्हें सम्मान देने की। यह देखा गया है कि अपने राज्य में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इसके लिए ऐसी प्रतिभाओं के मनोबल को उंचा उठाने की जरूरत है। यह तभी संभव होगा जब सामाजिक रूप से उन्हें सम्मान मिले। आज यहां प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कला, साहित्य, विज्ञान, खेल के मदान में अपना जलवा बिखेरने वाली कई प्रतिभायें आज असमय दम तोड़ रही हैं। बस जरूरत है उन्हें प्रोत्साहन देकर उनके मनोबल को आगे बढ़ाया जाये।

शिक्षा मंत्रालय स्कूली विद्यार्थियों को वैज्ञानिक पद्धतियों और प्रयोगों से परिचित करा कर उन्हें अनुसंधान और खोज का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 'प्रयास' यानी 'प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एन्सपायरिंग स्टूडेंट्स' योजना शुरू करने जा रहा है। इस योजना का मकसद युवा विद्यार्थियों के बीच वैज्ञानिक चिंतन उत्पन्न करना और साक्ष्य आधारित विज्ञान, प्रक्रिया, नवीनता और रचनात्मकता का विकास करना है। छात्रों की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को खुला आकाश देने का यह 'प्रयास' सार्थक है। इससे भारत की स्कूली शिक्षा में व्यापक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और इससे शिक्षा की अपूर्णताएं दूर हो सकेंगी। किसी भी बच्चे के भीतर रचनात्मकता, कौशल, मौलिकता एवं कार्य-क्षमता की असीमित संभावनाएं होती हैं। अगर उसे एक सीमित ढांचे के भीतर समेट दिया गया है तो उसकी प्रतिभा भी उसी दायरे में सिमट कर रह जाती है। इसलिए बचपन और किशोरावस्था में ही रुचियों की पहचान करके अगर किसी बच्चे को उसकी रुचि के क्षेत्र को जानने-समझने और कुछ करने का अवसर दिया जाय तो पूरी संभावनाएं है कि भारी तादाद में बच्चों की प्रतिभा सामने आयेगी और उसका लाभ देश और समाज को मिलेगा। हालांकि शिक्षा व्यवस्था में यह एक बुनियादी पक्ष होना चाहिए और कुछ हद तक इसका खयाल रखा भी गया है, मगर अब सरकार औपचारिक रूप से इस दिशा में एक ठोस पहल करने जा रही है। हम सब कुछ नहीं कर सकते। पर यह भी सच है कि हम जितना खुद की क्षमताओं के बारे में सोच रहे होते हैं, उससे कहीं अधिक कर सकते हैं। कितनी ही बार हम केवल यही सोच कर पीछे हट जाते हैं कि हम से नहीं होगा। हमसे जो कम है, वे आगे बढ़ जाते हैं और हम एक कदम नहीं बढ़ा पाते। यह स्थिति विद्यार्थी जीवन की एक त्रासदी है, विडम्बना है। अब तक की शिक्षा इन बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, अब इस दिशा में प्रयास शुरू हुआ है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। यह एक तथ्य है कि बच्चों और किशोरों में खोजने और सीखने की

## बच्चों की रचनात्मकता को आकाश देने का 'प्रयास'



प्रक्रिया काफी तीव्र होती है। खासकर अगर पढ़ाई-लिखाई के दौरान उनकी रुचि के विषय को निर्बाध तरीके से विकसित होने दिया जाए तो उनकी रचनात्मकता अक्सर कुछ नया खोज लाती है। लेकिन हमारे यहां निर्धारित पाठ्यक्रम ज्यादातर बच्चों के लिए शिक्षण के ढांचे का एक अर्न्विद्य हिस्सा होता है और उसी के मुताबिक उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है। कितनी ही बार हम केवल यही सोच कर पीछे हट जाते हैं कि हम से नहीं होगा। हमसे जो कम है, वे आगे बढ़ जाते हैं और हम एक कदम नहीं बढ़ा पाते। यह स्थिति विद्यार्थी जीवन की एक त्रासदी है, विडम्बना है। अब तक की शिक्षा इन बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, अब इस दिशा में प्रयास शुरू हुआ है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। यह एक तथ्य है कि बच्चों और किशोरों में खोजने और सीखने की

**छात्रों की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को खुला आकाश देने का यह 'प्रयास' सार्थक है। इससे भारत की स्कूली शिक्षा में व्यापक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और इससे शिक्षा की अपूर्णताएं दूर हो सकेंगी।**



### इन दिनों

अपनी पसंद के विषय में कुछ नया समझने और सीखने के प्रति हताशाहित किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने प्रयास योजना 2023-24 के लिए एक दिशा-निर्देश तैयार किया है। इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 से होगी। 'प्रयास के दिशा-निर्देश' के अनुसार, इसका मकसद युवा छात्रों के बीच वैज्ञानिक चिंतन उत्पन्न करना, उनकी वास्तविक क्षमता,

कौशल, क्षमता एवं प्रतिभा के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना है। मनोवैज्ञानिक सलाहकार डॉ. रॉबर्ट वूड्स ने कहा था, 'आपकी प्राथमिकता में सबसे आगे कौन है? अगर आप हैं, तो आप जानबूझकर गलतियां नहीं करेंगे। अगर गलती सोची-समझी शिक्षण के ढांचे का एक अर्न्विद्य हिस्सा होता है और उसी के मुताबिक उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है। कितनी ही बार हम केवल यही सोच कर पीछे हट जाते हैं कि हम से नहीं होगा। हमसे जो कम है, वे आगे बढ़ जाते हैं और हम एक कदम नहीं बढ़ा पाते। यह स्थिति विद्यार्थी जीवन की एक त्रासदी है, विडम्बना है। अब तक की शिक्षा इन बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, अब इस दिशा में प्रयास शुरू हुआ है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। यह एक तथ्य है कि बच्चों और किशोरों में खोजने और सीखने की



ललित गर्ग

और उनका आकलन करने के बाद यह तथ्य बार-बार सामने आता रहा है कि अब शिक्षा को कोई नया रूप देना चाहिए। शिक्षा की अपूर्णता एवं अपर्याप्तता को दूर करने के लिये यह एक बहुत बड़ी अपेक्षा है। प्रयास ऐसी ही अपेक्षा को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। अक्सर स्कूली शिक्षा के दौरान बहुत सारे बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा का एक तरह से दमन हो जाता है। जो बच्चे ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज के वाहक बन सकते हैं, वे एक बने-बनाये ढांचे के अनुगामी बने रह जाते हैं। इस लिहाज से देखें तो 'प्रयास' की अहमियत इस रूप में दर्ज की जा सकती है कि इसमें व्यक्तिगत रूप से या समूहों में अनुसंधान या खोज करने के लिए विद्यार्थियों की क्षमता विकास पर जोर दिया गया है। दरअसल, बच्चे सबसे ज्यादा अपने आसपास के वातावरण को देख-समझ कर सीखते हैं। इसीलिये प्रयास योजना के अनुसार, इसमें किसी स्थानीय समस्या की पहचान कर उसका अध्ययन किया जायेगा। इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों की जांच करने एवं हल खोजने तथा किसी विचार, कल्पना या अवधारणा पर शोध करने पर जोर दिया गया है। जेन मास्टर मैरी जैकश कहती हैं, 'अपनी उलझनों का सामना करते हुए अनजान चीजों को गले लगाना हमें विकास की ओर ले जाता है। हमें आगे बढ़ना है।' 'प्रयास' के अंतर्गत स्कूली छात्रों और शिक्षकों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों के एक विशेषज्ञ की सहायता से किसी स्थानीय समस्या का हल करना या अनुसंधान आधारित समाधान निकालने का प्रयास किया जायेगा। इसमें भाग लेने वाले शिक्षार्थियों की आयु 14-18 वर्ष होगी।

## बोधि वृक्ष आइये सुने कथा कृष्ण भक्त मीरा की

यहां तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार हैं। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटा का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया जब मीरा उस पर सोने चलीं। जब यातनाएं बरदाश्त से बाहर हो गईं, तो उन्होंने चितोड़ छोड़ दिया। वे पहले मेड़ता गईं, लेकिन जब उन्हें वहां भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने कुरुण-भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थीं कि वह गोपी ललिता ही हैं, जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थीं। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थयात्रा जारी रखी, वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती-गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रहीं। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गईं।

**मीरा के लिए कृष्ण भ्रम नहीं हकीकत थे :** 'इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। आज भी कई इसाई संप्रदायों में नन बनने की दीक्षा पाने के लिए, लड़कियां पहले जोसस के साथ विवाह करती हैं। कुछ लोगों के लिए यह समर्पण, शरीर, मन और भावनाओं के परे, एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया, जो बिलकुल अलग था, जहां यह उनके लिए परम सत्य बन गया था।

(कमराशः)

## राजनीतिक शिखर पर सुप्रिया श्रीनेत

आजकल टीवी डिबेट पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अपने प्रतिद्वंद्वी प्रवक्ताओं को अगले से धोती हुई खूब नजर आती हैं। टीवी पर कांग्रेस को इसलिए भी लोग खूब सुना रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की ओर से सुप्रिया श्रीनेत होती हैं। बता दें कि राजनीति में कदम रखने से पहले वे भारत सहित देश विदेश की सफलतम पत्रकार भी रही हैं। मौजूदा हाल में वे कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की चेयरमैन हैं। हाल ही उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमिटी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया है। देखा जाए तो वे एक मात्र ऐसी कांग्रेस प्रवक्ता हैं जो अन्य पार्टियों के प्रवक्ताओं के छत्रके छुड़ा रही हैं। कांग्रेस हाईकमान के अति आवश्यक मीटिंगों में वे राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी के साथ अक्सर नजर आती रहती हैं। सुप्रिया श्रीनेत का पत्रिक आवास यूपी के महाराजगंज जिले के फरेन्दा विधानसभा क्षेत्र के गांव जोगिया बारी है लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में हुई है। मां श्रीमती विष्णु सिंह इन्हें डाक्टर बनाना चाहती थीं इसलिए इन्होंने नीट की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली लेकिन डाक्टर की पढ़ाई नहीं की, वे पत्रकार बन गईं जिसमें भी ऊंचाइयां हासिल की। राजनीति में आज सुप्रिया श्रीनेत ऐसा नाम है जिसे इतने कम समय में इतनी ऊंची राजनीतिक मुकाम हासिल हुआ हो। राजनीति उनके रंग रंग में है। उनके दादा जी योगेन्द्र पाल सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। पिता स्व.हर्षवर्धन पूर्वी यूपी के जाने माने राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत लखनऊ युनिवर्सिटी से छत्र राजनीति से की थी। वे समाजवादी विचारधारा के थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जमींदार की थी लेकिन वे सर्वहारा

सामंत थे। हर्षवर्धन जी के पिता स्व योगेन्द्र पाल सिंह जमींदार परिवार से भले थे, वे जीवन पर्यन्त गरीबों मजदूरों के लिए लड़ते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजों के तमाम प्रलोभनों को लात मार दिये और उनके खिलाफ किसी भी आंदोलन में जान जोखिम में डालकर संदेव अग्रणी भूमिका में रहे। गरीबों और मजदूरों के प्रति दया भाव ऐसी थी कि वे खेतों में खुद ही हल संभाल लेते ताकि मजदूर कुछ फल विश्राम कर सके। ऐसे संघर्ष शील और करूणामयी पिता के पुत्र स्व.हर्षवर्धन जीवन प्रयंत अपने पिता के कदमों पर ही चलते रहे। उन्होंने जाने माने मजदूर नेता जार्ज फर्नांडिस के सानिध्य में अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाया। लंबे संघर्षों के बाद 1985 में वे महाराजगंज जिले के फरेन्दा विधानसभा क्षेत्र से जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गये। उसके बाद 1989 में जनता दल से महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गये। 1999 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और 2004 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े। यद्यपि कि यह चुनाव वे हार गये थे लेकिन इस संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का सुखापन समाप्त करने में कामयाब हुए। मतलब 1985 के बाद से कांग्रेस का उम्मीदवार यहां 20--25 हजार वोट ही पाता रहा। लंबे अरसे बाद बतौर कांग्रेस उम्मीदवार हर्षवर्धन को यहां डेढ़ लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। वोटों की इस बढ़त से सोनिया गांधी भी प्रसन्न हुई थीं। हार के बाद भी उन्होंने हर्षवर्धन की पीठ थपथपाई थीं। 2009 के लोकसभा चुनाव में अंततः हर्षवर्धन ने भारी अंतर से जीत हासिल की। वे दूसरी बार सांसद पहुंचे। 2014 का चुनाव



यशोदा श्रीवास्तव

**राजनीति में आज सुप्रिया श्रीनेत ऐसा नाम है जिसे इतने कम समय में इतनी ऊंची राजनीतिक मुकाम हासिल हुआ हो। राजनीति उनके रंग रंग में है। उनके दादा जी योगेन्द्र पाल सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।**



### राजनीति

आते आते हर्षवर्धन को स्वास्थ्य संकट से गुजरना पड़ा। वे चुनाव हार गये और गंभीर बीमारी के चलते 2017 में उनका निधन हो गया। हर्षवर्धन के निधन के बाद कांग्रेस ने उनकी बेटी सुप्रिया श्रीनेत में कांग्रेस का भविष्य तलाश ली। सुप्रिया भी पत्रकारिता छोड़ कर अपने पिता की विरासत संभालने महाराजगंज आ गईं। पिता हर्षवर्धन की इस बढ़त से सोनिया गांधी भी प्रसन्न हुई थीं। हार के बाद भी उन्होंने हर्षवर्धन की पीठ थपथपाई थीं। 2009 के लोकसभा चुनाव में अंततः हर्षवर्धन ने भारी अंतर से जीत हासिल की। वे दूसरी बार सांसद पहुंचे। 2014 का चुनाव



फोटो की दुनिया

फेसबुक वॉल से



## भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बनेगा

वैश्विक स्तर पर दुनिया के हर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त हो जाता है। यहां भारत की उपस्थिति से उस मंच पर एक अद्भुत वज्र आ जाता है और सम्मेलन में चार चांद लग जाते हैं। यही कारण है कि हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पूछ परख होती है बड़े-बड़े नेताओं की निगाहें भारतीय पीएम को ढूँढती नजर आती है जैसे हमने टीवी चैनलों पर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इत्यादि के राष्ट्र प्रमुखों द्वारा ऑटोग्राफ बॉस इत्यादि संबोधनों से देख चुके हैं। अब दिनांक 22-25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जिसके लिए माननीय पीएम 22 अगस्त 2023 को सुबह रवाना हुए थे, चूंकि भारत की यह पौराणिक प्रवृत्ति रही है कि दलित दिमाग में भारत के विकास की गाथाओं में नये नये अध्याय जोड़ने की सोच हमेशा समाई रहती है इसलिए हम हिंदुस्तानियों को उम्मीद है, जोहानेसबर्ग में भी हम हमें बल मिलेगा जिस के सहयोग से विश्व मानवीय कल्याण के कामों को आगे बढ़ाते हुए भारत को विश्व गुरु बनायेंगे। ब्रिक्स के विस्तार की पुरजोर कोशिशों की जा रही है जिसमें चीन अपने समर्थकों पाकिस्तान ईरान इत्यादि देशों को शामिल करना चाहता है, वही भारत भी इस पक्ष में है कि कुछ देशों को जोड़ा जाय, जिसमें 23 देशों के नामांकन प्राप्त हुए हैं वही दूसरी ओर विश्व में अमेरिका और नाटो देशों की पहली पसंद भारत होते जा रहा है। बता दें व्हाइट हाउस से जानकारी जारी हो गई है कि 7-10 सितंबर 2023 को अमेरिकन राष्ट्रपति भारत जी-20 की सभा में शामिल होने भारत आ रहे हैं वही चंद्रयान-3 की अंतरिक्ष के दक्षिणी

ध्रुव पर लैंडिंग 23 अगस्त 2023 शाम 6.04 पर करीब करीब सफलता से होना निश्चित है और ब्रिक्स बिजनेस फोरम में जिस तरह 23 अगस्त 2023 को देर रात्रि अपने संबोधन में भारत में आर्थिक क्षेत्र की हुंकार परी और भारत को जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था में आने और विश्व का ग्रोथ इंजन बनने तेजी से बढ़ने की बात कही है। पीएम 23 अगस्त को ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन 2 सत्र में होगा। 24 अगस्त को पीएम मोदी ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस दौर के दौरान दक्षिण अफ्रीका में पीएम कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। चूंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के रुतबे को हम टीवी चैनल पर लाइव देख रहे हैं इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22-25 अगस्त 2023 के बिजनेस फोरम में भारत का आगाज। साथियों बात अगर हम माननीय पीएम के 22 अगस्त 2023 के देर रात्रि बिजनेस फोरम में संबोधन की करें तो, ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, ब्रिक्स देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। जल्द ही भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जायेगा। इस बारे में कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। यह इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया है।



किशन भावनानी गोदिया

**वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। जल्द ही भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जायेगा।**



### देश दुनिया

पीएम ने आगे कहा कि भारत में जीएसटी और इन्फ्लेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लागू होने के बाद निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र अब प्राइवेट सेक्टरों के लिए खोले गये हैं। हमने टेक्नोलॉजी के यूज के साथ वित्तीय समावेशन में एक छलांग लगाया है। देश में ऑल स्ट्रीट वेंडर से लेकर शॉपिंग मॉल तक यूपीआई का उपयोग किया जा रहा है। हम भारत को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं।



## NEWS इन ब्रीफ

## सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत

**बेगूसराय।** बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। बुधवार की सुबह भी राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच)-31 फोरलेन पर सड़क हादसे में एक भाजपा नेता की मौत हो गई। मृतक डंडारी थाना क्षेत्र के कटरमाला निवासी रामभञ्जु प्रसाद सिंह हैं। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रामभञ्जु सिंह बेगूसराय स्टेशन रोड में अपने पुत्र के यहाँ रहते थे। बुधवार की सुबह वह साइकिल से चाणक्य नगर जा रहे थे। जेल से आगे एनएफ पार करने के दौरान खगड़िया की ओर से काफी तेज गति से आ रहे एक चार चक्का वाहन ने कुचल दिया। घटना के बाद आसपास के लोग जब तक मौके पर पहुंचते, वाहन चालक गाड़ी लेकर भाग निकला। घटना के तुरंत बाद पहुंची नगर थाना की गश्ती टीम ने उन्हें सदर अस्पताल लाया। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सांसद गिरिराज सिंह के प्रतिनिधि अमरेन्द्र कुमार अमर, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री और पूर्व विधानसभा राजनीश कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष राज किशोर सिंह, संजय कुमार सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह एवं राकेश पांडेय सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं ने परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया। इन लोगों ने अपने कर्मठ कार्यकर्ता के निधन पर शोक जताते हुए हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

## बीएसएफ की गोली से ढेर हुआ घुसपैठिया

**मालदह।** मालदह जिले के कालियाचक में भारत-बांग्लादेश सीमा पर मंगलवार रात बीएसएफ की गोली से एक बांग्लादेशी घुसपैठिया ढेर हो गया। बुधवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदह मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। बीएसएफ सूत्रों के अनुसार, मंगलवार रात कालियाचक थाना क्षेत्र के नउडा इलाके में 70 नंबर बटालियन के बीएसएफ जवान अन्य दिनों की तरह सीमा पर निगरानी कर रहे थे। उन्होंने देर रात कुछ घुसपैठियों को कंटीली तार पार कर भारत की सीमा में घुसते देखा। उन्हें रुकने की चेतावनी दी गई। लेकिन वे रुके नहीं। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर दी। एक घुसपैठिए के सीने में गोली लगी। बीएसएफ का दावा है कि बाकी घुसपैठिए वहां से भाग गए। खबर लिखे जाने तक मृत युवक की पहचान उजागर नहीं हो पाई थी। बीएसएफ मामले जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

## बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक सीमा पर तस्कर अभी भी सक्रिय हैं। इसलिए निगरानी और सख्त होती जा रही है। कुछ भी अनहोनी दिखने पर बीएसएफ के जवान सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।

**बीड़ी का बंडल उधार लेने पर बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या**

**मेरठ।** इंचौली थाना क्षेत्र के सैनी गांव में बुधवार को बीड़ी का बंडल उधार लेने को हुए विवाद में बुजुर्ग को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। गंभीर घायल बुजुर्ग ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इंचौली थाना क्षेत्र के सैनी गांव में मानव की परचून की दुकान पर बुजुर्ग बीड़ी का बंडल लेने गया था। बुजुर्ग ने बीड़ी का बंडल उधार मांगा और पैसे बाद में लेने को कहा। इस पर दुकानदार गुस्सा हो गया और बुजुर्ग को गालियां देने लगा। दुकानदार बोला कि पैसे नहीं थे तो सामान लेने क्यों आए थे। आरोप है कि मानव ने दुकान से डंडा लेकर बुजुर्ग को बुरी तरह से पीट दिया। बुजुर्गाल दुकान के बाहर बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने बुजुर्गाल को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में उपचार के दौरान बुजुर्गाल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। असुधार, देहात केशव कुमार के अनुसार, परिजनों की रिक्वेस्ट पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच कराई जा रही है।

## मुख्यमंत्री योगी ने खिलाड़ियों को दिया नियुक्ति पत्र, कहा महिलाएं भी खेल में आगे आयें

## एजेंसी। लखनऊ

मेरे लिए आज का अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के अलग-अलग भागों से भी कुशल खिलाड़ी प्रदेश के सिपाही का हिस्सा बन रहे हैं। यह खिलाड़ियों के लिए सम्मान का भाव है। जो खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, उसके लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए सोचें। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में 233 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुलिस में विशेष भर्ती का प्रमाण पत्र देने के लिए हुए समारोह में कही। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हमने देश के सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया था। राज्य सरकार की तरफ से उन्हें नगद राशि प्रदान कराया था। हमारा मानना है कि एक खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। एक खिलाड़ी उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इस कारण हमारी भी जिम्मेदारी बनती



है कि उसे किसी एक बंधन में बांधकर न रखें। उसी के तहत हम लोगों ने 233 को नियुक्ति पत्र देकर एक बंधन में जोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले हर भर्ती पर प्रश्न उठते थे, लेकिन विगत छह वर्ष के अंदर एक लाख 54 हजार से अधिक पुलिस भर्ती प्रक्रिया सफुल संपन्न हो चुकी है। प्रदेश में एक लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इसी के

बीच यहां अच्छे खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया। इससे पहले आठ जुलाई को भी 227 अर्थाथियों को नियुक्ति पत्र वितरित किये थे। उसमें भी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से यहां लगातार गांव से लेकर शहर तक प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह दिखता है कि एक रचनात्मकता युवाओं के मन में आ रहा है। यदि युवा शक्ति रचनात्मक है तो राष्ट्र की उन्नति होती है। खिलाड़ी

रचनात्मकता का प्रतीक बनता है। वह आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनता है। समाज में कुछ कर गुजरने की शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि आप सभी अपनी प्रैक्टिस बंद न करें। उप पुलिस बल के लिए कार्य करना है। पुलिस ने ओवर आल परशेप्शन बदलने का काम किया है। आज हर जगह उप पुलिस को लोग याद करते हैं। आज दूसरी जगहों के लोग भी बोलते हैं कि उप पुलिस होती तो यह घटना नहीं होती। आज यहां बड़ा से बड़ा कार्यक्रम सफल हो जा रहे हैं। आपका खेल के माध्यम से कैरियर बन गया, लेकिन प्रैक्टिस जारी रखना चाहिए। यदि आप चोर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ेंगे तो वह नहीं बताएगा।

## पश्चिम बंगाल दिवस निर्धारण के लिए सीएम ममता ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

## एजेंसी। कोलकाता

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पोइला बोइशाख (बंगाली नव वर्ष) को पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में स्वीकार करने के लिए चर्चा करने हेतु आगामी 29 अगस्त को सर्व दलीय बैठक बुलाई है। बैठक शाम 4.30 बजे राज्य सचिवालय में होगी। राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि, विपक्षी भाजपा ने प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि यह राज्य के इतिहास को विकृत करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राज्य प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा कि लोग अंततः उन ताकतों को



खारिज कर देंगे जो राज्य के इतिहास को विकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाली नववर्ष का पश्चिम बंगाल दिवस के साथ कोई संबंध नहीं है। उनकी टिप्पणी स्पष्ट संकेत थी कि पूरी संभावना है कि भाजपा प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक में अपने प्रतिनिधियों को भेजने से परहेज करेगी। भाजपा 20 जून

को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस मनाती है। इस साल राज्यपाल डॉ. सी. वी. आनंद बोस ने राजभवन में 20 जून को ही पश्चिम बंगाल दिवस मनाया जिसे लेकर ममता बनर्जी ने तीखी नाराजगी जताई थी। उन्होंने पत्र लिखकर कहा था कि इस दिन का संबंध पश्चिम बंगाल के बंटवारे से है जो बंगाल के लोगों के सीने पर कभी न भरने वाला घाव है। इसे कभी भी पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव के जरिए इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश हुई है कि पोइला बोइशाख को पश्चिम बंगाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा।

## नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने की महत्वाकांक्षी यात्रा पर है भारत : गिरिराज

## एजेंसी। बेगूसराय

बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय ग्रामीण मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की महत्वाकांक्षी यात्रा पर निकल पड़ा है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए रोमांचक समय था गया है। जैविक सौर कोशिकाओं में सौर तकनीक में क्रांति लाने की क्षमता है। उन्होंने बुधवार को कहा है कि हल्के, लचीले और अनुकूलनीय रहने के कारण ये हमारी दुनिया को शक्ति प्रदान करने के तरीके को नया आकार दे सकते हैं। चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन प्रगति जारी है। एक सतत भविष्य को अपनाता है। सौर ऊर्जा पर



संबोधित करता है। बल्कि आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा को भी प्रोत्साहित करता है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की महत्वाकांक्षी यात्रा पर निकल पड़ा है। 2010 में लांच किए गए राष्ट्रीय सौर मिशन ने 2022 तक 20 गीगावॉट सौर क्षमता प्राप्त करने का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया गया और 2024 की शुरूआत तक एक सौ गीगावॉट सौर क्षमता हासिल कर ली जाएगी। भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) एवं अन्य सरकारी निकाय सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाकर और निवेश आकर्षित

करके इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सौर ऊर्जा पर जोर केवल पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बारे में नहीं है। यह जीवाश्म ईंधन और विदेशी ऊर्जा स्रोतों पर भारत की निर्भरता को कम करने, देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के बारे में भी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसएन) ने 2015 में मोदी और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलॉंद द्वारा शुरू की गई एक पहल सौर ऊर्जा के प्रति भारत के समर्पण को रेखांकित करती है। आईएसएन 2030 तक सौर परियोजनाओं में एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना चाहता है।

## लोस चुनाव अकेले लड़ेगी बसपा, तैयारियों में अभी से जुट जाएं कार्यकर्ता: मायावती

## एजेंसी। लखनऊ

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव-2024 की तैयारियों को लेकर बुधवार को पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मायावती ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव पार्टी अपने ईमानदार कार्यकर्ताओं के बल पर अकेले लड़ेगी। इसलिए पूरे तन-मन से इस चुनाव में अभी से जुट जाएं। चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के चयन पर भी खास सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के



विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके बसपा को लाभ के बजाए नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा है। क्योंकि हमारी पार्टी का वोट स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है जबकि दूसरी पार्टियां अपना वोट हमारे उम्मीदवार को ट्रांसफर कराने

की न सही नीयत रखती हैं और न ही क्षमता। इससे पार्टी के लोगों का मनोबल प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि जहां तक चुनावी माहौल का सवाल है तो इस संबंध में हर तरफ से फीडबैक यही है कि भाजपा की साम्प्रदायिक राजनीति तथा द्वेषपूर्ण कार्यकलापों ने सभी का जीवन दुखी और अस्त कर रखा है। इसकी वजह से भाजपा अपना प्रभाव ही नहीं बल्कि अपना जनान्धार भी खो रही है। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहने वाली है, जिससे लोकसभा चुनाव खासकर उत्तर प्रदेश में एकतरफा न होकर काफ़ी दिलचस्प एवं देश की राजनीति को नया करवट बदलने वाला साबित होगा। मायावती ने

कहा कि कांग्रेस की तरह ही भाजपा की कथनी-करनी में जमीन अस्मान का अंतर है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया हो जाने के कारण गरीब एवं मेहनतकश लोगों के लिए परिवार का उचित पालन-पोषण करना भी असंभव हो गया है। इस सबका चुनाव पर प्रभाव पड़ने से कोई इनकार नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर सत्तापक्ष और विपक्षी पार्टियों का गठबंधन केंद्र की सत्ता में आने के अपने-अपने दावे कर रहे हैं, जबकि जनता से किए गए इनके वादे खोखले ही साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों की नीतियों देश के दलित, पिछड़ों के कल्याण संभव नहीं है।

## एजेंसी। पटना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना में नवनिर्मित देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र 'बापू परीक्षा परिसर' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की विभिन्न योजनाओं का भी शुभारंभ किया। बापू परीक्षा परिसर का निर्माण परीक्षा व्यवस्था को और उत्कृष्ट बनाने के लिए किया गया है। 261.11 करोड़ रुपये की लागत से बने और लगभग 6 एकड़ में फैले बापू परीक्षा परिसर में ऐसी व्यवस्था की गई है कि विभिन्न परीक्षाओं के संचालन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। मुख्यमंत्री ने



बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वितीय चरण के सुधारों की कार्ययोजना का भी शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने बिहार बोर्ड के मेधावी विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग एवं मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी के लिए पटना प्रमंडल में नि:शुल्क आवासीय कोचिंग तथा शेष 8 प्रमंडलीय मुख्यालयों में नि:शुल्क गैर

आवासीय कोचिंग कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। द्वितीय चरण के सुधारों की कार्ययोजना के तहत राज्य के शेष सभी 29 जिलों में परीक्षा भवनों की स्थापना तथा राज्य के सभी 38 जिलों में वज्रगुहों की स्थापना की जाएगी। राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों-सह-कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के बाद परीक्षा केंद्र के भवन का निरीक्षण किया। भवन को ए और बी ब्लॉक में बांटा गया है, जहां 20 हजार से 25 हजार विद्यार्थियों के ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा देने की व्यवस्था की गई है।

## राजनीति घोसी विस चुनाव: चौहान-राजभर के समीकरण के चक्रव्यूह में खुद फंसी भाजपा

## पार्टी नेताओं को जीत का गुरुमंत्र दे गए धर्मपाल

## एजेंसी। मऊ

राजनीति में नित्य नए प्रयोग में माहिर भाजपा व उसके चाणक्य 2023 के घोसी उपचुनाव में स्वयं अपने ही नए समीकरण में फंस गए हैं। घोसी लोकसभा से लेकर, मऊ, मधुवन व घोसी विधानसभा की सियासत में इस समय राजनीति की वह गुथी उलझी हुई है कि न तो निगलते बन रही है और न ही उगलते। ऐसे में चौहान-राजभर के राजनीति के समीकरण के नए खेल के चक्रव्यूह में खुद भाजपा फंस गई है।



कहने को यह है, और चट्टी चौराहा पर यह चर्चा में है कि सुभाषया मुखिया ओमप्रकाश राजभर व सपा छोड़ भाजपा में आए और घोसी उपचुनाव के भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान घोसी के सियासी जंग में फंस चुके हैं, लेकिन सच्चाई केवल यही नहीं है। इन दोनों नेताओं का क्षणिक भविष्य दांव पर तो है, लेकिन राजनीति में

नित्य नए प्रयोग की मास्टर माइंड भाजपा और उसके चाणक्य इस खेल में बुरी तरह उलझ गए हैं और उलझन ऐसी है कि सुलगने का नाम नहीं ले रही है। उपचुनाव में विधानसभा की घोसी की एक सीट के जीत के बहुत मान्ये

विधायक की संख्या की बढ़ोतरी के हिसाब से भाजपा के लिए नहीं है। ना तो केंद्र सरकार और ना ही प्रदेश की सरकार पर इस जीत का कोई असर पड़ना है। लेकिन ओपी और दारा के राजभर व चौहान के प्रयोग से अगर भाजपा

दोनों नेता अच्छे अंक के साथ पास हों, यह उम्मीद भी लगा बैठी है। साथ ही खुद 2024 के लिए उर्वरा मिट्टी की तलाश कर रही है। क्योंकि भाजपा का पूर्वांचल की सीटों पर ओमप्रकाश (राजभर) व दारा (चौहान) बाया दिल्ली की कुर्सी पर हैट्टिक लगाने की फिराक में है! घोसी उपचुनाव भाजपा दारा सिंह चौहान व ओमप्रकाश राजभर के बहाने इजी-वे में जीतने आई थी, दोनों नेताओं ने घोसी की सियासत में अपनी पटकथा की जो कहानी भाजपा के रणनीतिकारों को बताई थी, वह बसला सुप्रिमो मायावती की एक चप से धराशायी हो गई। दूसरी चाल सुभाषया मुखिया ओमप्रकाश राजभर के राजनीतिक नैया के कभी खेवन्हार रहे, मोदी के कटपटा व राहुलदेव स्वामीमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

## बारिश के चलते कच्चे मकान की दीवार गिरी, बच्चे की मौत

**बदायूं।** जनपद में लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से बुधवार को सहस्रवान तहसील के एक गांव में कच्चे मकान की दीवार गिर गई। इस हादसे में मलबे में दबकर बच्चे की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हैं। पुलिस ने राहत बचाव कार्य करते हुए घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। इस्माइलपुर अल्लोपुर गांव में मौसम अलौ के घर में अफसाना, मन्नु, फैजान, अहमद रजा और 12 वर्षीय अल्फेज घर में बैठे थे। इसी दौरान उनके कच्चे मकान की दीवार गिर गई और सभी लोग मलबे में दब गए। चौख-पुकार सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने राहत बचाव करते हुए मलबे के नीचे दबे घायलों को बाहर निकाल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने अल्फेज को मृत घोषित कर दिया है। घायल अन्य तीनों का इलाज चल रहा है। इधर घटना की जानकारी पर नायाब तहसीलदार जितेंद्र सिंह, राजस्व निरीक्षक अरविंद सिंह और हल्का लेखपाल मनोज कुमार ने मौके पर पहुंचकर दीवार गिरने से हुई क्षति का आकलन भी किया है।



## विश्व कप शतरंज फाइनल 2023 में प्रज्ञानन्दा ने कार्लसन को ड्रॉ पर रोका

एजेंसी बाकू, अजरबैजान फोडे विश्व कप शतरंज के फाइनल में मात्र 18 वर्ष की आयु में पहुंचकर इतिहास बनाने वाले भारत के आर प्रज्ञानन्दा और विश्व के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी और पांच बार के विश्व चैम्पियन मैग्नस कार्लसन के बीच पहला क्लासिकल मुकाबला बराबरी पर खत्म हो गया है और अब सबकी निगाहें दूसरे क्लासिकल मुकाबले पर लगी है जिसमें जीतने वाला खिलाड़ी विश्व कप जीत जाएगा जबकि ड्रॉ होने पर निर्णय टाइब्रेक के जरिये निकाला जाएगा। सफेद मोहरो से खेल रहे प्रज्ञानन्दा ने इस मुकाबले



में अपने वजीर के तरफ के उट्टे के सामने वाले प्यादा दो घर चलकर या यूं कहें की इंग्लिश ओपनिंग खेलकर गेम की शुरुआत की कार्लसन ने भी जवाब में कार्लसन ने अपने दोनों घोड़े बाहर निकालते हुए फोर नाइट्स वेरिगेशन खेला, खेल की 7वीं चाल में कार्लसन को चौकाया-प्रज्ञानन्दा ने

यहां अनुभवी कार्लसन को खेल की सातवीं चाल में अपना 4 प्यादा चलकर चौका दिया, इस चाल का प्रयोग कार्लसन के खिलाफ 2020 में रूस के यान नेपोमनिशो ने किया था, खेर कार्लसन ने समहलकर खेलते हुए प्रज्ञानन्दा को बढ़त बनाने का कोई मौका तो नहीं दिया और प्रज्ञानन्दा की बेहतर स्थिति को भापते हुए लगातार मोहोरो की अदला बदली की, खेल की 13वीं चाल तक दोनों के वजीर भी खेल से बाहर हो गए थे और 35 वीं चाल के बाद जब दोनों के पास एक हाथी, एक घोड़ा और तीन प्यादे थे मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हो गया।

## कुछ वर्षों में देश में खेलों में बड़ा बदलाव आया : अनुराग ठाकुर



जयपुर। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में खेलों में बड़ा बदलाव आया है और खेलों इंडिया ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया ने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि देश में महिला खिलाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ठाकुर जयपुर के सर्वाई मान सिंह स्टेडियम में 'खेलो इंडिया सेंटर' का उद्घाटन करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेल राज्य का विषय है लेकिन केंद्र सरकार भी देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, 'अगर राज्य और केंद्र सरकार मिलकर खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम करें तो देश के खिलाड़ी निश्चित तौर पर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

## भारतीय पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया

एजेंसी। बर्मिंघम (यूके) भारतीय पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने यहां चल रहे इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन (आईबीएसए) वर्ल्ड गेम्स 2023 में अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए मंगलवार को इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत के बाद, मेन इन ब्लू ने मंगलवार को शोपीस इवेंट में हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ, भारत ने तीन मैचों में दो जीत दर्ज की हैं और बुधवार को बांग्लादेश से भिड़ने पर पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेंगे। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत शानदार रही और टीम ने पहले विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी की। हालांकि, वेंकटेश्वर राव दुन्या और सुनील रमेश ने रन आउट किया जिससे इंग्लैंड की पारी का अंततः पतन हो गया। अच्छी स्थिति में दिख रही इंग्लैंड ने विकेट खोना शुरू कर दिया और निधारित 20 ओवरों में 147/5 ही



बना पाई। इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज 40 रन के आंकड़े को पार नहीं कर सका क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ कड़ी रखी। 148 रनों का पीछा करते हुए, भारतीय बल्लेबाजों ने मैच के पांचवें ओवर में एक विकेट खोने के बावजूद इंग्लैंड के गेंदबाजों को आराम से खेला।

उप-कप्तान वेंकटेश्वर राव दुन्या ने 27 गेंदों में 54 रन बनाकर सुनिश्चित किया कि भारत कभी भी लक्ष्य से बाहर न हो। अंत में भारत ने मेजबान टीम पर दबदबा बनाते हुए 30 गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। इस बीच, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम शानदार प्रदर्शन कर

## भारतीय महिला हॉकी टीम ने इंग्लैंड को 6-2 से हराया



नाकाम रहीं। दोनों टीम का डिफेंस भी पहले क्वार्टर में काफी मजबूत

रहा। भारत ने दूसरे क्वार्टर में भी अच्छी शुरुआत की लेकिन मैच

का पहला गोल इंग्लैंड की ओर से खेन ने दागा। भारत ने इसके बाद

हमले तेज किए। टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिला जिसे नीलम ने गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। मंगलवार को स्पेन के खिलाफ गोल करने वाली अनु ने शानदार मैदानी गोल दागकर भारत को बढ़त दिलाई। मध्यांतर तक भारत 2-1 से आगे था। बढ़त बनाने के बाद आत्मविश्वास से भरे भारत ने तीसरे क्वार्टर में लगातार हमले किए। सुनेलितान ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागकर स्कोर 3-1 किया। हिना ने स्कोर 4-1 जबकि मुमताज और अनु ने भी भारत की बढ़त को 6-1 तक पहुंचाया। इंग्लैंड ने बिनगैम के गोल से हार के अंतर को कम किया।

## सिंधु ओकुहारा से हारीं, लक्ष्य सेन प्री-क्वार्टर में पहुंचे

एजेंसी। कोपेनहेगन (डेनमार्क) दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी.वी. सिंधु मंगलवार को यहां विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में दो पूर्व चैंपियनों के मुकाबले में जापान की नोजोमी ओकुहारा से हारकर बाहर हो गईं। हालांकि, लक्ष्य सेन ने प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर एक और पदक जीतने की अपनी संभावना बरकरार रखी। 22 वर्षीय लक्ष्य ने कोरिया गणराज्य के जियोन ह्योक-जिन को 36 मिनट में 21-11, 21-12 से हराया। भारत के लिए कुछ और झटके लगे जब वेंकट गौरव प्रसाद और जूही देवांगन को मिश्रित युगल जोड़ी राउंड 64 के मुकाबले में जर्मनी के जोन्स राफेली जानसन और लिंडा एफ्लर से 21-12, 21-11 से हार गईं। स्विट्जरलैंड के बासेल में 2019 संस्करण में महिला एफल का खिलाव जीतने के लिए फाइनल में ओकुहारा को हराते वाली सिंधु डैनिश राजधानी में 44 मिनट की मुठभेड़ में जापानी स्टा से 21-14, 21-14 से हार गईं। सिंधु, जिन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत और फिर टोक्यो में कांस्य जीता, आमने-सामने की लड़ाई में पुरानी प्रतिद्वंद्वी ओकुहारा



से 10-9 से पीछे हैं और दोनों के बीच कई करीबी मुकाबले हुए हैं। लेकिन मंगलवार को रॉयल एरेना के कोर्ट नंबर 2 पर हुआ मुकाबला एकतरफा रहा, जिसमें भारतीय खिलाड़ी दूसरे गेम में 9-0 की बढ़त का फायदा उठाने में नाकाम रही। ओकुहारा ने 9-6 की बढ़त बनाने से पहले पहले गेम में शुरुआत में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर हुई। हालांकि, सिंधु ने 9-9 से बराबरी कर ली, लेकिन जापानी शटलर ने फिर से बढ़त बना ली और 12-10 से आगे बढ़ते हुए 21-14 से पहला गेम जीत लिया। 28 वर्षीय सिंधु के लिए दूसरे गेम की शुरुआत अच्छी रही और

उन्होंने 9-0 की बढ़त बना ली। ओकुहारा, जो बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में 36वें स्थान पर खिसक गई हैं जबकि सिंधु 15वें नंबर पर हैं, उन्होंने अपनी लय वापस हासिल की और लगातार पांच अंक हासिल किए और फिर 10-5 से चार और अंक जीतकर स्कोर 10-9 कर दिया। जापानी शटलर ने 12-12 के स्कोर पर सिंधु को पछड़ दिया और फिर ताकत से आगे बढ़ती गई और 21-14 से गेम जीत लिया, स्पष्ट रूप से अपनी बेहतरीन फिटनेस के दम पर जीत हासिल की। सिंधु को पहले राउंड में बाई मिली थी। अपने कोरियाई प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेलते हुए लक्ष्य ने पहले गेम में शुरुआती बढ़त बनाई और फिर अपनी बढ़त बरकरार रखी।

## 100 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंचने में असफल रहीं ज्योति याराजी

एजेंसी। बुडापेस्ट भारत की ज्योति याराजी मंगलवार को हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में सातवें स्थान पर रहीं और सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने में असफल रहीं। याराजी, जिन्हें जुलाई में एशियाई चैंपियन का ताज पहनाया गया था, ने 13.05 सेकंड का समय निकालकर अपनी दौड़ में सातवां और 43 के क्षेत्र में 29वां स्थान हासिल किया। केवल 24 एथलीट सेमीफाइनल में पहुंचे। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल के लिए आखिरी क्वालीफायर का समय 12.92 सेकंड था। 123 वर्षीय याराजी ने इस महीने की शुरुआत में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 12.78 सेकंड



के राष्ट्रीय रिकॉर्ड समय के साथ कांस्य पदक जीता था। टोक्यो 2020 की रजत पदक विजेता केंद्रा हैरिसन ने 12.24 सेकंड के नए विश्व-समय के साथ हीट में शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुषों की 800 मीटर हीट में भारत के कृष्ण कुमार भी हार गए। एशियाई चैंपियनशिप के 25 वर्षीय रजत पदक विजेता ने 1:50.36 के समय के साथ फिनिश लाइन पार कर हीट में सातवां स्थान हासिल किया। 24 रेसर सेमीफाइनल में पहुंचे। पुरुषों की 800 मीटर हीट में सेमीफाइनल

## टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स दूसरी बार बर्नी मां

के लिए आखिरी क्वालीफायर का समय 1:47.97 था, जबकि जून में पेरिस डायमंड लीग जीतने वाले केन्या के इमैनुएल वान्योनी 1:44.92 के समय के साथ पहले स्थान पर रहे। भारत के स्टीपलचेजर अविनाश साबले, पुरुषों की ट्रिपल जंप के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक प्रवीण चित्रवेल, राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता ट्रिपल जंपर एल्डोज पॉल और पुरुषों की ट्रिपल जंप में एशियाई चैंपियन अब्दुल्ला अब्बकर उन प्रमुख भारतीय एथलीटों में से थे, जो पहले क्वालीफाईंग राउंड से आगे बढ़ने में असफल रहे थे। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा शुरुआत को पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।



वांशिंगटन। तेईस बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स ने टेनिस स्टा के रूप में अपना आखिरी मैच खेलने के ठीक एक साल बाद बेटी को जन्म दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी। 41 वर्ष की सेरेना और उनके पति एलेक्सिस ओहानियन की यह दूसरी संतान है। उनकी पहली बेटी ओलोपिया का जन्म 2017 में हुआ था। सेरेना का आखिरी टूर्नामेंट 2022 अमेरिकी ओपन था जिसमें वह तीसरे दौर तक पहुंची थी।

## एशियन जुनियर वुशु प्रतियोगिता सम्पन्न भारतीय वुशु दल 2 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य के साथ भारत लौटा

एजेंसी। मकाऊ मकाऊ में चल रहे 11वें एशियन जुनियर वुशु प्रतियोगिता में भाग ले कर भारतीय वुशु दल वापस लौटा गया। इस दल में तीस खिलाड़ी सहित दस पदाधिकारी भी शामिल थे। इस दल ने प्रतियोगिता में अपना सफल प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। दल की तरफ से रमेश मुंडा और ध्रुव ने स्वर्ण, राहुल कुमार ने रजत जबकि जीतीश सिंह, अमन, तानिष नागर, नूतनमथान निखिल, लिन्थोई गनबी लातोनजाम, अनिरुद्ध ने कांस्य पदक जीते। दल के ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद शिवेंद्र दुवे ने बताया कि भारतीय वुशु खिलाड़ियों ने सानाद और ताऊलू दोनों ही वर्गों में अपना जबरदस्त प्रदर्शन किया और



पदक जीते। इस अवसर पर मौजूद कविता सिंह, उदय साहू और साथ में मौजूद, कुमुद प्रसाद साहू और शैलेन्द्र कुमार ने खिलाड़ियों की हीसला अफजाई की। सुहेल अहमद ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों का हीसला काफी बुलंद है और हम आगामी एशियन गेम्स और अन्य प्रतियोगिताओं में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। भारतीय दल की इस सफलता पर

झारखंड वुशु एसोसिएशन के पदाधिकारियों डॉ प्रदीप वर्मा, डॉ अंशु साहू, मिथलेश साहू, प्रोफेसर मुकुंद मेहता, शशिकांत पांडे, गोकुलानंद मिश्र, रजि अहमद, रबेश कुमार, दीपक गोप, अमरेंद्र दत्त द्विवेदी, प्रियदर्शी अमर, वाहिद अली, विमला टोपपो, सुशांति टोपपो, आशीष कुमार, प्रतिमा कुमारी, चंचल भट्टाचार्य, शैलेन्द्र दुवे आदि ने बधाई दी है।

## टीम इंडिया ने मिलकर देखी चंद्रयान 3 की लैंडिंग, बजाई तालियां



नई दिल्ली। चंद्रयान 3 की आखिरकार चांद पर लैंडिंग होते ही टीम इंडिया ने भी जश्न मनाया। टीम इंडिया इस वक्त आयरलैंड में तीन टी 20 मैचों की सीरीज खेल रही है। तीसरा टी20 शुरू होने से पहले डेढ़ घंटे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने मिलकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी और उसके लैंड करते ही तालियां बजाते हुए चीयर्स किया। बीसीसीआई (इउउक) ने सोशल मीडिया साइट्स पर एक वीडियो डाली है जिसमें पूरी टीम इंडिया काफी खुश दिख रही है।

## टूर्नामेंट आईसीसी पुरुष एकदिवसीय खिलाड़ी रैंकिंग

# मुजीब उर रहमान ने लगाई बड़ी छलांग

एजेंसी। दुबई पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ और अफगानिस्तान के ऑफ स्पिनर मुजीब उर रहमान ने श्रीलंका के हंबनटोटा में दोनों टीमों के बीच श्रृंखला के उद्घाटन के ठीक एक दिन बाद बुधवार को अपडेट की गई आईसीसी पुरुष एकदिवसीय खिलाड़ी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। राउफ ने 18 रन देकर पांच विकेट लिए, जिससे पाकिस्तान के 201 रन के जवाब में अफगानिस्तान को 19.2 ओवर में सिर्फ 59 रन पर आउट करने में मदद मिली, जिससे उन्हें सात स्थान का फायदा हुआ और उन्होंने इस साल मई में अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ 42वें स्थान को पीछे छोड़ते हुए करियर के सर्वश्रेष्ठ 36वें स्थान पर पहुंच गए। रहमान, जिन्होंने अतीत में करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग का आनंद लिया था, 3-33 के आंकड़े के साथ तीन स्थान आगे बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि उनके साथी मोहम्मद नबी



अब सूची में 11वें स्थान पर हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड पोल पोजीशन पर हैं। मैच में सर्वाधिक 61 रन बनाने वाले पाकिस्तान के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक एक स्थान के फायदे से कप्तान बाबर अजाज (880 रेटिंग अंक) के नेतृत्व वाली बल्लेबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान तीन पायदान आगे बढ़कर 58वें स्थान पर पहुंच गए हैं, भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (743 रेटिंग अंक) चौथे स्थान पर हैं। टी20 रैंकिंग अपडेट में, भारत

द. अफ्रीका क्रिकेट का ऐलान, महिला क्रिकेटर्स को मिलेगी समान मैच फीस जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में पुरुष और महिला क्रिकेटर्स दोनों को अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए समान मैच फीस मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब यह देश भी महिला खिलाड़ियों को पुरुष टीम के समान ही सैलरी देने वाले देशों की लिस्ट में जुड़ चुका है। न्यूजीलैंड और भारत के साथ अब द.अफ्रीका भी पुरुष और महिला क्रिकेट के बीच समानता लाने की कड़ी में जुड़ चुका है। इस बदलाव की शुरुआत इस साल तब हुई जब आईसीसी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की जिसमें आईसीसी आयोजनों में पुरुषों और महिलाओं की टीमों के लिए समान पुरस्कार राशि रखी गई है। देश भर के क्रिकेट जगत की प्रमुख



हस्तियां मंगलवार को तशवाने में एकत्रित हुईं और अपनी घरेलू महिला प्रतियोगिता की जल्द शुरुआत होने के बारे में बात की और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की। यह है। यूई के वृत्त आनंद बल्लेबाजों में 56वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर अयान अफजल खान गेंदबाजी रैंकिंग में 62 स्थान ऊपर 116वें

दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर्स के लिए मैच फीस में बदलाव अगले महीने शुरू होगा जब वे छह मैचों के सफेद गेंद दौर के लिए पाकिस्तान की यात्रा करेंगी। दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के लिए पिछले 18 महीने शानदार रहे, इस दौरान विश्व कप में भी टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। न केवल महिला अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, पुरुष के समान मैच फीस अर्जित करेंगी, बल्कि महिलाओं की घरेलू लीग भी पेशेवर होगी। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के सीईओ फोलेत्सी मोसेकी ने कहा, 'इधरेलू लीग को पेशेवर बनाने का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर से बेहतर मौका देना है, साथ ही नई पीढ़ी को प्रेरित करके महिला क्रिकेट को और आगे बढ़ाना है।

NOURISHES HAIR FROM WITHIN AND GIVES IT A HEALTHY SHINE

FOR SOFTER SHINIER HAIR



## अडाणी एंटरप्राइजेज अडाणी पावर और अडाणी ट्रांसमिशन का हाल बुरा

**नई दिल्ली।** अडाणी समूह के लिए 2023 में हरे-भरे से ज्यादा लाल कारोबारी दिन ही रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अभी इस सप्ताह अडाणी के शेयरों में दो दिनों की तेजी आई ही थी कि आज बुधवार को समूह के सारे शेयर बिकुर गए। अडाणी समूह के कई शेयरों में आज 5-5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। कारोबार समाप्त होने के बाद अडाणी समूह के सभी 10 शेयर आज नुकसान में रहे। उनमें सिर्फ एक ही शेयर ऐसा रहा, जिसकी गिरावट 1 फीसदी से कम रही। बाजार बंद होने के बाद समूह का फ्लेगशिप शेयर अडाणी एंटरप्राइजेज 6 फीसदी से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। वहीं अडाणी ट्रांसमिशन और अडाणी पावर के भाव में 7-7 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई। सबसे ज्यादा 7.70 फीसदी का घाटा अडाणी ट्रांसमिशन को हुआ। अन्य शेयरों को देखें तो अडाणी ग्रीन 4 फीसदी से ज्यादा गिरकर बंद हुआ।

## बैंकों के सामने बढ़ा नगदी का संकट

**नई दिल्ली।** आने वाले दिनों में बैंकों में डिफॉजिट रखने पर आपको और ज्यादा ब्याज मिलने के आसार हैं। सरकारी से लेकर निजी बैंक डिफॉजिट को आकर्षित करने के लिए एफडी से लेकर रेकरिंग डिफॉजिट्स पर ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। वजह है बैंकों के सामने नगदी का संकट। दरअसल वित्त वर्ष 2023-24 में पहली बार बैंकों को नगदी की कमी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में नगदी की सप्लाई बढ़ाने के लिए बैंक डिफॉजिट्स पर ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला ले सकते हैं जिससे आम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकों में जमा करें। आरबीआई के डेटा के मुताबिक बैंकों के सामने 23,644 करोड़ रुपये नगदी की कमी देखने को मिली थी। जिसके बाद बैंकों को आरबीआई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (टस्त्र) से 89,813 करोड़ रुपये उधार लेना पड़ा जो एक दशक में सबसे ज्यादा है।

धरती ही नहीं, चांद पर भी भारत की मदद चाहता है अमेरिका

# निशाने पर सबसे बड़े दुश्मन चीन और रूस



**एजेंसी।** वाशिंगटन भारत के चंद्रयान-3 मिशन को अमेरिका दिल खोलकर मदद कर रहा है। यह वही अमेरिका है जिसने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने में अड़ंगा डाल दिया था। नासा के दुनियाभर में फैले केन्द्र चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने में मदद कर रहे हैं। अमेरिका के इस रुख में यह बदलाव यू ही नहीं आया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह चीन है जो भारत का भी दुश्मन है। चीन की नजर अब चांद के दक्षिण ध्रुव पर कब्जा करने की है। चीन दक्षिण चीन सागर की तरह से ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के खजाने पर नजर गड़ाए हुए है। चीन आने वाले समय में कई अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष यात्री भेजने जा रहा है ताकि वहां पर चंद्रमा पर स्टेशन बनाया जा सके। वहीं भारत अब अमेरिका के साथ खड़ा है और उसने नासा के चंद्रमा मिशन अंतिमि पर हस्ताक्षर किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन और रूस मिलकर चंद्रमा पर बेस बनाने के लिए एक साथ आ गए हैं। रूस का लूना-25 मिशन फेल हो गया है और अब वह चीन पर पूरी तरह से निर्भर हो गया है। रूस का लूना-25 मिशन चीन के इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन का हिस्सा था और रूस की ओर से भेजा जाने वाला मिशन था। चीन और रूस साल 2030 तक चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपना अड्डा बनाना चाहते हैं। वे चांद के पानी और वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करके मंगल और उसके आगे का सफर करना चाहते हैं। अमेरिका के अलबामा में अंतरिक्ष मामलों की विशेषज्ञ नम्रता गोस्वामी कहती हैं कि लूना-25 के नष्ट होने से यह साबित हो गया है कि चीन के पास चांद पर उतरने की पुष्ट तकनीक है। चीन रूस को इस दिशा में मदद कर सकता है। यह साल 1960, 1970 और 1980 के दशक से बिल्कुल अलग होगा। उस समय सोवियत संघ नेतृत्व कर रहा था और चीन उसके पीछे पीछे चल रहा था। चीन और रूस में यह सहयोग दुनिया के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है। गोस्वामी ने कहा कि अगर भारत सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराने में सफल हो जाता है तो वह ऐसा पहला देश होगा जिसने नासा के अंतिमि मिशन पर साइन किया है और चांद के इस संभावनाओं से भरे इलाके में उतरा है। गोस्वामी ने कहा कि चूंकि रूस फेल हो गया है और अगर भारत सफल होता है तो अमेरिकी खेमे के लिए बड़ी जीत होगी। भारत ने जून महीने में नासा के अंतिमि मिशन पर साइन किया था। भारत ऐसा करने वाला 27वां देश है। इस बीच नासा भी अपना चंद्रमा मिशन नोवा सी नवंबर महीने में लॉन्च करने जा रहा है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हालांकि आसान नहीं होने जा रही है। केवल चीन ही चांग ई 3, 4 और 5 मिशन के तहत ऐसा कर पाया है। भारत, इजरायल, जापान और अब रूस को निराशा हाथ लगी है। अंतिमि मिशन में शामिल जापान अब फिर से अपना यान भेजने जा रहा है। चीन साल 2024 में अपना चांग ई 6 मिशन लॉन्च करने जा रहा है।

## अब किसानों को होगा बड़ा मुनाफा

# उच्च कीमत पर प्याज खरीदेगी केन्द्र सरकार



**एजेंसी।** नई दिल्ली टमाटर के बाद देश में प्याज की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने कई जगहों पर प्याज को 25 रुपये प्रति किलो पर बेचने की व्यवस्था की है। अब सरकार ने कहा है कि प्याज को किसानों से उच्च रेट पर खरीदा जाएगा। इससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। सरकार ने 2410 रुपये प्रति क्विंटल पर प्याज खरीदने का वादा किया, जो मौजूदा मंडी भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा है। सरकार ने सब्जी पर 40 फीसदी निर्यात कर से प्रभावित किसानों की मदद करने की मांग की थी, जिस कारण प्याज किसानों और व्यापारियों का मानना है कि इस कदम से बाजार में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और किसानों की सहकारी संस्था नेफेड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों से अगले कुछ हफ्तों के दौरान एक्स्ट्रा 0.2 मिलियन टन (एमटी) प्याज खरीदेगी। पीयूष गोयल ने कहा? कि वर्तमान में प्याज का निर्यात की फ्री

## केन्द्र ने 2 ईरानी कैदियों को वापस भेजा

**तेहरान।** कतर में कैद दो ईरानियों को रिहा कर दिया गया है और वे अपने देश लौट आए हैं। कतर में ईरानी राजदूत हमधिरा देहघानी ने ये जानकारी दी। राजदूत ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर कहा कि दोहा में ईरानी दूतावास के कर्मचारियों के प्रयासों की बदैलत सोमवार रात को दोनों को मुक्त कर दिया गया और ईरान वापस भेज दिया गया। देहघानी ने कहा कि दोनों ईरानियों ने हथ्या कार्ड से कतर में प्रवेश किया - कतर में प्रवेश परमिट का उपयोग फीफा विश्व कप 2022 के दौरान किया गया - और बिना परमिट के देश में काम किया। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरानी दूतावास ने पहले ही चेतावनी दी थी कि हथ्या कार्ड अरब देश में काम करने के लिए परमिट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

## पेज एक के शेष

**चांद पर ...** अध्ययन के लिए समायोजित किया गया है। इसरो ने कहा कि लैंडर और रोवर का मिशन जीवन 1 चंद्र दिवस या 14 पृथ्वी दिवस है। प्रणोदन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए रहने योग्य एक पृथ्वी पेलोड का स्पेक्ट्रो-पोलरिमीट्री है। लैंडर से बाहर निकलने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल द्वारा ले जाए गए पेलोड का जीवन तीन से छह महीने के बीच है। 19 मिनट का रहस्य और रोमांच, जैसा कि पहले तय किया गया था, शाम 5.45 बजे शुरू हुआ और 6.05 बजे समाप्त हुआ। लैंडर चंद्रमा की धरती को छूने के साथ। गौरतलब है कि कुछ साल पहले चंद्रयान-2 मिशन का हिस्सा विक्रम लैंडर चंद्रमा पर लैंडिंग के आखिरी चरण में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग एक पेचीदा मुद्दा है, क्योंकि इसमें रफ और फाइन ब्रेकिंग सहित जटिल युद्धाभ्यासों की एक श्रृंखला शामिल होती है। सुरक्षित और खतरा-मुक्त क्षेत्र खोजने के लिए लैंडिंग से पहले लैंडिंग साइट क्षेत्र की इमेजिंग की जाएगी। शाम लगभग 5.45 बजे लगभग 30 किमी की ऊंचाई से क्षैतिज स्थिति में लैंडर का संचालित वंश शुरू हुआ। स्वचालित लैंडिंग अनुक्रम सक्रिय हो गया। रफ ब्रेकिंग चरण के दौरान लैंडर की गति 1,680 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 358 मीटर प्रति सेकंड कर दी जाएगी। चंद्रमा से ऊंचाई 7.4 किमी कम कर दी जाएगी। अगला चरण ऊंचाई रोक चरण था जहां ऊंचाई को 6.8 किमी तक कम कर दिया गया था। बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) के मिशन ऑपरेशंस कंट्रोलरूम में बैठे अधिकारियों की नजरें अपने मॉनिटर पर टिकी थीं। लैंडर की स्थिति ऊर्ध्वाधर में बदल गई और यान चंद्रमा के ऊपर 150 मीटर तक मंडरता रहा, तस्वीरें लेता रहा और सुरक्षित लैंडिंग स्थान तय करने के लिए लैंडिंग क्षेत्र का सर्वेक्षण करता रहा। फिर चार में से दो इंजन चालू होने पर सुरक्षित लैंडिंग हुई। चंद्रयान-3 प्रोपल्शन मॉड्यूल के लिए प्रारंभिक संचार चैनल आईएसटीआरएसी, बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशंस कंट्रोलरूम होगा जो बदले में लैंडर और रोवर से बात करेगा। हाल ही में, चंद्रमा लैंडर ने चंद्रयान - 2 मिशन के ऑर्बिटर के साथ संचार लिंक स्थापित किया है जो 2019 से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है और इस तरह एक बैकअप टॉकिंग चैनल है। इस बीच, चंद्रयान-3 का प्रणोदन मॉड्यूल अपने पेलोड स्पेक्ट्रो-पोलरिमीट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ (SHAPE) के साथ कुछ और अवधि के लिए चंद्रमा के चारों ओर घूमना जारी रख रहा है। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को भारत के हेवी लिफ्ट रॉकेट LVM3 द्वारा कॉर्पोरुबुल शैली में कक्षा में स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की और 1 अगस्त को चंद्रमा की ओर चला गया।

## सड़क निर्माण की...

है तो संबंधित इंजीनियर और टेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री को पथ निर्माण विभाग के सचिव ने बताया कि राज्य में फॉरिस्ट क्लोयर्स से संबंधित 13 सड़क परियोजनाएं हैं। इनमें पांच में वन विभाग द्वारा एनओसी मिल चुका है, जबकि 8 सड़क परियोजनाएं फॉरिस्ट क्लोयर्स की वजह से अटकी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग और पथ निर्माण विभाग आपस में समन्वय बनाकर इसका निदान निकालें, ताकि सड़कों के निर्माण में आ रही अड़चनें दूर हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 15 हजार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाना है। ऐसे में इन सड़कों के निर्माण में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण सड़कों की क्वालिटी और मजबूतीकरण से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। कई बार शिकायतें मिलती हैं कि एक तरफ सड़कें बन रही हैं और दूसरी तरफ से उखाड़ भी रही हैं। इसे बर्बाद नहीं किया जाएगा। इसमें जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि 15 हजार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों में 6 हजार किलोमीटर सड़कों का डीपीआर तैयार हो चुका है और 3 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो भी सड़कें बना रही हैं, उसके निर्माण की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इस सिलसिले में

## सैन्य ने पुलकित त्रिवेदी को बनाया भारत के लिए प्रबंध निदेशक

**नई दिल्ली।** सैन्य के प्रिंट कंपनी सैन्य ने बुधवार को पुलकित त्रिवेदी को भारत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया, जो सैन्य के एपीएसई अध्यक्ष अजीत मोहन को रिपोर्ट करेंगे। त्रिवेदी गुगल से सैन्य में शामिल हुए, जहां उन्होंने पिछले पांच साल गुगल पे-इंडिया बिजनेस टीम के निदेशक के रूप में बिताए हैं। अपने नए रोल में, त्रिवेदी ऑगनाइजेशन के इंडियन ऑपरेशंस का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसमें रेवेन्यू बढ़ाना, सपोर्टिंग पदवियां और क्रिएटर इकोसिस्टम का बढ़ावा देना शामिल है। मोहन ने कहा, रजिजनेस के निर्माण और विस्तार में उनकी गहरी विशेषज्ञता है, जो भागीदारों के लिए बड़े पैमाने पर विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। हम भारत में 200 मिलियन से अधिक सैन्यर्स के अपने बढ़ते कम्प्यूनिटी को खुश करना जारी रख सकेंगे। एक नए ऑपरेशंसल स्ट्रक्चर के तहत, प्रोथ, मार्केट डेवलपमेंट, पार्टनरशिप, कंटेंट और क्रिएटर इकोसिस्टम टीम अब सोधे त्रिवेदी को रिपोर्ट करेंगी। त्रिवेदी ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इंटरनेट अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जो सैन्य को हमारे कम्प्यूनिटी और बिजनेस के विस्तार में सक्रिय रूप से योगदान करने का एक असाधारण अवसर देता है। गुगल में नेतृत्व टीम के हिस्से के रूप में, त्रिवेदी व्यवसाय के लिए रणनीतिक योजनाएं बनाने, प्रमुख साझेदारियां बनाने और भारत में गुगल प्ले के मोनेटाइजेशन एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार थे। त्रिवेदी अपने साथ टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियों का 23 सालों से ज्यादा का अनुभव लेकर आए हैं।

## अमेजन के राखी स्टोर के संग रक्षाबंधन त्योहार बनाए खास रांची।

अमेजन डॉट इन के खासतौर पर तैयार किए गए राखी स्टोर के साथ प्यार के रिश्ते का जश्न मनाने और भाई-बहन के पवित्र बंधन को और मजबूत करने का है। यह राखी स्टोर 30 अगस्त तक उपलब्ध रहेगा। हमारे ग्राहक टेको, हर्षिस, लिड्ट, फैबेले, फेरो, केडबरी, बोट, फुजीफिल्म इंस्टैक्स जैसे मशहूर ब्रांडों के आकर्षक ऑफर और डीलस का फायदा उठा सकते हैं। ग्राहक हैमर्स और कॉम्बो, पारंपरिक और डिजाइनर राखी, गिफ्ट कार्ड, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ग्लोसरी और रोजाना की जरूरी चीजों, हैंडबैग, परफ्यूम, चडियां, परिधान, म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट, कैमरे, स्मार्टफोन, फुटवेयर, खिलौनों एवं बोर्ड गैम्स, चॉकलेट आदि में से अपनी पसंद का गिफ्ट चुन सकते हैं। राखी कॉम्बो सेट के साथ भाई-बहन के बंधन को सेलीब्रेट करें। हाथों से बनाई गई पारंपरिक कुंदन राखी कारीगरों के बेजोड़ हुनर का शानदार नमूना है। सेट रोली-चावल पाउच के साथ आता है। अमेजन पर यह 116 रुपये में उपलब्ध है। रिद्धिका वेंचर्स स्टाइलिश कुंदन और एडी रिंग राखी (2 का सेट) (ब्रेसलेट) रोली चावल और ग्रीटिंग कार्ड के साथ उपलब्ध है। यह 198 रुपये में उपलब्ध है। रोली चावल, सुती धागे के साथ गीवा 925 स्टर्लिंग सिल्वर इन्फिनिटी राखी स्टैम्प स्टर्लिंग सिल्वर, एंटी-टार्निश ई-कोटेड (रोडियम के साथ) से बनी है। यह 614 रुपये में उपलब्ध है।

## मुकेश अंबानी को 23,700 करोड़ का झटका लगातार तीसरे दिन गिरावट

**नई दिल्ली।** मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में गिरावट का दौर आज लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। तीन में इसमें 15 पर्सेंट गिरावट आ चुकी है। बुधवार को यह पांच पर्सेंट लोअर सर्किट के साथ खुला। बीएसई पर यह मंगलवार को यह 239.20 पर्सेंट पर बंद हुआ था और आज 227.25 रुपये पर खुला। एनएसई पर भी यह पांच पर्सेंट की गिरावट के साथ 224.65 रुपये पर खुला। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल में अपनी फाइनेंशियल बिजनेस को अलग किया था और इसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नाम दिया गया है। रिलायंस के शेयरहोल्डर्स को प्रत्येक शेयर पर जेएफएसएल का एक शेयर दिया गया था।

## सरपट दौड़ रही चांदी, सोना भी हो रहा महंगा

**नई दिल्ली।** सोने-चांदी की कीमतों में बढ़त देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर 5 अक्टूबर 2023 की डिलीवरी वाला सोना बुधवार दोपहर 0.05 फीसदी या 31 रुपये की मामूली बढ़त के साथ 58,605 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, वैश्विक स्तर पर भी सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़त देखी गी गई है। चांदी की घरेलू वायदा कीमतों में बुधवार को बढ़त देखने को मिली। एमसीएक्स एक्सचेंज पर 5 सितंबर 2023 की डिलीवरी वाली चांदी का भाव बुधवार दोपहर 0.90 फीसदी या 645 रुपये की बढ़त के साथ 72,627 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता मिला।

## झारखण्ड सरकार श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राँची (सामान्य)

**अनुबंध आधारित Guest Faculty से संबंधित सूचना**  
निदेशालय पत्रांक-606, दिनांक-19/04/2023 के अनुपालन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), राँची में व्यवसाय-Painter (General), IoT Technician (Smart City), SmartPhone Technician Cum App Tester, Draughtman (Civil) & Surveyor में सफल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु घंटी आधारित Remuneration पर Guest Faculty के रूप में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक-08/09/2023 तक अपना आवेदन रपौड पोस्ट/हाथीहाथ कार्यालय में जमा कर सकते हैं, जिसकी अहर्ताएं निम्नांकित हैं:-

Sl. No.	Name of the post	No. of post	Trade	Qualification Required
01			Painter (General)	B.Voc./Degree in Paint Technology/Bachelor of fine arts from AICTE/UGC recognized Engineering College/university with one-year experience in the relevant field. OR 03 years Diploma in Paint Technology/Painting from AICTE recognized board of technical education or relevant Advanced Diploma (Vocational) from DGT with two years' experience in the relevant field. OR NTC/NAC passed in the Trade of "Painter (General)" With three years' experience in the relevant field. <b>Essential Qualification:</b> Relevant Regular RPL variant of National Craft Instructor Certificate (NCIC) under DGT.
02		01	IoT Technician (Smart City)	B.Voc./Degree in Electronics/Electronics and Telecommunication/Electronics and Instrumentation Engineering from AICTE/UGC recognized Engineering College/ university with one-year experience in the relevant field. OR Diploma (Minimum 2 years) in Electronics/Electronics and telecommunication/Electronics and communication/Electronics and Instrumentation from AICTE/recognized board of technical education or relevant Advanced Diploma (Vocational) from DGT with two years' experience in the relevant field. OR NTC/NAC passed in the Trade of "IoT Technician (Smart City)" With three years' experience in the relevant field. <b>Essential Qualification:</b> Relevant Regular RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) under DGT.
03	Training Officer	01	SmartPhone Technician Cum App Tester	B.Voc./Degree in Electronics/Electronics and Telecommunication/Electronics and communication Engineering from AICTE/UGC recognized Engineering College/university with one year experience in the relevant field. OR 03 years Diploma in Electronics/Electronics and telecommunication/Electronics and communication from AICTE/ recognized board of technical education or relevant Advanced Diploma (Vocational) from DGT with two years' experience in the relevant field. OR NTC/NAC passed in the trade of "Smartphone Technician cum App Tester" With 3 years' experience in the relevant field. <b>Essential Qualification:</b> Relevant Regular RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) under DGT.
04		01	Draughtman (Civil)	B.Voc./Degree in Civil Engineering from AICTE/UGC recognized Engineering College/university with one-year experience in the relevant field. OR 03 years Diploma in Civil Engineering from AICTE/recognized board of technical education or relevant Advanced Diploma (Vocational) from DGT with two years' experience in the relevant field. OR NTC/NAC passed in the Trade of "Draughtsman Civil" With 3 years' post qualification experience in the relevant field. <b>Essential Qualification:</b> Relevant Regular RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) under DGT.
05		01	Surveyor	B.Voc./Degree in Survey Engineering/Civil Engineering from AICTE/UGC recognized Engineering College/university with one-year experience in the relevant field. OR 03 years Diploma in Survey Engineering/Civil Engineering from AICTE/recognized board of technical education or relevant Advanced Diploma (Vocational) from DGT with two years' experience in the relevant field. OR NTC/NAC passed in the Trade of "Surveyor" With three years' experience in the relevant field. <b>Essential Qualification:</b> Relevant Regular RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) under DGT.

नोट:- 1. नियुक्ति हेतु CITS उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।  
2. यह नियुक्ति पूर्णतः औपचारिक है, जिसके आधार पर भविष्य में स्थायी करने हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।  
3. Guest Faculty को प्रति घंटे के आधार पर निम्नवत Remuneration प्रदान किया जायेगा:-

(a)	First hour of teaching of CTS Courses	Rs. 200/-
(b)	Second hour of teaching of CTS Courses	Rs. 150/-

उपरोक्त पारिश्रमिक राशि निम्न शर्तों के साथ देय होगा:-  
को प्रतिदिन अधिकतम रु० 500/- (पाँच सौ) मात्र देय होगा।  
च/ एक महीना में अधिकतम 20 दिन कार्य दिवस होगा अर्थात् एक महीना में अधिकतम रु० 10,000/- (दस हजार) मात्र देय होगा।

पदाधार का पता:- Principal, Govt. ITI (General), Ranchi, Iki Road, Hehal, Ranchi, Jharkhand-834005.  
\*आवेदन फार्म <https://iti.jharkhand.gov.in/ITIs/GR20000004/index.aspx> से डाउनलोड किया जा सकता है।

Sd/-  
प्रभारी प्रचार  
PR 305284 Labour Employment and Training(23-24).D  
औ० प्र० संस्थान, राँची (सा०), राँची



